राष्ट्रीय दैनिक

# प्रातःकिरण

दिल्ली एवं पटना से प्रकाशित

हर खबर पर पकड़

/Pratahkiran /Pratahkiran /Pratahkiran

11 14 गेंद में एक रन नहीं बना पाने से निराश हूं ...

शेख हसीना के बेटे का बयान- देश नहीं छोड़ना चाहती ... 12

वर्ष : 12 | अंक : 117 | पटना, बुधवार, 07 अगस्त, 2024 | विक्रम संवत् 2081 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

**मौसम** अधिकतम तापमान 31°C न्यूनतम तापमान 25.0°C

हां 30%
नहीं 50%
कह नहीं सकते 10%

**बाजार**

सोना 59,340

चांदी 55,350

सेंसेक्स 63,327

निफ्टी 18,816

## संक्षिप्त खबरें

### राहुल का बंगलादेश को लेकर सरकार को सहयोग का भरोसा

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बंगलादेश में शांति बहाली को लेकर वह सरकार को हर तरह से अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार श्री गांधी ने बंगलादेश के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार से विदेश नीति पर भी सवाल पूछा लेकिन कहा कि बंगलादेश में जारी संकट को रोकने के लिए वह सरकार को समर्थन देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में श्री गांधी ने सरकार की विदेश नीति और खासकर बंगलादेश की घटनाओं के लेकर सवाल किए लेकिन कहा कि राष्ट्रहित में जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका वह समर्थन करेंगे। उन्होंने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, उनकी संपत्तियों पर हमलों की रिपोर्ट हैं।

### भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को मंगलवार को दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आडवाणी की हालत स्थिर है। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। जुलाई के पहले हफ्ते में भी, आडवाणी को इस अस्पताल में भर्ती किया गया था और दो दिन चिकित्सकीय देखरेख में रखने के बाद (अस्पताल से) छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में रखा गया था।

### झारखंड : स्टील प्लांट में जोरदार विस्फोट, 7 मजदूर झुलसे

रांची। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से कुछ की मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गंभीर रूप से जख्मी चार मजदूरों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बताया गया कि प्लांट की चिमनी में दोपहर 12 बजे के आसपास धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ।

# बांग्लादेश में हालात पर सरकार की नजर, सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क : जयशंकर

प्रातः किरण

नई दिल्ली/,एजेंसी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार बंगलादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निरंतर नजर रखे हुए है और जब तक वहां कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती भारत की गहरी चिंता बनी रहेगी। सरकार ने बांग्लादेश में अस्थिर हालात पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा कि वह पड़ोसी देश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर राज्यसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के दशकों से गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वहां के हालात से यहां भी चिंता उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि वहां जून से हालात बिगड़ने शुरू हुए और यह सिलसिला अब तक जारी है और उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी हालात नहीं बदले। उन्होंने कहा कि जो कुछ पड़ोसी देश में हुआ, उसका एक सूत्री एजेंडा यह था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दें। जयशंकर ने कहा कि पांच अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी वहां दंगे हुए। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में शेख हसीना ने कल कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी और उनका अनुरोध स्वीकार कर उन्हें यहां आने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी भी अस्थिर हालात हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक अनुमान के अनुसार 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 9,000 छात्र हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में अधिकतर छात्र भारत लौट आए। विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सीमा पर सुरक्षा बलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के

निर्देश दिए गए हैं।

**राजनीतिक घटनाक्रम पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा:** सरकार ने मंगलवार को संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक में बंगलादेश में राजनीतिक घटनाक्रम पर गहन चर्चा की तथा राष्ट्रीय आम सहमति कायम करने की कोशिश की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बंगलादेश की मौजूदा स्थिति और बंगलादेश में सामने आ रहे हालात पर भारत के रुख के बारे में भी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में संसद भवन में हुई बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने कहा, बंगलादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी गयी। सर्वसम्मति से दिये गये समर्थन और समझ की सराहना करते हैं। बैठक में एस जयशंकर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोग शामिल हुये।

## बांग्लादेश की संसद आधिकारिक तौर पर भंग

प्रातः किरण संवाददाता

ढाका। बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम प्रशासन के गठन के लिए मंगलवार को संसद को भंग कर दिया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर तीन बजे तक संसद को भंग करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की घोषणा की करेंगे। आंदोलन के एक प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने फेसबुक वीडियो के माध्यम से मंगलवार को सुबह यह जानकारी दी। इस दौरान, उनके साथ साथी समन्वयक आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार भी थे।

**हसीना के देश छोड़ने के बाद से100 से अधिक की मौत:** शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद वहां पैदा हुई अराजकता के बीच देशभर में हिंसा की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई समाचार रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

## सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

# अवैध खनन की सूचना देने पर इनाम देगी सरकार

### छोटे वाहनों के लिए 5 हजार व बड़े वाहनों के लिए 10 हजार का इनाम

प्रातः किरण

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आसूचना तथा कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को पुरस्कार देने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत बालू की अवैध धुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों के लिए सटीक सूचना देने वालों को उनकी पहचान गुप्त रखते हुए पांच हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों की सही सूचना देने वालों को दस हजार की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दिया जाएगा।

**लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा :** राज्य के खनन मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार के इस पहल से सुशासन के प्रयासों से हमारे सामाजिक योद्धा सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे। प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से ईमानदार लोगों के बीच सकारात्मक संदेश तो जाएगा ही साथ ही खनन उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता भी विकसित होगी। यह उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए फायदे की स्थिति होगी। विभागीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि इसके लिए नंबर भी विभाग ने जारी किया है।

**इस नंबर पर फोन कर दे सकते हैं जानकारी :** मंत्री ने बताया कि अवैध खनन की जानकारी देने के लिए मोबाईल संख्या 94731-91437 तथा 99395-96554 पर अवैध खनन एवं परिवहन की जानकारी दे सकेंगे। इन दोनों नंबरों पर 24 घंटे अवैध खनन की जानकारी दी जा सकती है।

**खनन की गाड़ियों की पहचान के लिए वाहनों पर लाल पट्टी :** मंत्री ने आगे बताया कि खनन गाड़ियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी गाड़ियों पर 20 इंच चौड़ाई की लाल पट्टी पेंट कराई जा रही है । जिस पर गाड़ी का नम्बर एवं खनन विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होगा। गाड़ियों की पहचान सुनिश्चित करने की यह प्रक्रिया 31अगस्त तक पूरी करा ली जाएगी ।

**परिवहन विभाग में102 लिपिक की बहाली :** मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 12500 बेरोजगार युवकों को सहायता राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने योजना के 1 साल विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालय में 102 निम्न वरीय लिपिक की बहाली होगी।

### पीएमसीएच में 4315 नए पदों पर होगी बहाली

बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में बंपर बहाली होगी। मंत्रिमंडल ने पीएमसीएच में 4315 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यहां 5462 शैय्या वाले नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसे एम्स दिल्ली के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

## बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 स्वीकृत स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर : सम्राट

पटना। मंगलवार को राज्य कैबिनेट से बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 को स्वीकृत किया गया है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके लागू होने से जहां राज्य के स्थानीय औद्योगिक इकाईयों, उद्यमों का विकास होगा, वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेंगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित होंगे। स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत वस्तु एवं सेवा से संबंधित खरीद के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा 30 प्रतिशत तय की गई है। यानी हर स्थिति में औद्योगिक इकाईयों व उद्यमों को कम से कम 30 प्रतिशत सामग्री व सेवा स्थानीय स्तर पर लेने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यम का मतलब बिहार में निबंधित इकाई और यहीं पर होने वाले उत्पादन से है। इसी प्रकार सेवा के मामले में स्थानीय उद्यम उसे माना जायेगा जो निविदा प्रकाशन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से बिहार में काम कर रहा हो तथा एक वर्ष से सुविधा एवं सेवा कर विवरणी दाखिल किया हो। इसके अलावा उस उद्यम में कुल काम करने वालों में कम से कम 50 प्रतिशत बिहार के निवासी हो। श्री चौधरी ने कहा कि इस नीति में विशेष श्रेणी के उद्यम में बिहार में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई तथा स्टार्टअप को रखा गया है। ऐसे उद्यमों को निविदा की अग्रधन राशि/प्रतिभूति राशि से छूट के साथ ही निविदा के सेट मुफ्त में दिए जायेंगे। बिहार के स्टार्टअप को नामांकन के आधार पर 10 लाख रुपये तक का कार्य दिया जा सकता है। इस नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य खरीद अधिमानता स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक तीन महीने पर इसकी समीक्षा और नीति अनुपालन में कोताही पर उचित कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

# लालू-तेजस्वी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल

### जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नई पूरक चार्जशीट 1000 पन्नों की है। ईडी द्वारा दायर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से निकला है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा आठ अन्य को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब बहस शुरू होगी जिसके लिए 13 अगस्त की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों की नियुक्ति की गई और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनकी संबंधित कंपनी एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 जून को एक अन्य आरोपी अमित कत्याल को जमानत दे दी थी। ईडी के मुताबिक कत्याल एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। उन्हें मेडिकल आधार पर छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी। कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने 11 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

## कोई भी राज्य पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा : शाह

नई दिल्ली/ एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नीत ममता बनर्जी सरकार पर कटाक्ष करते हुए आश्चर्य जताया कि क्या कोई राज्य वामपंथी उग्रवाद को रोकने के संदर्भ में उनके मॉडल को लागू करना चाहेगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पिछले 10-15 सालों से इन राज्यों में है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सफल रही है। उन्होंने सदन में गृह मंत्री से सवाल किया कि क्या वे पश्चिम बंगाल के मॉडल का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे। सौगत रॉय के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को उन राज्यों के मॉडल को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि वहां पश्चिम बंगाल का मॉडल अपनाया जाए।

## हसीना की यात्रा योजना में अड़चन, विकल्पों पर विचार

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्रा योजना कुछ अनिश्चितताओं के कारण अटक गई है और अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद सोमवार को हिंडन एयरबेस पर उतरीं हसीना

को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि हसीना भारत से लंदन जाने वाली थीं, लेकिन अब वह अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि अवामी लीग की नेता हसीना ने भारत के रास्ते लंदन जाने की योजना बनाई थी और उनके सहयोगियों ने हिंडन पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को लंदन में एक बयान में कहा कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ हफ्तों में अभूतपूर्व स्तर की हिंसा और जान-माल की दुखद हानि देखी है और देश के लोग घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। सूत्रों ने कहा कि हसीना की यात्रा योजनाओं में कुछ अड़चन आ गई हैं और वह अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं।

## सम्मान

## मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, शाह ने दी बधाई

# भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से उभर रहा है : राष्ट्रपति मुर्मू

प्रातः किरण

सुवा/नई दिल्ली/एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्वीप देश फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। सुश्री मुर्मु फिजी की सरकारी यात्रा पर यहां पहुंची है। वह यहां की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। राजधानी सुवा के स्टेट हाउस में सोमवार को आयोजित समारोह में फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवलिली काटोनिवेरे ने सुश्री यह पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। उन्होंने फिजी की संसद को भी संबोधित

किया और सांसदों से बातचीत की। सुश्री मुर्मु ने अपने संबोधन में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र, बहुलवाद और विविधता के साझा मूल्य किस तरह दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं। उन्होंने कहा, भौगोलिक आकार में भारी अंतर के बावजूद भारत और फिजी दोनों में बहुत कुछ समान है, जिसमें हमारे जीवंत लोकतंत्र, हमारे समाजों की विविधता, हमारा पंथ कि सभी मनुष्य समान हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। इससे पहले सुवा पहुंचने पर सुश्री मुर्मु का हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सुश्री मुर्मु के सम्मान में पारंपरिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि इससे न केवल विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी मजबूत हुए हैं।

**भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र काफी कुछ एक समान :** फिजी की दो दिवसीय यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वहां की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से उभर रहा है। भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनने के साथ-साथ प्राथमिकताओं के अनुसार फिजी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस मौके पर दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए अपनी साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक साथ आने को कहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आकार में बहुत अंतर होने के बावजूद भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र सहित काफी कुछ एक समान है।

## बांग्लादेश हिंसा : बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट

पटना। बांग्लादेश में उपद्रव और हिंसा को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और एसएसबी को अलर्ट रहने को कहा है। सीमा वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार पुलिस और एसएसबी को तैयार रहने को कहा गया है। सीमांचल में बांग्लादेश और बिहार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कटिहार और किशनगंज से बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही एसएसबी को सतर्क किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड में आ गए हैं। बांग्लादेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में गाड़ियों की और हर आने-जाने वालों की सघन जांच की जा रही है।

## बांग्लादेश की जेल से निकले सैकड़ों कैदी, बंगाल सीमा पर घुसपैठ का खतरा

प्रातः किरण

कोलकाता/एजेंसी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जाने के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता थमी नहीं है। वहां थानों से लेकर जेलों तक हर जगह हमले हो रहे हैं। जेल पर हमला करके आंदोलनकारी प्रतिबंधित जमात के सदस्यों और इस्लामी छात्र संगठन के कैदियों को भी मुक्त करवा रहे हैं। सोमवार रात तक जमात और इस्लामी छात्र संगठन के सैकड़ों कैदियों को छुड़ा लिया गया था। इसके कारण बंगाल की कंटीले तारविहीन सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। इसी आशंका के चलते बीएसएफ ने नाइट विजन कैमरों के साथ सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के पदत्याग के बाद सोमवार को 13 थानों और दो जेलों पर हमले किये गये। प्रदर्शनकारियों ने कई कैदियों को छुड़ा लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो सूत्रों के मुताबिक हसीना सरकार के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जमात और इस्लामिक छात्र संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के कई आरोप लगे थे। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कईयों को मुक्त करा लिया गया है।

ऐसे में सीमा पर घुसपैठ और अन्य गड़बड़ियों का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में रात के अंधेरे में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आने के बाद बीएसएफ ने सतर्कता बढ़ा दी है। हसीना की पार्टी और अवामी लीग के सदस्यों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आरोप है कि उनके घर जलाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वे सीमा पार कर इस देश में भी आने की कोशिश कर सकते हैं।

## संक्षिप्त खबरें

### अरदास के साथ रिहाइश निर्माण का कार्य शुरू

पटना सिटी (प्राकि)। बाबा अमरीक सिंह जी कारसेवा पटियालावाले की ओर से 125 कमरे का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही म्यूजियम भी बनवाया जा रहा है। तख्तश्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में चल रहे इस निर्माण कार्य की दूसरे तल्ले का मंगलवार को लिंटर का काम शुरू हुआ। इसके पूर्व तख्तश्री पटना साहिब के जत्थेदार सह मुख्य ग्रंथी ज्ञानी बलदेव सिंह और अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी ज्ञानी दिलीप सिंह ने अरदास किया। इस दौरान प्रबंधक कमेटी, तख्तश्री हरमंदिर जी पटना साहिब के महासचिव इंद्रजीत सिंह, वरीय उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह, सचिव हरबंश सिंह, प्रबंधक हरजीत सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह आगरावाले के अलावा बाबा अमरीक सिंह जी पटियालावाले, बाबा गुरदीप सिंह, बाबा लक्खा जी आदि मौजूद थे। अरदास के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद सबों ने मिलकर कारसेवा की। इस दौरान कहा गया कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के नाम पर 125 कमरे का भवन का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही म्यूजियम भी बनाया जाना है। काम को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आने वाले प्रकाश पर्व पर संगतों को सुविधा मिल सके।

### लूटपाट गिरोह का सरगना गिरफ्तार

पटना सिटी (प्राकि)। आलमगंज थाना की पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। एएसपी शरथ आरएस ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंगलवार को बताया कि आलमगंज थाना के थानाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने बेलवरगंज के दुर्गा चरण लेन का रहने वाला सरगना वरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूटी गयी बाइक, चोरी व छिनी गई बाइक दस की संख्या में बरामद किया गया है। गिरफ्तार सरगना के खिलाफ चार थाना क्षेत्र में करीब दस मामला दर्ज है। इसमें आर्म्स एक्ट, लूट और आपराधिक मामला शामिल है। गिरफ्तार वरुण के पास से नदी थाना और आलमगंज थाना में लूट में उपयोग की गई बाइक के साथ खाजेकलां में लूटी गई मोटरसाइकिल और घटना में उपयोग किए गए स्कूटी भी बरामद किया गया है।

### बालिगा मध्य विद्यालय में अतिथि भोजन का हुआ आयोजन

दानापुर नगर के खगौल। बालिगा मध्य विद्यालय में मंगलवार को अतिथि भोजन का आयोजन किया गया। जहां कार्यक्रम की शुरूआत अतिथि खगौल नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार, रेलवे स्कूल के प्राचार्य ज्ञानेश्वर एवं बीईओ माला कुमारी के द्वारा केक काटकर आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन पासवान ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अतिथि भोजन का कार्यक्रम किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है गणमान्य लोगों को आमंत्रित कर भोजन खिलाना इसमें मुख्य रूप से शामिल है। वह चाहते है कि ऐसा आयोजन हमेशा होता रहे। इस मौके पर मौजूद बालिगा स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मेहेरे दरक्षा, मोहम्मद अकरम, सामाजिक कार्यकर्ता चंदू प्रिंस मधु कुमारी, लक्ष्मी पासवान, आशा कुमारी, फिज्जा आफरीन, मधु कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, शिक्षक सहित अन्य गण्यमान लोग मौजूद।

### अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार

दानापुर खगौल रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा प्लेटफॉर्म चेकिंग करने के दौरान पश्चिम फुट ओवर ब्रिज के नीचे सूचना मिली कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर कहीं जाने वाला है रेल पुलिस देर न करते अपने कांस्टेबल को तुरंत भेजने का काम किया वहां पर एक लड़का दो पिट्ठू बौग के साथ एक व्यक्ति को धड़ दबोचा। जिनके पास से 750 एमएल का11 बोतल 2 लीटर 6 बोतलअंग्रेजी शराब बरामद किया। गया पकड़े गये वीरू कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पिता प्रेमचंद विश्वकर्मा स,दमरयाही घाट वार्ड नंबर 71 थाना, माल सलामी जिला पटना। इस संबंध में जीआरपी पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्याय हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही

### भगवती मंदिरों में हुआ विशेष श्रृंगार

पटना सिटी (प्राकि)। सावन मास के तीसरे मंगलवार को भगवती व हनुमान मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी थी। शक्तिपीठ श्री बड़ी पटनदेवी के महंत विजय शंकर गिरि, विकास गिरी, श्री छोटी पटनदेवी के आचार्य अनंत अभिषेक द्विवेदी व विवेक द्विवेदी, अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में पुजारी जय प्रकाश, सुनील, अमरनाथ बबलू व व्यवस्थापक पंकज पुजारी की देखरेख में, खाजेकलां के नीमघाट स्थित प्राचीन काली मंदिर में मुन्ना बाबा, दीरापर स्थित काली मंदिर में शशिकांत मिश्रा के नेतृत्व में भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया। गड़हा स्थित पटनदेवी मंदिर में बबलू पांडेय, प्यारे लाल के बाग स्थित शीतला माता मंदिर के साथ काली मंदिर व सर्वमंगला देवी मंदिर, गुलजारबाग में पूजा-अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान किए गए।

# अगले साल फरवरी तक एसजीएस अस्पताल का नया भवन बनकर होगा तैयार : डीएम

- रात में सर्जरी की व्यवस्था करें सीएस, जनौषधि फार्मेसी रात में भी रहे खुला
- जीविका दीदी सफाई व कपड़ा धुलाई करेंगी, अस्पताल को मिलेगा मार्चुअरी वैन

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप सभी के लिए सुदृढ़ विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। अस्पताल के सुचारू कामकाज एवं सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबों को सजग तट पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा। यह बात समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की बैठक में अध्यक्षीय संबोधन में डीम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार एवं आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय में सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी तंत्र तत्पर रहे। डीएम ने आईपीडी में सुधार करने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों में विश्वास बढ़ाने तथा रोगियों के लिए निःशुल्क दवा की हमेशा उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अस्पताल में चिकित्सकों एवं पर मेडिकल स्टाफ की रोस्टर के अनुसार समय से उपस्थिति हो। रोस्टर का प्रमुखता से अस्पताल के सूचना पट पर डिस्प्ले होना चाहिए रोगियों के प्रति व्यवहार ठीक रखा जाए। वरिष्ठ नागरिकों को प्रावधानों के अनुसार हर सुविधा मिले। अस्पताल की साफ-सफाई सुनिश्चित रहे। डीएम ने कहा कि सर्जरी की रात में व्यवस्था करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि ब्लड बैंक भी 24 घंटे क्रियाशील रहना चाहिए। रात में भी जन औषधि फामेर्सी खुला रहे। वाटर क्लीनिंग एवं टेस्टिंग के लिए पीएचईडी के गुणवत्ता नियंत्रण विंग से समन्वय कर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्टिफिकेट एवं क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी को टीम भेजकर अग्निशमन व्यवस्था की समीक्षा कर फायर एनओसी प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया। अस्पताल में जीविका दीदी के द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किया जाता है। इसे रोगियों को निःशुल्क भोजन मिलता है। इस महीना के अंत तक अस्पताल में साफ-सफाई एवं कपड़े की धुलाई की व्यवस्था भी जीविका के माध्यम से शुरू की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में न्यू बोर्न केयर सेंटर के पास मदर शेड एवं ओपीडी के पास रोगी सह परिचर वेटिंग शेड का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सिविल सर्जन एवं उप महाप्रबंधक बीएमएसआईसीएल को निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करें कि एसएनसीयू में हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऑक्सीजन आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित हो। अस्पताल में अधीक्षक एवं उपाधीक्षक सहित अनेक पद रिक्त हैं। सिविल सर्जन को इसके लिए विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल के पास से जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। चहारदीवारी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। फरवरी 25 तक नया भवन भी बन कर तैयार हो जाएगा। अस्पताल को एक मार्चुअरी वैन शीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है। रोगियों के लिए हर मंजिल पर दो-दो आरओ की व्यवस्था की गई है। पेस्ट कंट्रोल के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। रोगी कल्याण समिति द्वारा प्रस्तावित एजेंडा पर एक-एक कर चर्चा की गई। मरीज के हित में दवा एवं एंबुलेंस की उपलब्धता, इमरजेंसी, ऑपरेशन, पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे एवं अन्य सुविधा, स्वच्छता सहित उन बिंदुओं पर सिविल सर्जन द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि दूर दराज एवं वंचित समुदाय के लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ही एकमात्र स्रोत है। जरूरतमंदों को इलाज में प्राथमिकता दी जाए। अधीक्षक के द्वारा डीएम के संज्ञान में लाया गया कि अस्पताल में मरीजों के लिए 51 प्रकार का पैथोलॉजी जांच उपलब्ध है। 21 जांच रिपोर्ट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाता है। इस वर्ष जून माह तक ओपीडी में 59,617 मरीज का उपचार किया गया। ओपीडी के माध्यम से 3,085 मरीजों को आईपीडी (इंडोर) की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

# साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा ब्लड बैंक : नंदकिशोर

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

मंगल तलब के पूर्वी छोर पर रामदेव महतो सामुदायिक भवन से सटे उत्तर बन रहा ब्लड बैंक इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा इसके अगले दो माह के अंदर यह काम करना शुरू कर देगा यह बात इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी पटना सिटी के द्वारा निमार्णाधीन अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निरीक्षण के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सह मुख्य संरक्षक इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी ने कही। उन्होंने कहा कि पटना सिटी के शहरी क्षेत्र में ब्लड बैंक स्थापित करने का उनका सपना था उनकी पत्नी स्वर्गीय किरण देवी कैंसर से पीड़ित थी और उन्हें लगातार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी तो वह इस स्थिति को झेल चुके हैं यही कारण था कि उनका सपना था एक ब्लड बैंक स्थापित करने का। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी से आग्रह करने पर उन्होंने बनने वाले ब्लड बैंक के भवन के लिए अपने सांसद निधि से फंड देने का काम किया आज वह हमारे बीच नहीं है मगर उनके द्वारा स्वीकृत की गई राशि से यह रक्त अधिकोष बन रहा है हम सब उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। चेयरमैन गोविन्द कानोडिया ने अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का स्वागत करते हुए उन्हें कार्य योजना से अवगत कराया।

विधानसभा अध्यक्ष श्री यादव ने भवन निर्माण कार्य को अक्टूबर माह तक पूरा करने और पार्किंग स्थल को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने आगे में रहे गेट को थोड़ा और चौड़ा करने की बात भी कही। रोगियों के इलाज की चिंता व्यक्त करते हुए एक फ्लोर और बनवाने पर जोर दिया, ताकि मरीजों को चिकित्सीय लाभ भी दिया जा सके। पीछे की जो चहारदीवारी पूरी टूटी हुई है, उसके निर्माण के लिए भी विभाग के सचिव से बात की। इस अवसर पर योजना एवं भवन विभाग की सहायक अभियंता अर्पिता तिवारी, रेडक्रॉस की सचिव तारा झुनझुनवाला, संरक्षक डॉ त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, सदस्य प्रभाकर मिश्रा, पाटलिपुत्र परिषद के महासचिव संजीव कुमार यादव, ललित अग्रवाल, अमित कानोडिया, रौली बूबना आदि उपस्थित थे।

# सत्यम कुशवाहा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च

प्रात :किरण संवाददाता

बिहटा। सत्यम कुशवाहा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला गया` आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से सत्यम के परिजनों व क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है` स्थानीय लोगों ने पुलिस की उदासीन रवैये पर नाराजगी जताते हुए हुए कैंडल मार्च में सरकार व प्रशासन से यथाशीघ्र सत्यम के हत्यारों को गिरफतार करने की मांग की` मौके पर लोगों ने कहा कि जिन अपराधियों सलाखों के पीछे होना चाहिए वे बेखौफ घूम रहे हैं, प्रशासन अभी तक कार्रवाई में विफल है बता दें पिछले दिनों बिहटा सिकंदरपुर निवासी सत्यम कुशवाहा को अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी उक्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिससे नाराज लोगों ने मंगलवार को बिक्रम के नगहर पंचायत के मुखिया अजित कुमार के नेतृत्व में मचा बाबा के मंदिर से लेकर बिहटा चौक तक कैण्डल मार्च निकाल कर पुलिस व सरकार से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की` मौके पर नगहर मुखिया अजीत कुमार अपने टीम के सदस्य के साथ शामिल हुए।

# छात्रों को विभिन्न प्रकार के कैंसर व अंगदान के महत्व के बारे में बताया

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा नव अस्तित्व फाउंडेशन के सहयोग से राजकीय महिला महाविद्यालय, गायघाट में ह्यूशी हेल्थ टॉक पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में डॉ श्वेता राय एसोसिएट डायरेक्टर, गायनी ऑकोलॉजी तथा डॉ कृष्ण मोहन साहू डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एवं नव अस्तित्व फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। डॉ श्वेता राय ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के द्वारा कैंसर एवं इसके प्रकार, कैंसर स्क्रीनिंग, जेनेटिक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एवं स्तन कैंसर पर चर्चा की। साथ ही उसके विविध पहलुओं के बारे में छात्राओं को बताया। महिलाओं एवं युवतियों के लिए सर्वाइकल वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर कृष्ण मोहन साहू ने भी अपनी प्रस्तुति में अंगदान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। अंगदान और उसके विविध पहलुओं के बारे में छात्राओं से इंटरएक्टिव सत्र में चर्चा हुई। मूत्र रोग संक्रमण के बारे में भी जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धक था। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ इला एवं कार्यक्रम संयोजिका डॉ श्रीमती सबीहा अहसन (गणित विभाग) ने अतिथियों का स्वागत पौधा तथा मधुबनी पेंटिंग फ्रेम देखकर किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ उषा यादव तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ कुमारी निमिषा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सभी सहायक प्रोफेसर, कर्मचारी गण अमित कुमार एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

# बुलंद आवाज के बाद विस अध्यक्ष नंदकिशोर की दूसरी पुस्तक विकास के प्रतिमान

## 11 को विधानसभा ऑडिटोरियम में किया जाएगा लोकार्पण

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

नेता प्रतिपक्ष के रूप में नंदकिशोर यादव की यादगार पुस्तक बुलंद आवाज लोगों के मानस पटल पर आज भी छाया हुआ है। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की दूसरी पुस्तक विकास के प्रतिमान का लोकार्पण 11 अगस्त को किया जाना है। दरअसल बिहार सरकार में पथ निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में नंदकिशोर यादव ने काम किया है। वह पटना पूर्वी और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का लगातार सात बार प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में किए हैं। वह पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर क्षेत्र के किसी भी मतदाता के सुख-दुख में उसके साथ खड़े होने वाले नेता हैं। नंदकिशोर जी सरकार में चाहे जिस भी विभाग के मंत्री रहे, विकसित बिहार के सपने को साकार करने में वह जी जान से जुटे रहे। वैसे श्री यादव स्वास्थ्य व पर्यटन के अलावा लंबे समय तक पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं। इस दौरान उनका संकल्प बिहार में सड़कों व पुलों का जाल बिछा कर यहां की आधारभूत संरचना को मजबूत करना रहा। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर और पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर (वैशाली) तक बन रहा पुल, जो आज निमार्णाधीन है, वह नंदकिशोर यादव की ही देन है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पीड़ित जनता के लिए सरकारी अस्पतालों को अधिक साधनसंपन्न और सक्रिय बनाए। मंत्री के तौर पर विकास के शिखर गढ़ते नंदकिशोर यादव की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन्हें वर्षों तक याद रखा जाएगा। बिहार के विकास की गाथा यहां की चिकनी, चौड़ी, चमकदार सड़कों व अनेक मेगा ब्रिज तथा पुल-पुलियों की चर्चा के बिना यह कभी पूरी नहीं होगी। इन सबका श्रेय नंदकिशोर यादव के खाते में ही जाता है। दीघा-दीदारगंज के बीच जेपी पथ, भद्रघाट से कंगन घाट और अब पटना घाट तक गंगा किनारे रोड भी उनके कार्यकाल की देन है। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने भाषण में यह कहते नहीं थकते कि बिहार के किसी भी कोने से पटना आना अब महज चार से पांच घंटे में संभव है। विकास के प्रतिमान पुस्तक का लोकार्पण बिहार विधानसभा के ऑडिटोरियम में 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा। इसका लोकार्पण बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के मंत्री मंगल पांडेय, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन होंगे। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। संपादक राकेश प्रवीर हैं। दर्शनाभिलाषी प्रभात कुमार,पीयूष कुमार और उत्तरापेक्षी प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं।

# ई-रिक्शा चालक मनोज की हत्या की गुत्थी सुलझी

## घटना में उपयुक्त बाइक, चाकू, गमछा, ई-रिक्शा व मोबाइल बरामद

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

दीदारगंज थाना के मिजार्पुर गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। उसकी चौक थाना क्षेत्र के नेहरू टोला के रहने वाले ई-रिक्शा चालक मनोज कुमार के रूप में हुई है। भाड़ा विवाद में दो अभियुक्तों ने चाकू मार उसकी हत्या किए जाने के बाद साक्ष्य को छुपाने को शव मिजार्पुर में फेंक दिया था। अगवा कर हत्या किए जाने के आरोप में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बयान के बाद मामले का खुलासा हुआ है। मंगलवार को यह जानाकारी सिटी एसपी पूर्वी भारत सोनी एवं डीएसपी डॉ गौरव कुमार ने दी। सिटी एसपी ने बताया कि दीदारगंज थाना की पुलिस ने तीन अगस्त को मिजार्पुर गांव के झाड़ियों के बीच एक युवक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच कर नमूना उठाया था। चार अगस्त को चौक थाना क्षेत्र के नेहरू टोला निवासी मां सीमा देवी ने बेटे के शव की पहचान कर बताया कि शव उनके बेटे 30 वर्षीय मनोज कुमार की है। वह 31 जुलाई की रात पटना साहिब स्टेशन से एनएमसीएच के लिए ई-रिक्शा लेकर गया था। बेटा माथुरी कंपनी का गाड़ी चलाता था। दो अगस्त को मां के बयान पर चौक थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के निर्देश पर डीएसपी डॉ गौरव कुमार, चौक थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा के साथ टीम का गठन कर मामले की छानबीन शुरू की गई थी। पुलिस ने रूट में लगे 70 कैमरों को खंगाला और तथ्यों को जुटाया। इसके बाद टीम ने मूलतः बेगूसराय निवासी कन्हैया पोद्दार वर्तमान पता मालसलासी के भैंसानी टोला के श्याम सुंदर कुमार के मकान में बतौर किराएदार और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संतोष भी कन्हैया के साथ ही किराए के मकान में रहता था। दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष पूछताछ में बताया कि मारे गए मनोज को प्रतिदिन ई-रिक्शा चलाने के लिए तीन सौ रुपया भुगतान करना था। इसी रुपए को लेकर आपस में तनाव होने की वजह से साजिश के तहत हत्या कर शव को मिजार्पुर में फेंक दिया था। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना में उपयुक्त बाइक, चाकू, गमछा, ई-रिक्शा एवं उक्त मोबाइल को बरामद किया। इस मोबाइल से मारे गए मनोज एवं अभियुक्तों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस ने बताया कि बरामद गमछा अभियुक्त कन्हैया का है, जो घटनास्थल पर छूट गया था। छापेमारी टीम में डीआईयू के निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार आदि शामिल थे।

# बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 02 लाख से अधिक रेल पहियों का किया गया उप्तादन

प्रात :किरण संवाददाता



हाजीपुर। भारतीय रेल की पहियों की मांग को पूरा करने के लिए सारण जिले के दरियापुर में रेल व्हील प्लांट की स्थापना की गयी है । यह 01.08.2014 से भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई बन गया। अब यह संयंत्र अपनी सफलता के 10 वर्ष पूरा कर चुका है । इस संयंत्र की आधारशिला 29-07-2008 को रखी गई थी । भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक अत्यधिक चुनौतिपूर्ण कार्य को बिना किसी विदेशी सहायता के स्थापित किया गया । यह रेलवे इंजीनियरों के आंतरिक क्षमता व विश्व प्रसिद्ध भारतीय कंपनी के विशेषज्ञता से संभव हो पाया । इस संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष एक लाख तक पहियों के निर्माण की है । इस संयंत्र के निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपये की लागत आयी है । रेल व्हील प्लांट, बेला के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2005-06 में प्रदान की गयी थी। पहियों का निर्माण फरवरी, 2013 से प्रारंभ हो गया । इसका प्रारंभिक उत्पाद बॉक्स-एन व्हील था। अब यह संयंत्र क्षेत्रीय रेलवे, वर्कशॉप और कॉनकॉर के पहियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीजी कोचिंग (आईसीएफ), ईएमयू और बीएलसी पहियों का उत्पादन भी कर रहा है। बीएलसी पहियों का उत्पादन 03 जुलाई2023 से तथा ईएमयू व्हील का उत्पादन 14.11.2023 से प्रारंभ हुआ । पर्यावरण अनुकूल बनाते हुए प्लांट क्षेत्र के 33 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। रेल व्हील प्लांट/बेला ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक क्षेत्र में मील का पत्थर हासिल किया है । वर्ष 2013-14 में इस प्लांट द्वारा 201 पहिया का निर्माण किया गया था । परंतु इसके बाद पहियों के निर्माण में काफी तेजी आयी । वर्ष 2014-15 में 1862, वर्ष 2015-16 में 12054, वर्ष 2016-17 में 12593, वर्ष 2017-18 में 23276, वर्ष 2018-19 में 20754, वर्ष 2019-20 में 26150, वर्ष 2020-21 में 25241 तथा 2021-22 में 24255 पहियों का उत्पादन किया गया । इसी तरह वर्ष 2022-23 में 24518 तथा पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2023-24 में रिकॉर्ड 42167 रेल पहियों का उत्पादन किया गया । रेल पहिया उत्पादन के क्षेत्र में 2023-24 में प्राप्त उपलब्धि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है । इस प्रकार स्थापना से अब तक इस संयंत्र द्वारा 2 लाख 16 हजार से अधिक रेल पहिया का निर्माण किया।

# एएनएम के कौशल विकास में ई-क्षमता प्लेटफार्म है कारगर

## ई-क्षमता के जरिए एएनएम को ऑनलाइन मिल रही शिक्षण और कौशल विकास सामग्री

प्रात :किरण संवाददाता

पटनाः आमजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है. इसके लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं के नियमित कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य सरकार सूबे में सेवा परिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. इस दिशा में इसी वर्ष मार्च महीने में ह्यमिशन उन्नयनह्ल की शुरूआत की गयी. साथ ही एएनएम को ऑनलाइन शिक्षित करने के लिए ई-क्षमता (ह्यई-लर्निंग प्लेटफार्मह्ल) एप शुरू किया गया है। ई-क्षमता (ई-लर्निंग प्लेटफार्म) एप के जरिए नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पेशेवरों के नियमित सीखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बिना लागत की डिजिटल सामग्री तैयार की गयी है. इन संसाधनों का मुख्य उद्देश्य उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना है. इसे बहुत ही सरल एवं आसान रूप से बनाया गया है ताकि एएनएम आसानी से डिजिटल शिक्षण मार्ग के जरिए इन संसाधनों का उपयोग कर सकें. इस शिक्षण सामग्री की सहायता से वे अपने कार्यों में पहले से भी अधिक दक्ष भी हो सकेंगी. सभी सेवारत नियमित एवं संविदा पर कार्यरत एएनएम द्वारा अनिवार्य रूप से ई-लर्निंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने के लिए राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देशित भी किया गया है। ई-क्षमता हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है. ई-क्षमता एप को मोबाइल पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिए एएनएम को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी, उनके द्वारा किए गए प्रोग्रेस एवं उनकी आवश्यक योग्यता के अनुरूप कोर्स भी उपलब्ध होता है. इसके जरिए एएनएम को यह भी ज्ञात हो सकेगा कि उन्होंने अपनी तय भूमिका के विरुद्ध कितना कार्य पूर्ण किया है।

# स्तनपान को लेकर माताओं को संवेदनशील होना होगा: डॉ उषा

- एनएमसीएच गायनी में स्तनपान को ले आयोजित हुआ जागरुकता कार्यक्रम

पटना सिटी, प्रात :किरण संवाददाता

नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी विभाग की ओर से एमसीएच भवन मे स्तनपान को लेकर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्राचार्या डॉप्रो उषा कुमारी ने करते हुए कहा कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराना चाहिए। नवजात को छह माह तक मां का दूध ही पिलाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्त्री व प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ प्रो दीप्ति राय व संचालन डॉ वीणा सिन्हा ने की। पीएसएम विभाग की विभागाध्यक्ष डॉप्रो अमिता सिन्हा ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने के महत्व के बारे में बताया।आयोजन मे डॉ तबस्सुम अहमद, डॉ आरती, डॉ वीणा सिन्हा, डा संगीता, डॉ प्रतिमा, डॉ विनीता कुमारी ने भी अपने विचार रखे। आयोजन में डॉ पूजा वर्मा, डॉ पूनम, डा कीर्ति, डॉ तृप्ति, डॉ शिवानी, डॉ सपना, डॉ अंशु, डॉ नेहा, डॉ खुशबू आदि चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व मरीज व उनके परिजन उपस्थित रहे।

# वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने के लिए कमिटी का होगा गठन

## कैबिनेट फैसला : सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए राज्य सरकार का बड़ा निर्णय

पटना, प्रात : किरण संवाददाता



सूबे में सड़क हादसे में हो रही मौत पर राज्य सरकार संवेदनशील है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने परिवहन विभाग को अधिकृत किया है। साथ ही इसके लिए कमिटी गठन करने की अनुमति दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कुल 36 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताय कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न सड़कों, नगर निकाय अंतर्गत सड़कों पर वाहनों के तीव्र गति के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने हेतु परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही किये जाने तथा इस हेतु एक कमिटी गठित करने की अनुमति प्रदान दी गई। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमिटी में यातायात के एडीजी सहित अन्य सदस्य होंगे। परिवहन विभाग द्वारा गठित कमिटी राज्य में विभिन्न सड़कों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारण करेगा। ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना का वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के एक पद एवं उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के उत्तर में स्थित 1.6 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड ने खेल विभाग को हस्तांतरित किया है। इसके लिए 48 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है।

### पटना जू में फिर से शिशु रेल का होगा परिचालन

पटना जू में फिर से शिशु रेल का परिचालन होगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बंद पड़ी टॉय ट्रेन को 9 करोड़ 88 लाख 60 लाख हजार की लागत पर दानापुर रेल मंडल के माध्यम से पुनः संचालित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल इसका संचालन करेगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 के स्वीकृति दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। अब उनके सहयोग के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

# मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की स्वीकृति इलाज के लिए मिलेगा 15 लाख की राशि

## स्वास्थ्य विभाग और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के बीच होगा करार

- थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मिलेगा वरदान : मंत्री



पटना, प्रात : किरण संवाददाता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत इलाज के लिए 15 लाख मिलेगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार में मौजूदा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब इन बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बोनमैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा। जिससे इन बच्चों को बार-बार खून चढ़ाने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। साथ ही परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। अक्सर गरीब परिवार के बच्चों में जब यह बीमारी मिलती है, तो अधिक खर्च की वजह से यह ट्रांसप्लांट कराना संभव नहीं हो पाता है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में विभाग ऐसे बच्चों को उचित मदद पहुंचाने में कृत-संकल्पित है। जिसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के बीच करार होगा। इस योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रति रोगी 15 लाख का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। श्री पांडेय ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चों (12 वर्ष या उससे कम आयु) में पायी जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर के निरोधात्मक उपचार, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए योजना को स्वीकृति दी गई है। थैलेसीमिया एक गंभीर, जन्मजात एवं वंशानुगत बीमारी है। जिसमें माता-पिता में पाए जाने वाले इस रोग की वजह से नवजात शिशु भी इस जानलेवा रोग से ग्रसित हो जाता है। श्री पांडेय ने बताया कि इस योजनान्तर्गत, बिहार के 12 वर्ष या उससे कम आयु के बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित रोगी, जिनका लीवर साइज 5 सेंटीमीटर से कम हो लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत रोगी, मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच डोनर एवं रोगी के अभिभावक को वेल्लोर भेजा जाएगा। जहां उनका एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बोन मैरो का प्रतिस्थापन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में प्रति रोगी लगभग 15 लाख रुपये का व्यय होगा, जिसे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से वहन किया जाएगा। चिकित्सकों के अनुसार बोनमैरो ट्रांसप्लांट के पहले एचएलए मैचिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पीड़ित बच्चे के भाई-बहन के बोन मैरो मैच कराए जाते हैं। जिसमें पीड़ित बच्चों के भाई-बहन से 100 फीसदी एचएलए मैच करने पर ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट संभव होता है।

# ई-म्युटेशन से आमलोगों को म्युटेशन में कम होगी परेशानी : मंत्री

- ई-म्युटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरूआत

पटना, प्रात : किरण संवाददाता



राज्य के रैयतों को पारदर्शी एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्व से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं को और प्रभावकारी एवं उत्तरदायी बनाया है। इस कड़ी में मंगलवार से ई-म्युटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरूआत विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। डॉ जायसवाल ने बताया कि बिहार के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्युटेशन की सुविधा दी जा रही है। विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर और रैयतों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर उनमें कई और खूबियां जोड़ी हैं। ई-म्युटेशन नामक यह सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और म्युटेशन में आमलोगों को होनेवाली परेशानियां कम होंगी। घटाई जानेवाली जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने की स्थिति में ही दाखिल-खारिज का आवेदन किया जा सकेगा। विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने या वांछित रकबा, खाता, खेसरा नहीं होने की स्थिति में विक्रेता को परिमार्जन के माध्यम से अपने नाम से कायम जमाबंदी का सुधार करना होगा। इसके पश्चात ही ऑनलाइन म्युटेशन आवेदन किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था में दाखिल-खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है। आवेदन में खाता, खेसरा, रकवा, नाम, जमाबंदी व साक्ष्य से संबंधित अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस कर देगा। आवेदक सभी त्रुटियों का निवारण करके उसे पुनः अंचल अधिकारी के पास भेज देगा तब वाद की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ होगी। इस प्रकार अस्वीकृति की संभावना कम हो जाएगी एवं आवेदन में त्रुटि के कारण अस्वीकृत होने पर आवेदक को अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल को और विस्तार दिया गया है। अब डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का भी से विस्तार किया गया है। समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की तरह समाहर्ता एवं आयुक्त के न्यायालय के राजस्व संबंधी सभी वाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे। कॉज लिस्ट, सुनवाई की तारीख, आईए दायर करने एवं पारित आदेश को ऑनलाइन देखने की सुविधा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अपील, म्युटेशन रिवीजन अपील, भू हदबंदी अपील, भू-दान अपील आदि ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। इसी तरह आयुक्त की अदालत में बीएलडीआर अपील एवं जमाबंदी रद्दीकरण रिवीजन को ऑनलाइन दायर करने की सुविधा दी गई है। डॉ जायसवाल ने बताया कि सुधारों की प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि आम लोगों को बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध करा सकें।

# अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाएगी सरकार : विजय

पटना, प्रात : किरण संवाददाता



राज्य कैबिनेट ने बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आसूचना तथा कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को पुरस्कार देने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत बालू की अवैध धुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके संबंध में उपमुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ी पहल की है। आज कैबिनेट ने अवैध खनन की रोकथाम में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त लोगों के संबंध में सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। आसूचना सटीक होने से अवैध खनन तथा परिवहन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। जिससे अवैधकताओं को चिह्नित भी किया जा सकेगा और नियम संगत कार्रवाई के जरिये अवैध प्रचालनों को पूरी तरह हतोत्साहित भी किया जा सकेगा। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार द्वारा बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसे निष्पादित करने के लिए 2 महीने में बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से राज्यभर के उपभोक्ताओं को एक समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति हो पाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान जब्त बालू की नीलामी भी सरकार कराने जा रही है। इसके लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण विभागों के शिडयूल ऑफ रेट अथवा भोजपुर एवं अन्य जिले के विभिन्न बालू घाटों पर निर्गत चालान के दर को आधार मानकर किया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि इन तामम कार्रवाई के माध्यम से सरकार अवैध खनन एवं व्यापार पर जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश देना चाहती है। किसी भी स्तर पर कोई भी अवैधकर्ता बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में हमने मजबूत पहल कर दी है। चंद दिनों में धरातल पर इसका स्पष्ट प्रभाव जनता देखेगी। सरकार राज्य में खनन परिदृश्य को स्वस्थ, समेकित और स्वच्छ बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

# बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन सतर्क : विजय

## लैंड फॉर जॉब मामले में जांच एजेंसियां निष्पक्षता से अपना काम कर रही है: जमा खां



पटना। जलसंसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चैधरी ने बांग्लादेश में चल रहे मौजूदा घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। मंगलवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब श्री चौधरी ने कहा कि भारत सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और बिहार सरकार ने भी किसी तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और शुरूआती दिनों से ही हमारे बीच मधुर संबंध रहे है। हम बांग्लादेश में जल्द शांति बहाल की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की घटनाओं के संदर्भ में कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय कृत्य है। वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां ने लैंड फॉर जॉब केस प्रकरण पर कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता से अपना काम कर रही है और मामला न्यायालय में है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन की खबरों पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी समाने नहीं आई है और ना ही किसी ने विधेयक को पढ़ा है इसलिए ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक बयानबाजी करना मुनासिब नहीं है। इससे पहले मंत्रीगण ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुचें आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक पहल की। मौके परविधानपार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी एवं पार्टी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे।

# इंडी गठबंधन करती है तुष्टिकरण की राजनीति जनता माफ नहीं करेगी : जायसवाल

## हर घर तिरंगा कार्यक्रम देशभक्ति की भावना का प्रसार करना : विजय




पटना, प्रात : किरण संवाददाता

बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम हर घर तिरंगा को लेकर मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई तथा इस कार्यक्रम को राजधानी पटना से लेकर गांव के बूथों तक सफल बनाने का संकल्प दोहराया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रवाद की आग कभी बुझने वाली नहीं है क्योंकि इस देश को आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि कॉंग्रेस और भाजपा को समझने की जरूरत है। पास के ही मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर आज दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। भाजपा गुलामी के प्रतीक को हटाने की बात करती है। आज इंडी गठबंधन तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है , जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए जात -पात की राजनीति समाप्त करनी होगी। उन्होंने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हर घर तक तिरंगा फहराकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने का संदेश देना है। उन्होंने कार्यकताओं को सम्मान देने की बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ता को इसका एहसास होना चाहिए की आज उनकी सरकार है। उन्होंने कार्यकताओं को भरोसा देते हुए कहा कि मैं पटना से लेकर बूथ तक कार्यकताओं को समर्थन देने के लिए खड़ा हूं।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर घर तिरंगा के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा के साथ लोगों को जोड़ा है। यह तिरंगा देश की एकता और अखंडता का परिचायक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान भी चलेगा इससे न केवल क्षेत्र की गंदगी दूर होगी बल्कि मन कि मलीनता भी दूर होगी। इस दौरान मंच पर प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर, मिथिलेश तिवारी, शिवेश राम, राजेश वर्मा उपस्थित रहे।

### बूथ स्तर पर चलेगा हर घर तिरंगा अभियान : सम्राट

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह अभियान पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्र का अभियान है। इसीलिए यह पूरा अभियान पार्टी के झंडे-बैनर के तहत नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव व सम्मान के प्रतीक तिरंगा के साथ चलेगा। उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके जरिए ही धर्मवाद और जातिवाद को परास्त किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्रीराम अपने भव्य मंदिर में विरजमान हुए हैं,उसी तरह से बिहार में भी माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से विचार-विमर्श के बाद नवम्बर से अभियान चलेगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की टीम में प्रत्येक जिले से पांच - पांच लोगों को शामिल किया गया है। वे भी इस बैठक में सम्मिलित रहे।

# मुख्यमंत्री होमस्टे व बेड एंड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति

- बिहारवासियों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग होगा प्रशस्त : मंत्री

पटना, प्रात : किरण संवाददाता

राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवा को मुख्यमंत्री होमस्टे,बेड एंड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ग्रामीण पर्यटन एवं ईको पर्यटन स्थल के समीप पर्यटकों को आवासन की सुविधा तथा उन्हें मंगलमय परिभ्रमण एवं सुखद अनुभव प्रदान करने हेतु होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरूआत की जा रही है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में पर्यटन के विभिन्न आयामों का विस्तार हो रहा है, जिसमें ग्रामीण पर्यटन एवं इको पर्यटन मुख्य रूप से आकर्षण का केन्द्र बन रहे हैं। पर्यटकों को पर्यटन स्थल के समीप आवासन, मंगलमय परिभ्रमण एवं सुखद अनुभव प्रदान करने हेतु इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान विश्राम हेतु आरामदायक एवं स्वच्छ बिहारी परिवेश का कमरे, बेड अपेक्षाकृत कम खर्च में उपलब्ध कराना है, जहाँ पर्यटकों को बिहार की संस्कृति, खान-पान एवं परम्पराओं से रू-ब-रू होने का अवसर मिल सके। इस योजना में ठहरने वाले पर्यटकों को अतिथि देवो भवः की सार्थकता का अनुभव होगा साथ ही पर्यटन क्षेत्र में राज्यवासियों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रथम चरण (अगले 5 क्रमिक वित्तीय वर्षों में) में 1000 कमरों को होम स्टे में परिवर्तित किया जाना है। शहरी इलाके के पर्यटन स्थल से 5 किमी और ग्रामीण, इको पर्यटन स्थल से 10 किमी की परिधि में मकान मालिक, प्रमोटर को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। वित्तीय लाभ के तहत कमरे के उन्नयन हेतु बैंक से प्राप्त ऋण की राशि के ब्याज की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी। ऋण की राशि की अधिकतम सीमा 2.50 लाख रुपये प्रति कमरे तय की गयी है। इसके साथ अन्य गैर वित्तीय लाभ के तहत इसका प्रचार-प्रसार विभागीय वेबसाईट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही इनके आरक्षण हेतु टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंट को प्रेरित किया जायेगा तथा मकान मालिक/प्रमोटर के संवर्द्धन हेतु कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है।

# सहायक उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो : एजाज अहमद



पटना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने मंगलवार को पटना में सहायक उर्दू अनुवादको पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज तथा उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटे जाने की घटना की घोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के इस रवैया से नौजवानों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नौकरी की जगह अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज तथा पिटाई करवा कर न्याय और हक की गुहार लगाने से रोक रही है, जबकि सबको पता है कि वर्ष 2019 में ही बिहार कर्मचारी आयोग के माध्यम से 1275 पदों के लिए सहायक उर्दू अनुवादको की बहाली निकाली गई थी। इस पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आया है, जबकि 5 साल होने को है। एजाज ने आगे राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर क्या कारण है अबतक कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने में कोताही बरती है, और जब अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पहुंचते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। एजाज ने राज्य सरकार से अविलंब 1275 सहायक उर्दू अनुवादको की बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने तथा नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। कहा कि उर्दू अनुवादको की बहाली नहीं होने के कारण बहुत सारे कार्यालय में उर्दू के आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और काम रुक पड़े हुए हैं।

# प्रशिक्षण के बाद पदाधिकारियों में शोध एवं जानकारी का होगा विकास : मंत्री

## कृषि विभाग व भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- प्रशिक्षण कार्यक्रम से निखरेगा अधिकारियों का प्रबंधन कौशल, कार्य निष्पादन में आएगी तेजी

पटना, प्रात : किरण संवाददाता



कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय तथा विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के निदेशक विनीता एस सहाय तथा निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी द्वारा कृषि विभाग के पदाधिकारियों के बैच के प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रो अमित श्रीवास्तव, सह प्राध्यापक तथा बामेती के शारदा शर्मा, उप निदेशक कृषि द्वारा सह हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर निदेशक कृषि मुकेश कुमार लाल, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, अपर सचिव शैलेन्द्र कुमार सहित विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन कृषि विभाग के सहायक निदेशक, उप निदेशक स्तर के सभी कोटि पदाधिकारियों के क्षमता संवर्धन तथा प्रबंधन कौशल को निखारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। पदाधिकारियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम बोधगया स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले दो वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से विभाग के 350 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रत्येक बैच में कुल 30 पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्री ने कहा कि पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों के साथ कार्य करने में उनके व्यवहार तथा सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता यादि में गुणात्मक परिर्वतन लाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त उनके किसानों तथा विभाग के प्रति शोघ, जिम्मेदारी तथा विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। उन्होंने पदाधिकारियों को बताया कि यह एक सुनहरा अवसर है कि अपने कार्य पद्धित में सुधार करने का, अपने को व्यवस्थित करने का तथा आप में कुछ नया सिखने का इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इस मौके पर कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में हर क्षेत्र में प्रबंधन का गुण बहुत जरूरी है। आईआईएम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से पदाधिकारियों की दक्षता बढ़ेगी और विभाग की योजनाओं तथा कार्यों में उनके ज्ञान एवं कौशल का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा। इसके उद्देश्यों में अधिकारियों में नयी चीजों व नये विचारों को ग्रहण करने, समय और ऊर्जा का प्रबंधन, नवोन्मेष और सुझाव देने योग्य व्यक्तित्व का निर्माण करना शामिल है। अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यह भी सीख सकेंगे कि विभाग और समाज के लाभ और उत्थान के लिए विभिन्न परिस्थितियों में कैसे संसाधनों का उपयुक्त उपयोग और प्रबंधन किया जाता है। डा विनिता एस सहाय, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया ने अपने संबोधन में कहा कि बोधगया का भारतीय प्रबंध संस्थान देश का सबसे बड़ा प्रबंध संस्थान है। आज 293 शहरों के बच्चे भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया में विभिन्न पाठयक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है और यह खुशी की बात है कि 17 प्रतिशत छात्र बिहार के है।

# जलापूर्ति योजनाओं का देखरेख अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे

## 5 वर्षों तक संचालन व मरम्मति हेतु 3 हजार 6 सौ11 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति

पटना, प्रात : किरण संवाददाता

प्रदेश में सभी जलापूर्ति योजनाओं का देखरेख अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे होगा। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु 1 लाख 08 हजार 372 प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षों तक संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु 3 हजार 6 सौ11 करोड़ 45 लाख 33 हजार की योजना की स्वीकृति दी गई। दनियावां पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अली को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कटिहार के अमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर गुप्ता सुषमा संजय को सेवा से बर्खास्त किया गया है। चेरिया बरियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अकबर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। ताराबाड़ी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है । औरंगाबाद सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ संजय कुमार को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। सुपौल के निर्मली अनुमंडल में उपकारा निर्माण के लिए 39 करोड़ 43 लाख 35 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विधानमंडल के सदस्यों, सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए आश्रितों की परिभाषा, उम्र सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को समपरिवर्तित कर उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालय में लिपिक संवर्ग के 102 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 के 102 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के ही तहत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित तीन अतिरिक्त मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हेतु अध्यक्ष का 03 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 03 पद, उच्चवर्गीय लिपिक के 03 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 03 पद एवं आशुलिपिक के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

**पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, भवन निर्माण विभाग, पटना**

**अति–अल्पकालीन पुर्न–निविदा आमंत्रण सूचना सं0–05/2024–25**

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:– कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर पटना।
2. परिमाण–विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय:– दिनांक 17/08/2024 के 12:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय:– दिनांक 19/08 /2024 के 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने का तिथि एवं समय:– दिनांक 19/08 /2024 को 3:30 बजे अपराह्न से ।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान:– (1) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पटना भवन अंचल, पटना। (2) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना। (3) संबंधित सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल सं0–1/2/दानापुर, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान:– क्रमांक 5 के अनुसार ।
7. कार्य का विवरणी :–

| क्र0 | कार्य का नाम | परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में) | अग्रधन की राशि (रू0 में) | परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of Proposed hoarding of size (20'0"x10'0") for public relation department, Patna, Bihar, excluding exhibit sheet & Printing of flex/banner (M/S Steel type) at Rajbanshi Nagar, Patna. | 2,54,388.00 | 5,100.00 | 750.00 | 45 दिन |

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता

पटना पश्चिम भवन प्रमंडल,दानापुर, पटना

PR- 005431 ( BCD ) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

**पूर्व मध्य रेल**

**ई–निविदा सूचना**

**ई–निविदा संख्याः सीआरडब्ल्यु–एचआरटी–मेक पाइपलाईन** **दिनांकः 02.08.2024**

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता–।।, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **1. कार्य का नाम एवं स्थानः** सीआरडब्लू/एचआरटी में इच्छित स्थान पर डब्ल्यूआरपी से कार्यशाला तक पानी पहुंचाने के लिए जल मीटर का प्रावधान और नई पाइप लाइन का निर्माण।, **2. कार्य के लिए प्रावकलित राशिः रू. 68,24,373.78** (रू. अडसठ लाख चौबीस हजार तीन सौ तिहत्तर और अठहत्तर पैसे मात्र), **3. निविदा प्रपत्र की राशिः** शून्य।, **4. अग्रधन की राशिः रू. 1,36,500.00** (रू एक लाख छतीस हजार पॉच सौ मात्र), **5. निविदा कागजात जमा करने की एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समयः** निविदा ऑन लाइन **https://www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर प्रस्तुत की जानी है। निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि **23.08.2024** को 12:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दिया जाय एवं उसी दिन 12:30 बजे निविदा खोली जायेगी।, **6. वेवसाईट का विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण विवरण इत्यादि देखा जा सकता है :** निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेबसाइट CRIS website: **https://www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है, एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिये मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, प्रशासनिक भवन, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत, नालंदा, बिहार–803110 के नोटिस बोर्ड में देखें। यदि जरूरी हुआ तो शुद्धि पत्र वेबसाइट पर अपलोड होगा।

**उप मुख्य यांत्रिक अभियंता–।।**
**सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत**

पीआर/00839/एचआरटी/एमईसीएच/टी/24–25/48

देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें
@Pratahkiran www.pratahkiran.com



## संक्षिप्त खबरें

### हथियार लहराते युवक को देशी कट्टा दो जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

मधुबनी रहिका थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला की ग्राम पखरौनी वार्ड 5 में शादी समारोह में एक युवक हथियार लहरा रहा है। सूचना के सत्यापन करने पहुंचे थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार,ए एसआई मो॥ मोईन अपने दल बल के साथ बताए जगह पर पहुंचे तो एक शादी समारोह में रंगा रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसी कार्यक्रम में एक युवक हथियार लहरा रहा था। रहिका थाना पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हथियार लहरा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया तथा युवक के पास से एक देशी कट्टा दो जिंदा कारतूस बरामद कर जप्त कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के रहिका गांव निवासी मो जुबरिल के पुत्र मो महताब जिला मधुबनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। उक्त जानकारी रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दी।

### जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया मासिक निरीक्षण

मधुबनी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया।गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह ईवीएम वेयर हाउस में रखे हुए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना है इसी क्रम में आज ईवीएम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जांच हेतु जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया साथ ही वीवीपैट गोदाम के सुरक्षा मानकों की भी जायजा लिया गया।मौके पर उप डीसी बालेंदु पांडेय जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार भी उपस्थित रहे।

### चोरी की घटना पर लगाम लगेगी शीघ्र : एसडीपीओ

बेनीपुर(दरभंगा)। डीएसपी कार्यालय बेनीपुर में सोमवार की शाम डीएसपी आशुतोष कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक गोष्ठी की तथा विभिन्न प्रतिवेदन कांडों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में हो रही लगातार चोरी की घटना को रोकने के लिए एसआईटी टीम का गठन भी एसडीपीओ ने किया है। इस दौरान पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना एवं ओपी में दर्ज जुलाई माह के कांडों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन करने सहित गश्ती बढ़ाने एवं शराब तस्करों पर नजर रखने सहित कई आवश्यक निर्देश दिया। ग्रामीण इलाके में चौकीदार की गश्ती बढ़ाने को भी कहा गया। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार मंडल सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

### लेखपाल द्वारा की गई गड़बड़ी की जांच का आदेश

बेनीपुर(दरभंगा)। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव रशीद इकबाल ने ईओ को पत्र भेज कर नगर परिषद बेनीपुर के लेखपाल विवेक जायसवाल के द्वारा गड़बड़ी करने के मामले की जांच करवाने का आदेश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डीएम राजीव रौशन ने 1 अगस्त को एसडीएम शंभूनाथ झा को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। बहेड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन दास ने लेखपाल पर वित्तीय अनियमित सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाया है, जो पूर्व में भी एसडीएम ने नप के ईओ दीपक कुमार को लेखपाल के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच करवाने का आदेश दिया था।

# स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर डीएम ने सभी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिये निर्देश

प्रात : किरण संवाददाता




दरभंगा। जिलाधिकारी राजीव रौशन के कार्यालय प्रकक्ष में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम दरभंगा का सौंदर्यकरण, मुख्य मंच तैयार करने, मैदान और वीआईपी दर्शक दीर्घा को आकर्षक बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।परेड की व्यवस्था के लिए प्रचारी परवर को 08 अगस्त से पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश दिए गए, प्लाटून पूर्ववत रहेंगे, जिनमें बीएमपी-13, डीएपी गृह रक्षा वाहिनी, एनसीसी, स्काउट एण्ड गाइड के जवान तथा अग्निशमन विभाग के जवान वाहन के साथ परेड में भाग लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जो स्वतंत्रता सेनानी आने में असमर्थ होंगे,उन्हें उनके आवास पर ही संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रगान के लिए छात्राओं की टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बनाई जाएगी, मैदान की साफ-सफाई की व्यवस्था दरभंगा नगर निगम द्वारा, पेयजल की व्यवस्था पीएचइडी द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था जिला नजारत द्वारा की जाएगी।ध्वजारोहण हेतु जिले के प्रभारी मंत्री महोदय से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया। पुलिस लाइन में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा।मीडिया को स-समय आमंत्रित करने हेतु जिला जन संपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया गया, इसके साथ ही वाहन पार्किंग एवं यातायात की सुदृढ़ व्यवस्था करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक यातायात को निर्देशित किया गया।विभिन्न चौक-चौराहों पर अवस्थित महापुरुषों की प्रतिमा की साफ-सफाई करा लेने का निर्देश नगर निगम को दिया गया। चयनित महादलित टोले में भी झंडा तोलन वहां के वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा ,उनकी सहायता के लिए अधिकारियों की भी प्रति नियुक्ति की जाएगी। जिले में अंगदान ,रक्तदान ,देहदान और नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया जाए।संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को दायित्व दिया गया है। उक्त बैठक में कर्नल आरएस रावत,नगर पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार आर्य, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास,अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन,अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर,अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, वरीय कोषागार पदाधिकारी शम्भू कु मार आर्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा एवं सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

## मानसून हुआ सक्रिय, बर्षा की सम्भावना

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर ।लगभ एक महीने तक इंतजार के बाद उत्तर बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। इस कारण उत्तर बिहार के जिलों में सामान्य बारिश की सम्भावना बनी रही है ।मौसमीय वेधशाला पूसा के आकलन के अनुसार पिछले तीन दिनों का औसत अधिकतम एव न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.9 एवं 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। औसत सापेक्ष आर्द्रता 97 प्रतिशत सुबह में एवं दोपहर में 79 प्रतिशत हवा की औसत गति 6.9 कि०मी० प्रति घंटा एवं दैनिक वाष्पन 2.6 मि०मी० तथा सूर्य प्रकाश अवधि औसतन 1.7 घन्टा प्रति दिन रिकार्ड किया गया तथा 5 से०मी० की गहराई पर भूमि का औसत तापमान सुबह में 30.1 एक दोपहर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इस अवधि में 62.8 मि०मी० वर्षा रिकार्ड हुई। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 07-11 अगस्त, 2024 तक के मौसम पूवार्नुमान के अनुसार, पूवार्नुमानित अवधि में मानसून सक्रिय रहने के कारण उत्तर बिहार के जिलों में सामान्य के आस-पास वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में मध्यम से घने बादल देखें जा सकते है तथा तराई एवं मैदानी भागों के जिलों में सामान्य वर्षा होने की संभावना के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूवार्नुमानित अवधि में बेगुसराय तथा सारन जिलों में पछिया हवा चलने की सम्भावना है। बाकी सारे जिलों में पूरवा हवा चलने का अनुमान है। औसतन 14-18 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है ।सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 50 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है।

## भारी मात्रा में शराब बरामद, धंधेबाज गिरफ्तार

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर । जिले गायघाट थाना क्षेत्र बहादुरपुर के समीप पुलिस ने एक कंटेनर पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। इसके साथ ही चालक की निशानदेही पर बताए गए जारंग डीह से भी शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से चार धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली की मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर कंटेनर से विदेशी शराब की खेप जा रही है। इसी बीच कारीचक चौक के समीप वाहन जांच शुरू किया गया। इसी बीच पुलिस को देख एक कंटेनर तेजी भागने लगा। जिसे पुलिस बलों के द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जब तलाशी ली गई तो धान की भूसा भरे बोरे के नीचे विदेशी शराब की 98 कार्टून छुपाकर रखी गई थी। जब हिरासत में लिए चालक से पूछताछ किया गया तो उसने बताया की वह कानपुर से शराब की खेप लेकर पहुंचा है। जिसे मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग जगहों पर उतारना है। बताया की जारंग डीह में वह शराब की खेप पहुंचाकर वापस आ रहा है। जब जारंग में डीह में छापेमारी की गई तो सुनील कुमार सिंह के घर से 760 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं डिलीवरी लेने पहुंचे तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया की जब्त किया गया विदेशी शराब की अनुमानित कीमत लगभग दस लाख रूपए आंकी गई है। गिरफ्तार हुए धंधेबाजों की पहचान राजस्थान के जयपुर जिले के सांभरलेक थाना क्षेत्र के निवासी नरेश उर्फ नरेंद्र कुमार, दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अतरबेल गांव के मुकेश सहनी, सुजीत कुमार व कमतौल थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के मो. वसीर बताया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार हुए सभी धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अज्ञात धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

## विकास योजनाओं की लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करें : जिलाधिकारी

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं आई.सी.डी.एस. द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में की गई तथा अधिकारियों को सक्रिय एवं तत्पर होकर कार्य करने तथा लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। कार्य में कोताही और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा न्यून प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने तथा विधि-सम्मत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण, रूटीन इम्यूनाईजेशन, ओ.पी.डी. में निबंधित मरीज, आई.पी.डी, परिवार नियोजन, संस्थागत प्रसव, जिले में रैंकिंग की स्थिति, डेंगू, चिकेनगुनिया के रोकथाम का उपाय, आयुष्मान कार्ड की स्थिति, स्टॉप डायरिया अभियान की स्थिति आदि बिन्दुओं के तहत समीक्षा की गई तथा सिविल सर्जन एवं डी.पी.एम. को पी.एच.सी. का विजिट करने, समीक्षा करने तथा कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आई.सी.डी.एस. के तहत संचालित योजनाओं पोषाहार का वितरण, टीकाकरण, होम विजिट, प्री-स्कूल, एडूकेशन, हेल्थ चेकअप, मातृत्व बंदना योजना, परवरिश योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आदि की समीक्षा करते हुए डी.पी.ओ. आई.सी.डी.एस. को न्यून प्रदर्शन करने वाले सी.डी.पी.ओ. के कार्यों की समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। इस वर्ष ए.ई.एस. में एक भी डेथ का मामला नहीं आया तथा सभी अधिकारियों ने पूरी सक्रियता एवं तत्परता से जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में कार्य किया, जिसके फलस्वरूप ए.ई.एस. का निगरानी एवं नियंत्रित करने में सफलता मिली। जिलाधिकारी ने इस सफलता के लिए ए.ई.एस. के जागरूकता अभियान/संध्या चैपाल से जुड़े तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी है। प्रदत निदेश के अनुरूप ए.ई.एस. का संध्या चैपाल बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने डेंगू एवं चिकेनगुनिया बीमारी के प्रति भी सावधान रहने, जागरूक रहने एवं सुरक्षित रहने को कहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। डेंगू एवं चिकेनगुनिया की बीमारी संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर दिन में काटता है एवं साफ पानी में पनपता है। डेंगू एवं चिकेनगुनिया में लक्षण के रूप में तेज बुखार, त्वचा पर लाल धब्बे एवं काला पैखाना होता है। सावधानी ही बचाव है। इसलिए बचाव के रूप में मछरदानी का इस्तेमाल मच्छर भगाने वाले दवाओं का उपयोग करना, घर के अंदर एवं आस-पास पानी न जमने देना तथा जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल एवं किटनाशक दवा का छिड़काव करना शामिल है।

## सत्यापित प्रति पत्येक कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा समीक्षा हेतु बैठक



प्रात : किरण संवाददाता

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के प्रधान लिपिकों सहायकों आदि के साथ बैठक कर कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रधान लिपिकों एवं सहायकों को निर्देश दिया कि आगत पंजी निर्गत पंजी रोकड़ पंजी अवकाश पंजी सहित सभी पंजियों को अधतन रखे। जिलाधिकारी ने सेवान्त लाभ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई सी डब्लू जे सी एम जे सी डी सी विपत्र लोकायुक्त से संबंधित मामले लोक शिकायत लोक सभा विधान सभा प्रश्न आदि की समीक्षा कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय के मुख्य रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित प्रति पत्येक कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा समीक्षा हेतु बैठक में अचूक रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में यह पाया जाता है कि आगत पंजी, निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, अवकाश पंजी सहित सभी पंजी अधतन संधारित नहीं पाया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया की अगली बैठक तक आगत पंजी, निर्गत पंजी रोकड़ पंजी अवकाश पंजी सहित सभी पंजियों को अधतन नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उक्त बैठक में स्थापना उप समाहर्ता चंदन कुमार सहित कार्यालयों के प्रधान सहायक उपस्थित थे।

## आत्मनिर्भर महिलाओं का पर्याय है सर्जना निखार शिविर : धीरज कुमार

प्रात : किरण संवाददाता

दरभंगा।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर का हुआ समापन जुबली हॉल में संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव अजय कुमार पंडित, परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा, अभाविप उत्तर बिहार प्रान्त संगठन मंत्री धीरज कुमार जी , राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, विभाग प्रमुख अमृत झा, जिला प्रमुख बिन्दु चौहान, नगर मंत्री शाश्वत स्नेहिल ने सामूहिक रुप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि कर किया। अतिथियों का स्वागत सर्जना निखार शिविर के प्रशिक्षित छात्राओं ने स्वागत गान गाकर किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने विषय प्रवेश करते हुए कहा की सर्जना निखार शिविर पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रही है एवं प्रतिवर्ष सैकड़ो छात्राओं के प्रतिभाओं का डेढ़ दर्जन विधा में कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है इस वर्ष भी यह आयोजन 3 जून से 3 जुलाई तक एमआरएम महाविद्यालय में चला। अपने उद्बोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलसचिव कुमार पंडित ने बताया कि अभाविप का यह अद्भुत कार्यक्रम काफी सराहनीय है सर्जना निखार शिविर। उत्तर बिहार प्रांत संगठन मंत्री धीरज कुमार जी ने बताया कि भारत की संस्कृति प्रारंभ से ही स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदरणीय दृष्टिकोण रहा है। पुरातन काल से ही भारत में स्त्रियों का जीवन मूल्य अत्यधिक पवित्र एवं पुनित समझा जाता रहा है आज पाश्चात्य सभ्यता में स्त्रियों के बारे में अलग-अलग तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कोई उन्हें आधी आबादी बताता है लेकिन भारतीय संस्कृति में उनके बिना अस्तित्व ही नहीं रहेगा ऐसा माना जाता है। हमारे देश की स्त्रियां समाज जीवन के जिस क्षेत्र में जब-जब कुछ जरूरत पड़ी तो खुलकर सामने आए आए कभी झांसी के रानी के रूप में तो कभी पद्मावती तो कभी दुर्गावती तो कभी जीजाबाई बनकर। अभाविप का यह सर्जना निखार शिविर वैसे ही स्त्रियों के तरह उनके अंदर छुपे हुए कौशल को निकालकर बाहर लाने का हैं उसके लिए किया जाता है। जिला प्रमुख बिंदु चौहान ने कार्यक्रम में लगी सभी छात्राओं की प्रशंसा की और कहा यह कार्यक्रम सराहना किया ।कार्यक्रम का संचालन नगर सह मंत्री नीली रानी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विभाग संयोजक राहुल सिंह ने किया।

## गांव, गरीब व किसानों के उत्थान के लिए पीएम मोदी संकल्पित : सांसद



प्रात : किरण संवाददाता

दरभंगा ।अन्नदाता किसानों के समग्र उत्थान तथा उन्हें हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार समर्पित और संकल्पित है। किसानों को समय पर खाद बीज कीटनाशक दवाएं एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता हो इसके लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं यही कारण है कि राज्य से लेकर देश स्तर पर मांग और आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाद उर्वरक मौजूद हैं जो गर्व का विषय है तथा इसके लिए पीएम मोदी कृषि मंत्री जेपी नड्डा बधाई के पात्र हैं। दरभंगा के सांसद डा गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उर्बरको की उपलब्धता की जानकारी हासिल करने के बाद उपरोक्त बातें कही। डा ठाकुर ने लोकसभा में किए गए प्रश्नों का कृषि मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए उत्तर को गर्व का विषय बताते हुए कहा की बिहार और देश भर में खपत के हिसाब से खाद तथा उर्वरक की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में उपलब्धता इस बात को साबित करता है कि देश के पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी अन्य मुद्दों के साथ साथ किसानो के हितों के लिए कितने सजग और संवेदनशील है। सांसद डा ठाकुर ने लोकसभा से दिए गए आंकड़ों की सराहना करते हुए कहा की पूर्ववर्ती कांग्रेस और यूपीए की सरकार में खाद बीज तथा उर्बरको के लिए किसानो के बीच हाहाकार मचा रहता था तथा कलाबाजारियो के माध्यम से किसानो का आर्थिक शोषण किया जाता था लेकीन मोदी सरकार में आवश्यकता और मांग से ज्यादा मात्रा में इन बस्तुओ की उपलब्धता केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को साबित करता है।

## युवा शक्ति ही देश व समाज के निर्माण की नींव है : ललित

### दरभंगा राजद द्वारा समीक्षा व कार्यकर्ता आभार बैठक आयोजन किया गया

प्रात : किरण संवाददाता




दरभंगा। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री व विधायक ललित यादव के आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा और कार्यकर्ता आभार बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता युवा महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने की, जबकि मंच संचालन सचिन राम ने किया। इस अवसर पर युवा महानगर वार्ड अध्यक्षों के साथ सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकताओं ने भाग लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में युवाओं ने भाग लिया। बैठक में विधायक ललित कुमार यादव ने कार्यकताओं को संबोधित करते हुए उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विशेष रूप से युवाओं को संगठित करने और उनके योगदान को सराहते हुए कहा कि युवा शक्ति ही देश और समाज के निर्माण की नींव है। हमारे संगठन की शक्ति भी हमारे युवा कार्यकताओं में निहित है ।उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन को अधिक मजबूत बनाने के लिए युवाओं की सक्रियता भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब युवा संगठित होते हैं, तो संगठन अपने लक्ष्य को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर युवा की आवाज सुनी जाए और उन्हें नेतृत्व के अवसर दिए जाएं। श्री यादव ने संगठन के विभिन्न स्तरों पर युवाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उपस्थित युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आप सभी को पार्टी के सिद्धांतों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आपकी ऊर्जा और जोश ही संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और संगठन को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही, आगामी कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वही कार्यक्रम समाप्त होने पाश्चात्य ललित यादव के जन्म दिवस के अवसर पर महानगर युवा अध्यक्ष राकेश नायक ने केक काट कर और पाग-चादर व माला से सम्मानित किया ।समीक्षा बैठक को संबोधित करने वाले गुलाम हुसैन चिना, सुभाष महतो,ओम प्रकाश खेरिया ,गौरी मंडल, अकबर अली, डॉ संतोष गौस्वामी ,शमशेर अली,विश्वजीत यादव,जवाहर पूर्व, मनीष यादव, बीजय यादव,रवि राम,प्रो श्याम यादव, रजाउल्ला अंसारी ,बादरे आलम बदर आदि शामिल थे।

## श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त

प्रात : किरण संवाददाता

दरभंगा। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया गया कि बहादुरपुर प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहाना प्रवीण के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखण्ड, दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा मंगलम स्वीट्स एंड नमकीन, देकुली बहादुरपुर से 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निदेर्शानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुमार्ना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है । श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त तीन हजार रुपया की तत्काल सहायता राशि तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रूपए की राशि भी दी जाती है,जिसे उनके अठारह वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है, जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है ।इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओ से आच्छादित भी कराया जाता है,जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है। विदित हो की वित्तीय वर्ष 2024-25 में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 09 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है।धावा दल की टीम के द्वारा आज बहादुरपुर प्रखण्ड दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।

## प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु अन्य गांवों में बैठक आयोजित

प्रात : किरण संवाददाता



मधुबनी जयनगर क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2024 को जनता से जुड़े विभिन्न ज्वलंत समस्याएं को समाधान हेतु प्रखंड व अंचल कार्यालय जयनगर के समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने के लिये जयनगर बस्ती पंचायत देवधा अकौन्हा भेलवा टोल कोरहिया कुआढ़ सहित अन्य गांवों में आम जनता व पार्टी समर्थकों का बैठक आयोजित की गई । बैठक में उक्त स्थलों पर सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपना अपना समस्याएं से पार्टी नेताओं को अवगत कराते हुए 9 अगस्त को प्रखंड-अंचल कार्यालय जयनगर के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ो ने लोगों भाग लेने का आवाह्न किया ।बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी के अलावे अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर पुलिस उपाधीक्षक थानाध्यक्ष जयनगर और जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मधुबनी को दिए गए आवेदन पत्र में उन्होंने कहा की गरीबों को अंचल के द्वारा वार्षिक 70 हजार रूपए तक का आय प्रमाण पत्र बनाने गरीबों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करनेभूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन आवस देने सभी परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने सभी प्रकार के पेंशन 4 हजार रूपया करने पचार्धारी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने और भूमि पर अबैध निर्माण पर रोक लगाने किसानों को खाद-बिज समय पर मुहैया कराने रसोई गैस 400 रूपया में मुहैया कराने ग्रामीण क्षेत्रों के बंद सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को नियमित चालू कराने एवं सरकारी अस्पतालों में नियमित डाक्टरों का उपस्थिति और अवैध सभी प्राइवेट नर्सिंग होम को बंद करने संवेदक के द्वारा जबरन स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर रोक लगाने सहारा इंडिया में आम जनता के जमा राशियों अविलम्ब जमाकताओं को भुगतान कराने कर्ज के कारण हो रहे आत्महत्या और परिवारों के साथ घर छोड़कर बाहर जाने को देखते हुए महिला समूहों को विभिन्न बैंकों तथा फाइनेंस कंपनियों के द्वारा दिए गए कर्ज माफ करे और जबरन कर्ज वसूली करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2024 को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रखंड-अंचल कार्यालय जयनगर के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के लिए रेल्वे स्टेशन परिसर जयनगर से झंडा बैनर लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के द्वारा ध्वनी विस्तार यंत्र के साथ करिब 12 बजे दिन से प्रदर्शन के लिए जुलूस निकलेगी जो बस स्टैंड शहीद चौक जयनगर पर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के स्मारक पर माल्यार्पण कर मेन रोड महावीर चौक भेलवा चौक होते हुए प्रखंड व अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में तब्दील होगी।

## एम्स निर्माण हेतु भुमि अधिग्रहण की मांग को लेकर मिथिला संघ का कमीशनरी पर धरना




प्रात : किरण संवाददाता

दरभंगा। मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में चार सूत्री मांगो को लेकर आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरनास्थल पर धरना दिया गया जिसका नेतृत्व सुजीत कुमार आचार्य ने किया । संघ के प्रमुख मांगो में दरभंगा एम्स हेतु भूमि अधिग्रहण कर शीध्र हस्तांतरित करने ,पटना उच्च न्यायालय के बेंच का दरभंगा में स्थापना करने , सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल को अविलम्ब चालू करने , सरकारी घोषणा के अनुरूप डीएमसीएच का विस्तार करना था। धरना स्थल पर हुई सभा को सम्बोधित करते हुए सुजीत कुमार आचार्य,उदय शंकर मिश्रा, सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, मुखिया महासंघ के राजीव चौधरी , साहित्यकार चंद्रेश, बिजय शंकर झा प्रो मिथिलेश कुमार यादव,बरुन कुमार झा ,कमलेश उपाध्याय ,कामोद चौधरी ,दीपक सिंह ज्योति,रौशन झा ,शैलेन्द्र कश्यप ,बिश्वनाथ मिश्रा ,शरद सिंह ,शशि रंजन सिंह, कमलेश उपाध्याय ,श्याम झा ,प्रो मिथिलेश यादव,धीरेन्द्र बादल आदि प्रमुख थे ,जबकि धरना की अध्यक्षता बिप्लव कुमार चौधरी ने अपना विचार ब्यक्त किया।

## संक्षिप्त खबरें

### शिक्षकों को 6 अतिरिक्त छुट्टी की घोषणा, तीज पर भी मिलेगी

गिद्धौर/जमुई :- माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों को सावन में एक छुट्टी के साथ चालू साल के कैलेंडर में 6 अतिरिक्त छुट्टी का तोहफा दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैजनाथ यादव ने सोमवार को जारी आदेश में अंतिम श्रावणी पर 19 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की है। जबकि इसके एक दिन पहले रविवार होने की वजह से शिक्षकों को दो दिनों की छुट्टी का आनंद मिलेगा। इसके साथ ही तीज पर्व के लिए 6 और 7 सितंबर को दो दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। यह छुट्टी शुक्रवार एवं शनिवार को मिलेगी,जबकि इसके दिन रविवार होने के कारण शिक्षकों को तीन दिनों की लगातार छुट्टी मिल जाएगी। इसी महीने 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 25 सितंबर को जिउतिया की भी छुट्टी की घोषणा की गई है। इसी तरह 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षकों को इस महीने में दो दिनों की लगातार एक छुट्टी के बाद अगले महीने में 3 दिनों की लगातार छुट्टी का आनंद उठाने का मौका मिलने वाला है।

### अनियंत्रित ट्रक दुकान में जा घुसा, सो रहे व्यक्ति हुए घायल, पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर

घैलाढ़ (मधेपुरा) घैलाढ़ ओपी क्षेत्र के पथराहा चौक पर बीते 3 जुलाई के रात्रि लगभग 10 बजे सीमेंट से भरा बैजनाथपुर से घैलाढ़ की ओर तेज गति से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने दो दुकान को तोड़ते हुए बिजली की ट्रांसफार्मर पर जाकर पलट गई। जहां दुकान में सो रहे झिटकिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी वार्ड सदस्य विजय पासवान उनकी चपेट में आ जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना को लेकर घायल विजय पासवान की पत्नी दुखनी देवी ने घैलाढ़ ओपी में ट्रक पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर- बी आर 11जी ए 8333 है। वही दुखनी देवी ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वही इस संबंध में ओपी अध्यक्ष अवधेश प्रसाद ने बताया कि आवेदन के उपरांत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जिसका कांड संख्या- 899/24 है।

# अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्कर को 8 से 9 लाख रुपए का शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

## शराब के अलावे वाहन में बिहार राज्य के दो गाड़ी नंबर प्लेट भी हुआ बरामद

● अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार शराब तस्कर

प्रातः किरण संवाददाता

जमुई [ झाझा ] झारखंड दिशा से भारी मात्रा में शराब लेकर बेगूसराय जा रहे एक पिकअप वाहन और एक मैरून रंग का कार सहित दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। शराब तस्करी के मामलें में एसडीपीओ राजेश कुमार ने थाना में पीसी करते हुए गिरफ्तारी के संदर्भ में पूरी जानकारी दिया। एसडीपीओ ने बताया कि रात्रि करीबन 1:30 बजे पुलिस अधीक्षक डॉ शौर्य सुमन को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि देवघर की ओर से दो चारपहिया वाहन भारी मात्रा में शराब लेकर आ रही है। जिसके बाद मेरे नेतृत्व में एसएचओ संजय कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी की एक टीम बनाई गई। गठित टीम के द्वारा छापामारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एनएच 333 स्थित दादपुर के पास वाहन चेकिंग रात्रि में लगाया गया। तभी एक मैरून रंग का कार मुख्य सड़क से दादपुर की ओर तेजी से जाने लगी। टीम में शामिल बल के सहयोग से उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त कार चालक वाहन छोड़कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इसके तुरंत बाद इसी रास्ते से उजला रंग का पिकअप भान तेजी से भागने लगी। लेकिन टीम में शामिल बल के द्वारा तत्परता एवं सहयोग से पिकअप वाहन को रोकर उसके चालक एवं अन्य एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। तथा उक्त दोनों वाहन की जांच किया कार से 288 लीटर और पिकअप भान से तहखाना बनाकर छुपाकर कर रखे 424 लीटर अलग अलग ब्रांड का अंग्रेजी शराब बरामद किया। एसडीपीओ ने बताया कि जब्त किए गए कुल अंग्रजी शराब 712 लीटर की मूल्य राशि लगभग 8-9 लाख रुपए के बीच की है। इस मामलें में गिरफ्तार झारखंड के बोकारो चास नगर के रहने वाले ओमशांति कुमार और झाझा थानाक्षेत्र के केशोपुर गांव के रहने वाले रौशन कुमार के रूप में हुई है। जिससे पूछताछ करने पर अन्य चार शराब तस्कर और एक होटल का जिक्र भी हुआ है। दोनों वाहनों की तलाशी ली जाने पर बिहार राज्य का दो गाड़ी नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है।

# बीडीओ ने देर शाम को रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

जमुई [ झाझा ] बीडीओ सह रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष रविजी के द्वारा सोमवार की देर शाम को अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधा सहित मरीज के अन्य क्या सुविधा है इसकी जांच कि गई। इसके अलावे अस्पताल में जो संसधान है वह कार्य करता है कि नही इसकी भी जांच किया। मौके पर मौजूद डयूटी पर तैनात डॉ. नबाब से भी कई तरह की जानकारी बीडीओं के द्वारा लिया। बीडीओ ने स्वयं अस्पताल में बीपी जांच करवाकर संसाधन की जांच किया। बीडीओ ने बताया कि रोगी कल्याण समिति के गठन के बाद यह निर्णय लिया गया था कि रेफरल अस्पताल में मरीजों के लिए सभी सुविधा मिल रहा है कि नही। अस्पताल में मरीजों का सही इलाज हो रहा है कि नही, अस्पताल में शाम से लेकर रात्रि में कर्मी, डॉक्टर रहते है कि नही इन सभी चीजों की जांच किया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी पूछताछ किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में संतोषजनक ही सभी चीज पाया गया।

# पहल - कार्य संस्कृति सुधारने में जुटी राज्य सरकार, शिकायत पेटी भी रखी जाएगी

## सरकारी कार्यालयों में बनेगा में आई हेल्प यू डेक्स, कर्मचारियों को समस्या सुनने का मिलेगा प्रशिक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

गिद्धौर/जमुई:- जिले सहित पूरे सूबे के सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति सुधार लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष योजना तैयार की है। सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों व जनप्रतिनिधियों से बेहतर बर्ताव के साथ उसका काम सुगम तरीके से करने के लिए इन कार्यालयों में लोक संवेदना अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी प्रमुख कार्यालयों में आई हेल्प यू डेक्क स्थापित की जाएगी। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी रखी जाएगी। इसके माध्यम में मिली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। में आई हेल्प यू डेस्क से लोगों को कार्यालय में होने वाले सभी प्रकार के कार्यों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कर्मचारियों को आगंतुकों को सम्मान के साथ बैठाना और उनकी समस्या को सुनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता को आदर के साथ बैठाने का दिया गया है निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले के सभी विभागों के पदाधिकारीयों में विशेषकर स्वास्थ्य,बिजली,शिक्षा, कृषि,सामाजिक सुरक्षा, आईसीडीएस, बीडीओ,सीओ, थानाध्यक्ष सहित जन सरोकारों से जुड़े विभागों के पदाधिकारीयों को निर्देश दिया है कि कोई भी आम जनता,जनप्रतिनिधि आपके कार्यालय में आते हैं तो उन्हें आदर के साथ बैठाएं, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुने। संबंधित कार्य नियमानुसार शीघ्र करने की कोशिश करें। नियम से परे कोई भी कार्य नहीं करें और इसकी जानकारी सभी को दें। अगले सप्ताह से आयोजित होगी अफसरों की कार्यशाला निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों अथवा आमजनों के फोन को अवश्य रिसीव करें।आवश्यकतानुसार उनकी समस्याओं को सुनें।आमजनों जनप्रतिनिधि के बैठने व पेयजल की सुविधा सभी कार्यालयों में अवश्य हो। वही अगले सप्ताह से पदाधिकारियों को ओरिएंटल प्रोग्राम व वर्कशॉप आयोजित कर इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रखंड स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित कर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीयों व कर्मचारियों को इस अभियान के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

### टीकाकरण कार्य को लेकर आशाकर्मी, फैसिलिटेटर को दिया गया एकदिवसीय प्रशिक्षण

जमुई [ झाझा ] क्षेत्र में टीकाकरण के लिए मिले लक्ष्य की पूर्ति करने को लेकर मंगलवार को रेफरल अस्पताल के सभागार में क्षेत्र में कार्यरत आशा फैसिलिलेटर और आशाकर्मी के बीच एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अस्पताल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अरूण कुमार सिंह, बीसीएम पंकज कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक सुभाषचंद्र ने क्षेत्र में आशा को दिए गए लक्ष्य में गाभी के तहत कार्य कैसे करना है। लोगों को टीकाकरण के लिए कैसे प्रेरित करना है इनसभी चीजों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया। बीसीएम ने बताया कि क्षेत्र में तीन माह में 95 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के अनुसार आशाकर्मी, फैसिलिटेटर अपना हर दिन का कार्य पूरा करने के बाद उसकी सूची बनायेगी। दिए गए लक्ष्य अनुसार आशाकर्मी, फैसिलिटेटर पूरी ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगी अगर कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो विभाग वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।

# स्वच्छता सहित अन्य विषयों को लेकर नप क्षेत्र में अलग-अलग आयोजित किया गया नुक्कड़ नाटक

## स्वच्छता सहित अन्य विषयों को लेकर जागरूक करते कलाकार

प्रातः किरण संवाददाता

जमुई [ झाझा ] स्वच्छता को लेकर नगर परिषद कार्यालय झाझा की ओर से हर वार्ड के चौक चैराहों पर वार्डवासियों के बीच जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से जागरूक किया गया। पटना से आये कलाकारों के द्वारा स्वच्छता पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करते हुए यह बताया गया कि शहर को सुंदर शहर बनाने में स्वच्छता कितनी आवश्यकता है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। क्योकि स्वच्छता नहीं रही तो बीमारी फैल सकती है। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया कि जिस तरह से लोग अपने घरों को साफ- सुथरा रखते है ठीक उसी तरह अपने आसपास भी स्वच्छता बनाकर रखे। नप कार्यालय की ओर स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लेकर नप के मुख्य पार्षद संजय यादव, उपमुख्य पार्षद विपीन साह ने बताया कि शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर स्वच्छ मिशन शहरी के तत्वाधान में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, होल्डिंग टैक्स, मकान बनाने से पूर्व नक्शा पास, प्लास्टिक बैन एवं गली नाली साफ- सफाई आदि विषयों पर भी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग
राजवंशी नगर, पटना–800023
Email ID:-ee.patliputra.bcd@gmail.com
बिहार सरकार

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित ई–कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–18 वर्ष 2024–25 है, के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के अधीन Proposed Pref-fab Office in the Campus of special Vigilance unit at D.P. Rai Including Civil, Electrical, Water supply 7 Sanitary Etc. all Complete job as per Direction of E.I. On Turnkey Basis for the year 2024-25. कार्य के लिए एजेन्सी चयन हेतु ई–कोटेशन प्रकाशित किया गया था, जिसका पी0आर संख्याः–003348 (BCD) 2024-25 है, में आंशिक संशोधन किया जाता है, जो निम्नरूपेण हैः–

1) ई–कोटेशन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई प्रोक्युमेन्ट– 2 Toll Free No-18005726571 से प्राप्त किया जा सकता है।
2) E-Proc2 के निहित निविदा संबंधित सभी शर्ते लागु होंगे।
3) प्रकाशित ई–कोटेशन में Bid Processing Fee as per site लागु होंगे।
4) उक्त ई–कोटेशन की तिथि में आंशिक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत हैः–

| क्र.सं | | पूर्व में निधारित तिथि एवं समय | संशोधित तिथि एवं समय | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटेशन कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक–07.08.2024 को 15:00 बजे तक। | दिनांक–24.08.2024 को 15:00 बजे तक। | |
| 2 | कोटेशन जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक–09.08.2024 को 15:00 बजे तक। | दिनांक–27.08.2024 को 15:00 बजे तक। | |
| 3 | कोटेशन की वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक–12.08.2024 को 3:30 बजे। | दिनांक–30.08.2024 को 15:30 बजे। | |
| 4 | ई– कोटेशन वैधता की अवधि | 180 | 120 | |

शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगे, इस हद तक ई–कोटेशन संशोधित समझा जाय।

(ई0 अजय कुमार वर्मा)
कार्यपालक अभियंता
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल,पटना

PR- 005413 ( BCD ) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

# प्रखंड कार्यालय परिसर में लगा पानी, कीचड़ उक्त पानी से जनता को आवाजाही में होती है परेशानी

प्रातः किरण संवाददाता

घैलाढ़ (मधेपुरा) घैलाढ़ प्रखंड परिसर में पानी लगे रहने से कीचड़ हो जाने के कारण जनता को प्रखंड जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले की प्रखंड क्षेत्र के गांवों में विकास की जिम्मेदारी उठाने वाला प्रखंड कार्यालय का परिसर खुद कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रखंड कार्यालय आते हैं लेकिन प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुंचते ही लोगों की मुसीबत प्रखंड कार्यालय तक पहुंचने में काफी बढ़ जाती है। प्रखंड कार्यालय परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और थोड़ी सी पानी कमी होती है उसके बाद पूरा परिसर कीचड़मय हो जाता है। आम लोग कीचड़ व जलजमाव के बीच से होकर कार्यालय जाने को बिवस है। इस प्रखंड कार्यालय में 9 पंचायत के जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों का प्रतिदिन विभिन्न कार्यों को लेकर आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस कीचड़ व जलजमाव को लेकर अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी मौन बने हुए है। वैसे तो लोग जैसे तैसे कीचड़ व जलजमाव से होकर कार्यालय पहुंच ही जाते हैं। यही हाल पदाधिकारी तथा कर्मियों का भी है। कीचड़ व जलजमाव के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पर रही है ऐसी स्थिति में प्रखंड कार्यालय परिसर में मिट्टी भराई तथा नाला का निर्माण नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बीते 11 जुलाई को प्रखंड व अंचल कार्यालय का डीएम विजय प्रकाश मीणा 4 घंटे तक औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने के बाद लौटने के क्रम में घैलाढ़ पंचायत के मुखिया विमल कुमार ने प्रखंड परिसर में जमा पानी व नाला निर्माण करवाने को लेकर अवगत करवाया था। लेकिन मिट्टी भराई व नाला निर्माण कर जलजमाव की समस्या दूर करने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। पूरे परिसर में कीचड़ व जलजमाव के कारण लोगों को बेहद परेशानी होती है। वही इस संबंध में वीडियो अविनाश कुमार ने बताया कि दो दिनों से लगातार बारिश हुई है जिसके कारण परिसर के एक हिस्से में पानी लगी हुई है बैठक कर जल्द नाला निर्माण कर समस्या को दूर कर ली जाएगी।

# झारखंड से सुपौल जा रही गिट्टी लदा ट्रक में रखी करीब 10 लाख का विदेशी शराब जब्त

प्रातः किरण संवाददाता

मधेपुरा बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड से सुपौल जा रही गिट्टी लदा ट्रक में रखी भारी मात्रा में अवैध शराब जिसे सुपौल जिला में खपाने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि जप्त शराब की कीमत करीब 10 लाख होगी। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि शराब की बड़ी खेप झारखंड से बिहार के सुपौल जिला जा रही थी पटना उत्पाद विभाग से मधेपुरा एसपी संदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी इसी आधार पर एसपी के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई जिस में में सामिल एएसपी प्रवेंद्र भारती और भरहीं थानाध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन तथा इंस्पेक्टर रामलखन पंडित सहित दर्जनों पुलिस जवानों ने भरहीं थाना क्षेत्र के मधुवन चौक पर नाकेबंदी कर गिट्टी लदा ट्रक को जप्त किया। जिसमे गिट्टी के अंदर 76 कार्टून यानी 748 लीटर शराब पाया गया वहीं ट्रक को जप्त करते हुए ट्रक चालक रंजीत कुमार कुमार को गिरफ्तार किया गया है साथ ट्रक मालिक के विरुद्ध उत्पात अधिनियम के तहत भरहीं थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक से जीपीएस भी बरामद किया गया है जिसके आधार पर अन्य लिंक भी खंगाला जा रहा है।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना का कार्यालय
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना, संख्या – 12 वर्ष 2024–25

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना।
2. परिमाण–विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.08..2024 को 12:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 20.08..2024 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 20.08..2024 को 03:30 बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (क) अंचल कार्यालय, दक्षिण बिहार भवन अंचल, पटना। (ख) प्रमंडल कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना। (ग) संबंधित अवर प्रमंडल कार्यालय।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक (5) के वर्णित स्थान (क) एवं (ख) पर।
7. कार्य का विवरणी :–

| क्र० | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख रू० में) | अग्रधन की राशि (रू० में) | परिमाण विपत्र का मू० (रू० में) (अप्रत्यर्पणीय) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remaining Work of Vitrified Tiles, Aluminium Work, Collapsible Gate and Water Proofing of Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 14.38 | 28,800=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 2. | Remaining Work of UPVC Work, Door Fittings and Other Work of Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 14.44 | 28,900=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 3. | Renovation of Stainless Steel Grill of Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 14.16 | 28,400=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 4. | Renovation of Flush Door, Gavian Polishing and Other Work at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.46 | 27,000=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 5. | Renovation of Door Paneling at Ground Floor Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.29 | 26,600=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 6. | Renovation of Door Paneling at First Floor Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 10.94 | 22,000=00 | 2,500=00 | 02 माह |

8. विशेष सूचना के लिए सूचनापट्ट या बेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar देखें या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क करें।

कार्यपालक अभियंता
केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना

PR. No. 005444 (BCD) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

# घटना से आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसएच 91 को किया जाम

● हाईटेंशन विद्युत पोल में बिजली प्रवाहित होने से करंट के चपेट में आयी 13 वर्षीय बच्ची की हुई मौत

प्रातः किरण संवाददाता

मुरलीगंज (मधेपुरा) प्रखंड क्षेत्र के रतनपट्टी गांव के बाध में खेत स्थित हाईटेंशन विद्युत पोल में प्रवाहित बिजली करंट के चपेट में आए एक 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मंगलवार दिन के करीब ढ़ाई बजे घटना हुई है। आक्रोशित लोग बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुरलीगंज-बिहारीगंज एसएच 91 को रतनपट्टी मोर के पास जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोग डीएम और एसडीएम को घटना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े थे। मौके पर पहुंचे बीडीओ आशा कुमारी, सीओ किसलय कुमार और जनप्रतिनिधियों के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया गया। घंटो मुख्य मार्ग जाम रहने से स्कूली छात्र छात्राओ, आवश्यक कार्य से आवाजाही करने वाले आमलोगों को काफी परेशानी हुई। सड़क जाम के दोनो तरफ बड़े व छोटे वाहनो की लंबी लाइन लगी रही। लगभग दो घंटे तक मुरलीगंज- बिहारीगंज एसएच 91 पर आवागमन बाधित रहा। बताया गया कि रतनपट्टी वार्ड दो निवासी पवन दास की पुत्री निभा कुमारी (13) वर्ष की करंट लगने से मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईटेंशन विद्युत पोल में बिजली प्रवाहित होने के कारण चपेट में आयी बच्ची की मौत हुई है। मृतिका निभा कुमारी धान रोपनी कर रहे मजदूर के लिए खाना लेकर खेत आयी थी। इस दौरान हाईटेंशन विद्युत पोल के बगल से गुजरने के क्रम में करंट के चपेट में आ गई। और मौके वारदात पर उनकी मौत हो गई। मृतिका के बड़े पापा मनोज दास ने बताया है कि विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण भतीजी की मौत हुई है।

# पंच सरपंचों की मांगे वाजिब, समीक्षा कर विधि सम्मत मांग पूरा किया जाएगा : केदार प्रसाद गुप्ता

प्रातः किरण संवाददाता

पटना। पंच सरपंचों का मांग वाजिब है, मांग पत्रों का समीक्षा कर विधि सम्मत जायज मांगों को पूरा करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। उक्त बातें पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पंच सरपंच संघ के बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी को चौकीदार की अति आवश्यकता है, पहले भी चौकीदार प्रहरी की व्यवस्था थी आज निहायत आवश्यकता है। इस दिशा में काम किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि पंच सरपंच बहुत ही सम्मानित पद है उसे बरकरार रखने में विभाग आवश्यक कार्य करेगी। कैबिनेट में फैसला लेकर जनहित में निर्णय जल्द लिया जाएगा। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का राज्य स्तरीय बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन बिहार राज्य पंचायत परिषद भवन पटना में हुआ,

जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने किया, वहीं सफल मंच संचालन प्रदेश संयोजक पुष्पेंद्र ठाकुर ने किया। महाबैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने पंच सरपंच संघ की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा किया तथा माननीय मंत्री से पंच सरपंच को 2006 ई से कम से कम 2000 मासिक पेंशन चालू करने तथा एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने एवं सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अन्य अधिकार देने की मांग किया, जिसे करतल ध्वनी से प्रस्ताव को पारित किया गया। सम्मान समारोह में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को अंगवस्त्र पुष्पमाला बुके पाग से सम्मानित किया गया। वही बिहार राज पंचायत परिषद के अध्यक्ष विदेश्वरी बाबू के भाई पूर्व मुखिया एवं जय सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच प्रभुनाथ सिंह राजेंद्र सिंह वशिष्ठ निषाद अमित दुबे रंजीत यादव मनोज कुमार वीरेंद्र यादव महेश राय रीता देवी गीतांजलि कुमारी, मदन , आरके सेठी विधि सलाहकार अजय कुमार प्रवक्ता मनीष झा, मनोज सिंह सहित पूरे बिहार के सभी जिला के जिला अध्यक्ष महासचिव प्रदेश पदाधिकारी आदि ने भाग लेते हुए कहा कि पंच सरपंचों का लंबित वेतन जल्द भुगतान हो, पंच सरपंचों पर हो रहे झूठा मुकदमा शोषण दमन अन्याय अत्याचार जानलेवा हमला हत्या पर रोक लगाने की मांग किया। प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा कि 2006 से पंच सरपंच संघ का नेतृत्व करने, सेवा देने का मौका मिला, आगे भी यथासंभव पंच सरपंच के हित के लिए हरेक कुबार्नी देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने पंच सरपंचों को एक जूटता प्रदर्शित करने का अपील किया।

सम्पादकीय

# बारिश हो रिमझिम रिमझिम तो बढ़े भूजल का स्तर

श्रावण का महीना और रिमझिम रिमझिम बरसात आज बीते जमाने की बात हो गई है। सही मायने में देखा जाए तो पिछले दो-तीन दशक की पीढ़ी तो रिमझिम बरसात या यों कहे कि सावण की झड़ी को तो देखना दूर की बात जानती भी नहीं होगी। एक समय था जब श्रावण में बरसात की झड़ी लग जाती थी और कई कई बार तो तीन-तीन, चार-चार दिन तक भगवान भास्कर के दर्शन मात्र को तरश जाते थे। इससे होता क्या था झरी लगती थी तो पानी सीधे जमीन में जाता था, जमीन की प्यास बुझती थी और जब प्यास बुझने लगती तो भूजल का स्तर बढ़ने लगता था। आज हालात दूसरे हैं। तेज बरसात आती हैं और बरसात का पानी भूमि की प्यास बुझाने के स्थान पर बह कर चला जाता है। कहने को तो वर्षा का ओसत तो पूरा दिखाई दे जाता हैं, सामान्य वर्षा के आंकड़ें भी पूरे हो जाते हैं पर बरसात का अधिकांश पानी बह कर निकल जाता है या फिर बाढ़ या शहरों की खराब ड्रेनेज व्यवस्था के कारण एकत्रित हो जाता है और फिर मक्खी-मच्छरों का स्थल बनकर बीमारी का प्रमुख कारण बन जाता है। क्योंकि अब तो रिमझिम बरसात का स्थान तेज वर्षा लेती जा रही है, एक दिन में ही रेकार्ड बरसात के समाचार आते हैं और इस कारण पानी भूजल स्तर को बढ़ाने की जगह बह जाता है।

दरअसल यह सब जलवायु परिवर्तन का कारण है तो दूसरी और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, वनों और गांवों को शहरों में तब्दील कर कंक्रिट का जंगल विकसित करने और इससे भी दो कदम आगे प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट करना या उन्हें लगभग समाप्त कर कॉलोनियां विकसित कर देना रहा है। दरअसल हमारे वास्तुकारों ने शहरों को डिजाइन करते समय यह सोचा ही नहीं की पानी संग्रहण के लिए भी कोई जगहें विकसित हो। यह तो उनके दिमाग में ही नहीं रही। बाकी कसर शहरों में कच्ची जगह तो छोड़ने के प्रयास ही नहीं हुए यहां तक कि फुटपाथ तक पक्के कर दिए गए और सड़क किनारे लगे पेड़ों को भी चारों तरफ से पक्का कर दिया गया ताकि पानी भूमि में कहीं से जा ही नहीं सकें। अन्य कारणों के साथ यह भी एक बड़ा कारण है कि मौसम चक्र पूरी तरह से गड़बड़ाता जा रहा है। सर्दी में सर्दी नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं और बरसात में बरसात के हालात नहीं दिखाई देने लगे हैं। हांलाकि आज मानसून के प्रेडिक्शन यानी की संभाव्यता तो लगभग सही सही बताई जाने लगी है पर प्रकृति ने जो अपना खेल दिखाया है वह अपने आप में गंभीर और चिंतनीय है। ऐसा नहीं है कि हालात जानते या समझते नहीं हो, और हालात पर चर्चा करने के लिए दुनिया के देशों के दिग्गज बैठते भी हैं और चर्चा भी करते हैं, कागजों में बड़ी बड़ी रिपोर्ट और रोडमैप भी बनते हैं पर परिणाम सामने हैं।

एक पहलू यह भी है कि भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया और यह आज भी बदस्तूर जारी है। कम पानी वाले फसल चक्र के बारें में समय पर सोचा ही नहीं गया। जमीन से पानी खिंचने के लिए पहले कुएं होते थे, उनसे उतना ही पानी निकलता था जितना रिचार्ज हो जाता था, पर कुओं का स्थान बोरिंग और बोर वेल ने ले लिया और धरती में समाये पानी को निचोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि समस्या की गंभीरता से अनविज्ञ रहे हो पर जो उपाय किये गये वह नाकाफी होने के साथ ही कारगर सिद्ध नहीं हुए। पिछले तीन-चार दशक से शहरों में वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम सरकार स्तर पर बनाने के साथ ही कोलोनाइजर्स को बनाने को कहा जाता रहा और आज भी कहा जा रहा है पर उसकी पोल इसी से पूरी हो जाती है कि कहने को तो वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम बना दिये, पैसे भी पूरे लग गए पर उनका स्ट्रक्चर जाने-अनजाने ऐसे बन गए

# हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे

तनवीर जाफरी

मानसून की आमद हो चुकी है। इस मौसम में देश के किसी न किसी भाग से बाढ़, जलप्रलय, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आती रहती हैं। इस बार भी जहाँ हिमाचल प्रदेश व उत्तरांचल से बादल फटने व भूस्खलन की कई खबरें भयावह तस्वीरों के साथ आ चुकीं वहीँ केरल के वायनाड ज़िले के मुंडक्कई, चूरलमाला और मलप्पुरम ज़िले के नीलांबुर वन क्षेत्र में हुए सबसे खतरनाक व डरावने भूस्खलन ने तो पूरे देश को शोकमग्न कर दिया। खबरों के अनुसार इस भूस्खलन में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत व सैकड़ों लोगों के लापता होने का समाचार हैं। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिमाचल व उत्तरांचल से आने वाली वह तस्वीरें जिनमें अनेक मकान व गाड़ियां जलसमाधि लेते दिखाई देते हैं वास्तव में प्रकृति की अथाह शक्ति का दर्शन कराती हैं। बेशक ऐसी त्रासदियों को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जा सकता है। क्योंकि प्रकृति का यह प्रहार कब कहाँ, किस रूप में और किस तीव्रता के साथ हो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के बावजूद किसी को इस बात का सही अंदाजा नहीं हो पाता।

परन्तु रिहायशी इलाकों में पानी भर जाना, भूमिगत मार्गों का तालाब में बदल जाना, नाली नालों का जाम होना आदि को तो प्राकृतिक आपदा का नाम हरगिज नहीं दिया जा सकता? नया संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जोकि 13, 450 करोड़ की लागत से लगभग 4 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और गत वर्ष 19 सितंबर 2023 से इस नई संसद भवन में पहली कार्यवाही शुरू की गई थी। इसी संसद भवन की एक गुंबद से बारिश में पानी टपकने लगा और जलभराव हो गया। संसद भवन में पानी टपकने की जगह पर बाल्टी रखी गयी थी जिससे पानी बाल्टी में गिर रहा था। कई सांसद भी बारिश में भीगते हुये बाहर निकल रहे थे। यानी नए संसद भवन में कोई पोर्टिको भी नहीं है और संभवत वहां जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब संसद भवन के टपकने में प्रकृति का क्या दोष? इस घटना के बाद आरोप लग रहा है कि यहाँ न तो छत वाटर प्रूफ है न ही पानी निकासी के समुचित प्रबंध हैं न सीवर ड्रेनेज सिस्टम सही है। जबकि अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुराना संसद भवन जोकि 97 साल पहले 1927 में बनाया गया था आखिर उसके टपकने या लीक होने की तो आज तक कोई खबर नहीं आयी? परन्तु मात्र एक वर्ष पहले तैयार हुआ संसद भवन टपकने भी लगा? इस घटना में प्रकृति दोषी है या भ्रष्ट प्रबंधन या अकुशल, अदूरदर्शी निर्माणकर्ता व इंजीनियर्स?

इसी तरह मानसून से पहले ही जून माह के अंत में जब पहली बारिश हुई उस समय अयोध्या में राम मंदिर मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र मिश्र ने उसी समय मामले की गंभीरता का जिक्र करते हुये कहा था कि, ह्यगर्भगृह में, जहां रामलला विराजमान हैं, वहां भी पानी भर चुका है। ऐसे में कहीं बिजली का करंट न उतर आए इसलिए सुबह 4 बजे और 6 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। उसी समय पुजारी ने यह भी कहा था कि अगर एक-दो दिन में इंतजाम नहीं हुआ, तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। ह्न अभी तक राम मंदिर का जो केवल एक फ्लोर तैयार हुआ है इसी पर लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परन्तु मंदिर ट्रस्ट के कई जिम्मेदार लोगों द्वारा पुजारी सत्येंद्र मिश्र के आरोपों को झुठलाने की कोशिश की गयी। जरा सोचिये यह घटना प्राकृतिक आपदा का परिणाम है या भ्रष्टाचारी व अकुशल निर्माण व्यवस्था का? पिछले दिनों अयोध्या में ही दस से अधिक जगहों पर सड़कों के धंसने के भी सचित्र समाचार आये थे। ऐसी ही शुरूआती बारिश में पिछले महीने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर पार्किंग की छत गिर गई थी। इस हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गये थे। उसी दौरान देश के अनेक हवाई अड्डों की छतों के टपकने व पानी से एयरपोर्ट के लबालब भर जाने के समाचार आये थे। पिछले दिनों भी मध्यप्रदेश के सतना में 30 करोड़ की लागत से बने एयरपोर्ट में बारिश का पानी भर गया। एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में भी पानी भर गया। जिससे एयरपोर्ट क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता व इसकी डिजाइन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मात्र डेढ़ इंच बारिश ने सतना में 30 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस नवनिर्मित एयरपोर्ट को जल-भराव के कारण अपनी चपेट में कैसे ले लिया? इसी तरह जयपुर में भी पिछले दिनों हुई बारिश ने तो पूरी गुलाबी नगरी को ही डुबो कर रख दिया। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले जयपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कार्यालय, स्कूल, बाजार, मुहल्ले कॉलोनी पुलिस थाने आदि सभी जलमग्न हो गये। जगह-जगह सड़कें धंस गईं, जिनमें स्कूल बस, रिक्शा, कारें और बुलडोजर तक समा गए। इसी तरह बंगाल के बर्धमान जिले के दुर्गापुर में हुई लगातार बारिश के कारण हवाई अड्डे के परिसर में और उसके आसपास जलभराव हो गया है। जिससे काजी नजरूल इस्लाम हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एक अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली और बेंगलुरु सहित हवाई अड्डे से आने-जाने वाली लगभग तीन उड़ानों को रद्द करना पड़ा।

# बांग्लादेश में चीन और आईएसआई ने मिलकर जो साजिश रची थी, वह सफल हो गयी है

**बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया और कई मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से अपने घर में नजरबंद खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी आ गया। यदि आप बांग्लादेश में हाल में घटी सारी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि यह सब कुछ तय पटकथा के हिसाब से हुआ है। इसलिए शेख हसीना सरकार का जाना और खालिदा जिया का कैद से बाहर आना भारत के लिए चिंताजनक खबर है। पहले ही डुरंड लाइन के नाम से मशहूर भारत और अफगानिस्तान सीमा तथा पाकिस्तान व चीन से लगती सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर भी सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण हो गये हैं। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटा है यदि उसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि हमें घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जो प्रयास लंबे अर्से से कर रहे थे उसमें वह कुछ हद तक कामयाब हो गये हैं। दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहतन करता और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता हिंदुस्तान हमारे दुश्मनों को नहीं भा रहा है। इसलिए भारत में अशांति फैलाने के लिए तमाम प्रयास किये जाते हैं। दुश्मनों को लगता है कि भारत ने आतंक और उग्रवाद पर काबू पाने में जो सफलता पाई है कैसे उसे विफल करा जाये। इसके लिए वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और सीधी लड़ाई से बचते हुए दायें या बायें से वार करना चाहते हैं। दुश्मन को जम्मू-कश्मीर की शांति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति नहीं भा रही है।**

नीरज कुमार दुबे
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहतन करता और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता हिंदुस्तान हमारे दुश्मनों को नहीं भा रहा है। इसलिए भारत में अशांति फैलाने के लिए तमाम प्रयास किये जाते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया और कई मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से अपने घर में नजरबंद खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी आ गया। यदि आप बांग्लादेश में हाल में घटी सारी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि यह सब कुछ तय पटकथा के हिसाब से हुआ है। इसलिए शेख हसीना सरकार का जाना और खालिदा जिया का कैद से बाहर आना भारत के लिए चिंताजनक खबर है। पहले ही डुरंड लाइन के नाम से मशहूर भारत और अफगानिस्तान सीमा तथा पाकिस्तान व चीन से लगती सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर भी सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण हो गये हैं। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटा है यदि उसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि हमें घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जो प्रयास लंबे अर्से से कर रहे थे उसमें वह कुछ हद तक कामयाब हो गये हैं।

दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहतन करता और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता हिंदुस्तान हमारे दुश्मनों को नहीं भा रहा है। इसलिए भारत में अशांति फैलाने के लिए तमाम प्रयास किये जाते हैं। दुश्मनों को लगता है कि भारत ने आतंक और उग्रवाद पर काबू पाने में जो सफलता पाई है कैसे उसे विफल करा जाये। इसके लिए वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और सीधी लड़ाई से बचते हुए दायें या बायें से वार करना चाहते हैं।

दुश्मन को जम्मू-कश्मीर की शांति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति नहीं भा रही है। दुश्मनों ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंक और उग्रवाद को हवा देने के लिए तथा भारत को इस दंश से जूझने के लिए जो कड़ी मेहतन की थी उस पर पिछले दस सालों में पानी फेर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी कमांडरों और अलगावावादियों का सफाया हो चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भी अपेक्षाकृत शांत हो गया है। वहां के कई उग्रवादी संगठन सरकार से समझौता कर मुख्यधारा के जीवन में लौट आये हैं। उग्रवादी और आतंकी संगठनों को मिलने वाली टैरर फंडिंग पर भी रोक लग गयी है। जाहिर है यह सब पाकिस्तान और चीन को नहीं भा रहा था। खासतौर पर शेख हसीना के कार्यकाल में जिस तरह बांग्लादेश सरकार भारत को वरीयता देती थी उससे भी चीन नाखुश रहता था। ऐसे में चीन इस ताक में था कि कैसे इस स्थिति को बदला जाये। चीन को परेशान देख पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मदद के लिए प्रस्ताव रखा और फिर योजनाबद्ध तरीकों से चीजों को आगे बढ़ाया गया।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर (आईसीएस) को पाकिस्तान में काम कर रही कुछ चीनी कंपनियों की ओर से फंडिंग भी दी गयी थी। इन पैसों का इस्तेमाल बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जनभावनाएं भड़काने और छात्रों का आंदोलन खड़ा करने में किया गया था। बताया जा रहा है कि चीन और आईएसआई की मिलीभगत से यह तय किया गया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए कब क्या किया जाना है। इस्लामी छात्र शिबिर आईएसआई के बेहद नजदीकी माने जाने वाले देवबंदी आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) के साथ काम रहा था।

बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां लंबे समय से इस्लामी छात्र शिबिर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं क्योंकि उन्हें खबर लगी थी कि भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस्लामी छात्र शिबिर के कुछ सदस्यों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण भी दिलाया गया था। इस संबंध में कुछ वीडियो भी हाल के दिनों में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। बताया जा रहा है कि इन सबका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान के तालिबान जैसी सरकार बनाई जा सके। इस संबंध में आईएसआई ने पूरी मदद और समर्थन का भरोसा भी इस्लामी छात्र शिबिर को दिलाया था। यह सारे समूह चाहते थे कि दिन पर दिन जिस तरह भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। चीन भी देख रहा था कि जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विभिन्न मुद्दों पर चीन को वरीयता देने की बजाय भारत के साथ खड़ी हो जाती हैं उस स्थिति से तभी छुटकारा मिल सकता है जब बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बन जाये।

जहां तक बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की बात है तो उसने कभी भी भारत विरोधी रवैया अख्तियार करने का मौका नहीं गंवाया। बताया जा रहा है कि बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामी छात्र शिबिर के साथ मिलकर सरकार विरोधी आंदोलन को हवा दी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। इसके अलावा, बांग्लादेश सेना जिस तरह कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकती दिख रही है और देश को अराजकतावादियों के हाथों में जाते देख रही है उससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। बहरहाल, भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले रोकने की दिशा में कदम उठाने के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष निगाह रखनी होगी। यहां किसी भी राज्य में सरकार विरोधी आंदोलन को अगर हवा दी जाती है तो उसे तत्काल थामना होगा। दरअसल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत ने शांति को स्थापित करने के लिए जो मेहनत की है उसको बाधित करने के लिए उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इसलिए बहुत सतर्क रहना होगा। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, नशीली दवाओं और मानव तस्करी पर लगाम लगाने और नकली मुद्रा से संबंधित मुद्दों के समाधान की दिशा में जो सफलता प्राप्त की है, उसे भी विफल करने के प्रयास किये जायेंगे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

# क्या दुनिया को है सन्देश, जलता हुआ बांग्लादेश?

**हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश संसद में वाद विवाद संवाद व्यवस्थित नही रहा, बांग्लादेश संसद ने जनता का यकीन खो दिया, बांग्लादेश में जो हालात बेकाबू हुए इससे साबित होता देश में जनता से बड़ा कोई नही, कुछ गलत निर्णय देश को सालों साल पीछे धकेल देते। गलत निर्णय कितने भारी पड़ गए बांग्लादेश को .... किसी देश में तख्तापलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या नुकसान हो। इसके अलावा तख्तापलट की एक संभावना तब बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्तापलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अपने देश में भी इन दिनों जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं।**

प्रियंका सौरभ
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अपने देश में भी इन दिनों जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश संसद में वाद विवाद संवाद व्यवस्थित नही रहा, बांग्लादेश संसद ने जनता का यकीन खो दिया, बांग्लादेश में जो हालात बेकाबू हुए इससे साबित होता देश में जनता से बड़ा कोई नही, कुछ गलत निर्णय देश को सालों साल पीछे धकेल देते। गलत निर्णय कितने भारी पड़ गए बांग्लादेश को....

किसी देश में तख्तापलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या नुकसान हो। इसके अलावा तख्तापलट की एक संभावना तब बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्तापलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अपने देश में भी इन दिनों जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। भारत में भी जाति और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संसद में ह्यराजनीतिह्न चरम पर है और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण सम्बन्धी हालिया फैसले ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश संसद में वाद विवाद संवाद व्यवस्थित नही रहा, बांग्लादेश संसद ने जनता का यकीन खो दिया, बांग्लादेश में जो हालात बेकाबू हुए इससे साबित होता देश में जनता से बड़ा कोई नही, कुछ गलत निर्णय देश को सालों साल पीछे धकेल देते। गलत निर्णय कितने भारी पड़ गए बांग्लादेश को। बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपना देश छोड़कर जा चुकी हैं, जिसके बाद यहां की सत्ता अब सेना के हाथों में चली गई है। माना जा रहा है कि अब आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमान देश की कमान भी संभालेंगे। किसी देश में तख्तापलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या नुकसान हो। इसके अलावा तख्तापलट की एक संभावना तब बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्तापलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। आंकड़ों के अनुसार 1950 से अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 400 से भी अधिक बार तख्तापलट हो चुका है। इस मामले में दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया टॉप पर है। यहां अब तक 20 से भी अधिक बार तख्तापलट हो चुका है। इसके अलावा इराक में 10 से भी अधिक बार और पाकिस्तान में 4 बार तख्तापलट हो चुका है। वहीं, अफ्रीकी देशों में भी 10 से अधिक बार तख्तापलट हुआ है।

बांग्लादेश साल 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। साल 1972 में इसे बतौर देश मान्यता मिली थी। 1972 में तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि, साल 2018 में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। हालांकि, इस साल जून में हाईकोर्ट के फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए इसे दोबारा लागू कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने में विरोध प्रदर्श शुरू हो गए। शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल पांच फीसदी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होगी। दो फीसदी नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को होनी थी लेकिन, इससे पहले विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में एक तिहाई आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वह इस आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते रहे। सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी और बढ़ती गई।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा होती है और वह दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 वर्ष के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली है। मगर बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का लाभ सबको नहीं मिल रहा जिससे वहां असमानता बढ़ रही है। एक अनुमान है कि वहां लगभग 1।80 करोड़ युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है। बांग्लादेश टेक्स्टाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहां बने रेडिमेड कपड़े सारी दुनिया में निर्यात होते हैं। इस उद्योग में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मगर इन नौकरियों में कॉलेजों के पढ़े-लिखे छात्रों के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सत्ता गिर गई।

# विश्व युद्ध का अंदेशा और बांग्लादेश में सेना का तख्ता पलट

डॉ हिदायत अहमद खान

पिछले कुछ समय से दुनियां के शक्तिशाली देशों के हालात सही नहीं चल रहे हैं। विकसित ही क्यों विकासशील छोटे-छोटे देशों का हाल भी बुरा है। इसे आर्थिकमंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं और मंदी के चलते महंगाई चरम पर है। इस पर विकट समस्या यह है कि अधिकांश देश अपने पड़ोसी देश को दुश्मन देश मानकर हमले करने पर उतारु दिख रहे हैं। पड़ोसी देश एक-दूसरे से या तो लड़ रहे हैं या फिर लड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। बात कुछ भी न हो, तब भी तनातनी का माहौल बराबर बना हुआ है। यहां देखा जा सकता है कि एक तरफ रुस और यूक्रेन भिड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हमास के हमले के बाद इजराइल अमेरिका की मेहरबानी से गाजा में फिलस्तीन से लेकर तमाम पडोसी मुल्कों से भिड़ने का दंभ भरे हुए है। हमास चीफ हानिया को ईरान में साजिशन हत्या कराए जाने के बाद मामला और बिगड़ चुका है। दुश्मनों से घिरे इजराइल को ढांढस बंधाने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडन कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भी तो परेशानियां हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाने का काम किया वैसे ही रुस भी अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया को इस संकट वाली स्थिति में खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए भी कहना उचित होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन ने अपनी फ्रंट लाइन आर्मी यूनिट को 250 परमाणु सक्षम मिसाइल लांचर तैनात करने के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। यही नहीं किम जोंग उन ने तो अमेरिकी खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना को परमाणु क्षमताओं को और बढ़ाने का संदेश देते हुए तैयार रहने को भी कह ही दिया। इस प्रकार उत्तर कोरिया का परमाणु हथियारों पर जोर देने का मकसद दक्षिण कोरियाई सीमा पर सेना को मजबूत करना तो बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अमेरिका को आंख दिखाने जैसा यह काम किया गया है। इनकी तैनाती बताती है कि दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका की राहें भी अब मुश्किल होने वाली हैं। यदि इजराइल की नेतन्याहू सरकार के बचाव में अमेरिका कदम आगे बढ़ाता है तो एक महायुद्ध का बिगुल भी बज जाएगा। इससे महज गाजा और आसपास के देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। अनेक देश तब युद्धभूमि का हिस्सा होने के तौर पर चिहिन्त किए जाएंगे। ऐसे में अमेरिका को उसके अपने घर में चुनौती देने वाली ताकतें भी फिर चुप न बैठेंगी। बहरहाल यहां हम बात बांग्लादेश के सैन्य तख्ता पलट कर करने जा रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन ने हिंसक रुप लेकर सब कुछ तहस-नहस करने जैसा कर दिखाया है। ऐसे माहौल में जब हम अपनी नजरें भारत और उसके तमाम पड़ोसी मुल्कों के हालात पर डालते हैं तो पाते हैं कि यहां पर भी कोई बेहतर स्थिति नहीं है। सभी अपनी घरेलु समस्याओं में उलझे हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक हालात भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो मौजूदा सरकार की स्थिरता को लेकर ही शंकाएं विद्यमान हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को लेकर पाकिस्तान की राजनीति आज तक गर्माई हुई है। ऐसे में बलूच मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। बलूच समर्थक लोग तो पुलिस व सेना से दो-दो हाथ करने को आतुर दिखते हैं। यह मामला अभी चल ही रहा था कि बांग्लादेश से सेना का तख्ता पलट की अचानक अचंभित करने वाली खबर भी आ गई है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग जंगल में लगी आग साबित हुई है।

## संक्षिप्त खबरें

### भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

रक्सौल। भारत-नेपाल सीमा पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के ड्यूटी करने के बाद भी बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शराब बरामद किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद के निगरानी में लगातार छापेमारी करने के दौरान भारी मात्रा में नेपाल निर्मित शराब के साथ दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बाबत इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से शराब की एक बड़ी खेप भारत में में प्रवेश करने वाली है तो एक टीम गठीत कर छापेमारी शुरू किया गया, जिसमें 500 एमएल का 60 पीस किंग फिसर बियर के साथ एक शराब कारोबारी व 48 लीटर नेपाली शराब व 160 बोतल सॉफी शराब के साथ दूसरे शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों शराब कारोबारी की पहचान पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरीया थाना क्षेत्र के सीधिया गुमटी निवासी मोहर्रम मियां का पुत्र सलाउद्दीन मियां के रूप में हुआ है। वही दूसरा कारोबारी की पहचान रक्सौल थाना क्षेत्र के मौजे माई स्थान नंदलाल दास के पुत्र धर्मातमा दास के रूप में की गयी है, जिसे अग्रतर कार्यवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज कर मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

### संदिग्ध अवस्था मे महिला की लाश बरामद

बेतिया मोहन सिंह। कुमारबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने घर में फांसी से लटका संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार कुमारबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलकौली वार्ड नंबर 6 में मंगलवार की सुबह एक विवाहित पम्मी देवी उम्र करीब 25 वर्ष पति महंत पटेल का शव फांसी से लटका हुआ ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। महिला के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जाते हैं। महिला के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार महिला के शरीर में मिट्टी और पांकी लगा हुआ था। कुमारबाग पुलिस द्वारा अग्रतर कार्यवाई की जा रही है।

### मशरक के बहरौली में मुख्य सड़क पर गिरा विशाल पेड़, आवागमन बाधित

मशरक। मशरक प्रखंड अंतर्गत बहरौली पंचायत के दलित बस्ती बहरौली श्रीनगर में मुख्य सड़क पर विशाल पेड़ गिरने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। इस संदर्भ में बहरौली पंचायत के देवरिया तख्त गांव निवासी डॉ सुमन ने बताया कि सोमवार की देर रात्रि में तेज बारिश और हवा के कारण श्रीनगर दलित बस्ती में विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया है।इस संदर्भ में पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने कहा कि यथाशीघ्र सड़क पर गिरे हुए पेड़ को हटवाकर आवागमन पूर्ण रूप से सुचारू करने का काम किया जा रहा है।

### प्राशिक्षण सम्पन्न

छपरा कार्यालय। सभी नव चयनित महिला पर्यवेक्षिका का कार्य एवं दायित्व संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण डीआरडीए सभागार में की गई जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन, निरीक्षण, सेविकाओं का सेक्टर बैठक, आईसीडीएस द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जैसे पोषण अभियान अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां एवं पोषण ट्रैक्टर ऐप पर सविताओं द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली इंट्री एवं उसका अनुश्रवण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अनुग्रह अनुदान, परवरिश योजना आदि की जानकारी दी गई! जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण में दिए गए जानकारी एवं निदेशों का पालन सभी महिला पर्यवेक्षिका इसका उपयोग आंगनबाड़ी निरीक्षण एवं उसका सही तरीके से संचालन करने में करायेगी! पोषण अभियान के जिला समन्वयक श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा पोषण अभियान अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के बारे जानकारी दी गई! उक्त प्रशिक्षण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ईसुआपुर एवं दिघवारा के द्वारा दी गई इसमें निभा कुमारी जिला मिशन समन्वय ऋषिकेश कुमार सिंह लैंगिक विशेषज्ञ , सहयोगी प्रशिक्षक अनु कुमारी महिला पर्यवेक्षाका इसुआपुर, गरिमा कुमारी एवं निहारिका कुमारी महिला पर्यवेक्षिका रिविलगंज, संगीता कुमारी लहलादपुर आदि उपस्थित रहे !

# जिलाधिकारी ने समाहरणालय परिसर का किया स्थल निरीक्षण

- परिसर में वाहन पार्किंग, जलजमाव, रास्ता निर्माण, अतिक्रमण हटाने एवं सुरक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिया महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कार्यालय। जिलाधिकारी अमन समीर ने आज सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। अपर समाहर्त्ता के कार्यालय से वन स्टॉप सेंटर भवन तक कच्चा रास्ता होने के कारण काफी कीचड़ लगा हुआ पाया गया जिसको लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को पेवर ब्लॉक या पीसीसी रास्ता के निर्माण हेतु कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वन स्टॉप सेंटर भवन के सामने स्थित जर्जर भवन तथा पूर्वी भाग में पुराना निबंधन कार्यालय के जर्जर भवन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ध्वस्त करने हेतु तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर भवन के लिए चहारदीवारी निर्माण कर एक प्रवेश द्वार लगवाने का निर्देश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता के कार्यालय के सामने विधि मंडल भवन के आसपास काफी भीड़ थी तथा अपर समाहर्त्ता के कार्यालय के सामने ही काफी संख्या में दो पहिया वाहन लगे हुए पाये गये।कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को अपर समाहर्त्ता कार्यालय के सामने स्थित सड़क के किनारे संपूर्ण खाली जगहों पर पेवर ब्लॉक लगाकर विधि मंडल भवन के सामने जाली लगाकर घेरने का निदेश दिया। जिला निबंधन कार्यालय एवं नजारत शाखा के समक्ष जलजमाव की समस्या का निराकरण करने का निदेश भवन प्रमंडल को दिया गया। समाहरणालय परिसर एवं व्यवहार न्यायालय परिसर के बीच गेट नंबर-3 पर लोहे का दरवाजा काफी जर्जर स्थिति में पाया गया। इस गेट को अधिवक्ताओं के आने जाने हेतु बनाया गया था परंतु इसका उपयोग आमजनों द्वारा किये जाने के कारण काफी भीड़ हो रही है।पुलिस अधीक्षक सारण से इस गेट पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया।साथ ही इस प्रवेश द्वार के पास ह्वसुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त प्रवेश द्वार के माध्यम से केवल अधिवक्ताओं को आवागमन की अनुमति है, आमजनों का प्रवेश वर्जित है। आमलोग व्यवहार न्यायालय अथवा समाहरणालय परिसर में प्रवेश हेतु मुख्य द्वार का उपयोग कर सकते हैंह्व से सम्बन्धित सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया। प्रवेश द्वार के पास अवस्थित फोटो कॉपियर की दुकानों को नोटिस देकर हटाने को कहा गया।

कोषागार कार्यालय एवं निर्वाचन कार्यालय के सामने स्थित जगह को पूर्ण रूप से घेरकर पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित करने को कहा गया।अन्य उपयुक्त स्थलों को भी पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में अपर समाहर्त्ता, नजारत उपसमाहर्त्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

## लायंस क्लब मोतिहारी कपल के आठवें स्थापना समारोह में लायंस क्लब ऑफ रक्सौल हुआ शामिल

प्रातः किरण, संवाददाता

रक्सौल। मोतिहारी लायंस क्लब कपल, डिस्ट्रिक्ट 322 ई के आठवें स्थापना समारोह में लायंस क्लब ऑफ रक्सौल, डिस्ट्रिक्ट 322ई के अध्यक्ष लायन साइमन रेक्स, सचिव लायन बिमल सर्राफ,कोषाध्यक्ष लायन मोहम्मद निजामुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डेंटल एण्ड ओरल हेल्थ लायन नारायण रुँगटा की सहभागिता रही। डिस्ट्रिक्ट 322ई के जिलापाल लायन गणवंत मल्लिक मुख्य अतिथि थे।स्थापना पदाधिकारी पुर्व जिलापाल लायन नम्रता सिंह ने 2024-2025 सत्र के लिए सभी क्लब पदाधिकारीगण को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रथम महिला लायन प्रेमा मल्लिक, द्वितीय उप जिलापाल लायन संगीता नंदा,लायन डॉक्टर आशुतोष शरण,लायन अमरनाथ साहु,पुर्व जिलापाल प्रकाश नंदा,पुर्व अध्यक्ष लायन अंगद सिंह आदि की उपस्थिति रही।क्लब अध्यक्ष लायन चंदेश्वर मिश्रा, सचिव लायन नवीन निशांत, कोषाध्यक्ष लायन अभिषेक लोहिया ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी उपस्थित लायंस, रोटरी क्लब से आए हुए पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण केसाथ ही गणमान्य व्यक्तियों का सादर आभार प्रगट किया। लायंस क्लब रक्सौल ने मंचासीन पदाधिकारीगण को पुष्प गुच्छ दे कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन लायन अनिल अग्रवाल एवं लायन सुनीता गुप्ता ने किया, जिसकी जानकारी रक्सौल लायंस क्लब सचिव सह मीडिया प्रभारी लायन बिमल सर्राफ ने दी।

## युवा राजद प्रखण्ड अध्यक्ष बने अरमान आलम मिल रहा बधाइयां

प्रातः किरण, संवाददाता

रक्सौल। 06 अगस्त को युवा राजद प्रधान कार्यालय मोतिहारी मे युवा राजद जिला अध्यक्ष म. असलम के द्वारा अरमान आलम को रक्सौल प्रखण्ड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया, जिससे रक्सौल राजद कार्यकर्ताओ मे हर्ष है। अरमान आलम के मनोनयन पर पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष युवा राजद रक्सौल सह राजद जिला उपाध्यक्ष सैफुल आजम ने बधाई देते हुए कहा कि अरमान आलम के मनोनयन से रक्सौल राजद को मजबूती मिलेगा, संगठन धारदार होगा, बिहार प्रदेश युवा राजद टीम का एक ही लक्ष्य है, 2025 चुनाव मे अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना। मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास इस लक्ष्य मे अरमान आलम के द्वारा पूरा सहयोग मिलेगा। वही अरमान आलम ने कहा जिला अध्यक्ष जो विश्वास करके मुझे यह नई जिम्मेवारी दिए हैं, उस मै खड़ा उतरूंगा। अरमान आलम के प्रखण्ड अध्यक्ष मनोनीत होने पर पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव, सुरेश यादव, प्रदेश महासचिव फखरुद्दीन आलम, राजद जिला उपाध्यक्ष सैफुल आजम, राजद नेता सुनील कुशवाहा, युवा राजद जिला महासचिव रवि भारती, प्रदीप प्रेम, प्रखण्ड अध्यक्ष सौरंजन यादव, राजद नगर अध्यक्ष उमेश कुमार, प्रखण्ड अध्यक्ष अनु.जाति प्रकोष्ठ दिनेश राम, प्रखण्ड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ संजय यादव, प्रखण्ड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हसीबुर रहमान, नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मूसा आलम, प्रखण्ड अध्यक्ष अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ नीतेश कुमार गुप्ता, युवा राजद नगर अध्यक्ष दुर्गेश साह, छात्र राजद अध्यक्ष सोनू साह, बिकु यादव, कुणाल राय, मनोहर राय, मुन्ना यादव,शमीम अंसारी, एजाजुल हक सहित अन्य राजद कार्यकर्ताओ ने बधाई एंव शुभकामनाएं दी।

## पश्चिम चंपारण जिला कार्यालय में जन सुराज जिला कार्यवाहक समिति एवं पदाधिकारियों की हुई घोषणा

### कृष्णा बिंद बने जिला अध्यक्ष, अर्चना बाला बनीं महिला अध्यक्ष

प्रातः किरण, संवाददाता

बेतिया(घनश्याम)। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा पश्चिम चंपारण से चलने के महीनों बाद मधेपुरा पहुंची है। अबतक जिन ज़िलों में पदयात्रा हो चुकी है उन जिलों में संगठन विस्तार तेजी से किया जा रहा है। उसी क्रम में मंगलवार को पश्चिम चंपारण स्थित जन सुराज जिला कार्यालय में जन सुराज जिला कार्यवाहक समिति एवं पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान एमएलसी अफाक अहमद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णा बिंद, नवनिर्वाचित महासचिव कमलेश कुमार, अभियान समिति के संयोजक कुंदन पाण्डेय, मुख्य प्रवक्ता रश्मि राव, पूर्व महासचिव राघवेंद्र पाठक ने हिस्सा लिया और जन सुराज को मजबूत करने के लिए कई सारी योजना बनाई। कार्यक्रम के बीच प्रेस वार्ता कर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। कार्यक्रम में जन सुराज को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए जिला की महिला अध्यक्ष अर्चना बाला ने कहा कि प्रत्येक जिला कार्यवाहक समिति सदस्य ने जन सुराज के विचार को आने वाले दिनों में हजारों लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इतना ही नहीं जन सुराज परिवार को आने वाले दिनों में सबसे मजबूत राजनीतिक दल के रूप में तैयार करने की रूपरेखा तैयार की। 2 अक्टूबर को पार्टी बनने के बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए और भी निम्न प्रयास किए जाएंगे।इस अवसर पर समिति ने जन सुराज की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यक्रमों की योजना बनाई।

## चार दिन से गायब नाबालिग लड़की घर पहुंची, परिजनों ने लगाया शिवानी रेस्टुरेंट व्यवसायी पर गम्भीर आरोप

प्रातः किरण, संवाददाता

बगहा। वाल्मीकिनगर स्थित जलसंसाधन विभाग के जी टाइप कॉलोनी निवासी बेचू मियां ने स्थानीय गोलचौक स्थित शिवली रेस्टुरेंट संचालक पर गम्भीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री 15 वर्षीय काल्पनिक नाम रेशमा को चार दिन तक बहला फुसलाकर रेस्टुरेंट में छुपाकर रखा था।जब पुलिस की दबिश और परिजनों के खोजबीन के बीच हो हल्ला मचा तो शिवानी संचालक ने लड़की को छोड़ दिया जो घर वाले को मिली। लकड़ी के पिता ने वाल्मीकिनगर थाने में आवेदन देकर गुम हुई लकड़ी को खोजने की गुहार लगाई थी। लकड़ी के पिता बेचू मियां ने बताया कि मेरी 15 वर्षीय लड़की 3 जुलाई को शाम 6 बजे घर से निकली थी । काफी खोजबीन की गई जब शिवानी रेस्टुरेंट के संचालक भैरोगंज निवासी सन्तोष और रीता देवी से पूछताछ किए तो वे लोग गालीगलौज करने लगे।जब उनके मोबाइल की जांच की गई तो मोबाइल में मेरी पुत्री का फोटो मिला।पीड़ित पिता बेचू मियां ने आगे बताया कि बरामद पुत्री से पूछताछ की गई तो पुत्री ने शिवानी में छुपाके रखने की बात बताई। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तारी किया गया है।मामले की जांचपड़ताल की जा रही है।

## बेतिया में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, हथियारबंद अपराधियों ने मारी छह गोली

प्रातः किरण, संवाददाता

बेतिया मोहन सिंह। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां पूर्व मुखिया वठिकेदार जितेन्द्र सिंह की अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर गोली हत्या कर दी हैं। बताया जाता है कि मझौलिया प्रखंड के महना गनी पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह को अपराधियों ने बानुछापर रेलवे गुमटी के पास गोली मारी है। वे बाईक से बानुछापर स्थित अपने निवास पर जारहे थे। पूर्व मुखिया को एक के बाद एक छह गोली मारी गई है। स्थानीय लोगों ने पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया । बताया जाता है कि पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह ठेकेदारी करते थे और उनका एक चिमनी भी चलता है। जो मझौलिया थाना के पारस पकड़ी गांव के मूल निवासी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि करीब 1 साल पूर्व उनके पुत्र पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वही इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

## नवनिर्मित गौतम स्थान स्टेशन से उत्पन्न समस्याओं का ग्राउंड लेवल पर विधायक ने लिया जायजा

प्रातः किरण, संवाददाता

रिविलगंज। गौतम स्थान रेलवे स्टेशन की समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए स्थानीय विधायक डॉ सी एन गुप्ता स्वयं स्थानीय लोगो के साथ स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बताया की विगत दिनों में गौतम स्थान स्टेशन का विस्तार किया गया है पूर्व में इस स्टेशन पर सिर्फ एक प्लेटफार्म दक्षिण दिशा में था,जो रिविलगंज बाजार एवं नगर के सड़क मार्ग को जोड़ता था यात्रा करने वाले को प्लेटफार्म पर पहुंचना सुगम था।लेकिन अब स्थिति है कि पहले का प्लेटफार्म तोड़कर उत्तर दिशा में बनाया गया है जिससे प्लेटफार्म नंबर एक और दक्षिण दिशा में प्लेटफार्म नंबर दो किया गया है टिकट खिड़की उत्तर दिशा में है तीसरा एक रेल पॉइंट जिस पर गिट्टी,सीमेंट उतारा जाता है. बनाए गए प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर आने-जाने के लिए ऊपरगामी पथ बनाया गया है लेकिन रेल पॉइंट के ऊपर ऊपरगामी पथ नहीं बनाया गया इस परिस्थिति में यात्री को प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर संपर्क फाटक पार कर जाना पड़ता है.व्यस्त रेल मार्ग होने से प्राय यह बंद ही रहता है जिसके कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस संबंध में विधायक ने वाराणसी डीआरएम को पत्र लिखने की बात कही है.उन्होंने कहा की रेलवे से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर ओवरब्रिज का रेक पॉइंट के तरफ विस्तार कर रिविलगंज बाजार के मुख्य सड़क पथ से जोड़ने को कहा जाएगा ताकि यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

## कुमार फाउंडेशन ने एसएसबी के सौजन्य से बाढ़ पीड़ितों में बांटे पौष्टिक आहार

प्रातः किरण, संवाददाता

बगहा। मंगलवार को 21वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट अश्वनी कुमार( द्वितीय कमान) अधिकारी के निर्देशन में बाह्य सीमा चौकी ठाढ़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय हवाईअड्डा और ठाढ़ी के बाढ़ पीड़ित परिवारों को 21वीं वाहिनीं एसएसबी के द्वारा कुमार फाउंडेशन संस्था के सौजन्य से प्राप्त पौष्टिक आहार के पैकेट का वितरण किया गया ।बतादें की बाढ़ पीड़ित परिवारों के स्वास्थ्य की जांच हेतु वाहिनी के द्वारा मानव चिकित्सा शिविर (एमसीए) का भी आयोजन किया गया। ई समवाय प्रभारी रामपुरवा के सहायक कमांडेंट मोहित सिंह ने बताया की नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत ठाढ़ी ,कैलाशपुर,हवाई अड्डा के ग्रामीणों के लिए मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया ।जिसमे चिकित्सा से संबंधित सभी समस्याओं को वाहिनी के सहायक कमांडेंट(चिकित्सा) डॉक्टर नवनीत के द्वारा देखा गया एवं दवा का वितरण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया।चूंकि इस इलाके में प्रत्येक वर्ष अनेक परिवार बाढ़ से प्रभावित होते हैं जिससे गांवों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है तत्पश्चात ग्रामवासियों व बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट अश्वनी कुमार,द्वितीय कमान अधिकारी के पहल पर कुमार फाउंडेशन के सौजन्य से बाढ़ पीड़ित परिवारों को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया ,जिससे स्वास्थ को उत्तम बनाया जा सके, न्यूट्रिमिक्स फूड पौष्टिक आहार के वितरण का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र के बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे तथा अन्य बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। उपरोक्त ग्राम के लगभग 150 बाढ़ पीड़ित परिवारों को पोष्टिक आहार वितरण किया गया और 250 बाढ़ पीडितों को मानव चिकित्सा शिविर (एमसीए) के द्वारा उपचार किया गया । इसके साथ ही वाहिनी के द्वारा नशा मुक्ति एवम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कर इसके बारे में ग्रामवासियों को जागरूक किया गया कइस कार्यक्रम के उपरांत ग्रामवासियों द्वारा एसएसबी 21वीं वाहिनी एवं कुमार फाउंडेशन संस्था को धन्यवाद और सराहना की गई । इस कार्यक्रम के दौरान मोहित सिंह सहायक कमांडेंट 21वीं एसएसबी वाहिनी बगहा। नवनीत सहायक कमांडेंट चिकित्सा 65वीं वाहिनी एसएसबी बगहा,उप निरीक्षक सामान्य मोती लाल उप निरीक्षक सामान्य ( महिला) निधि पाल एवम अन्य कर्मी मौजूद रहे।

## 09 अगस्त को नगरपालिका चौक पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा -सारण चलाएगा सदस्यता अभियान

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा ।राष्ट्रीय लोक मोर्चा-सारण के सदस्यता अभियान को सफल बनाने को लेकर पार्टी कि बैठक मौर्य हॉस्टल (कुशवाहा छात्रावास ) गुदरी में डा0 अशोक कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष प्रभारी के रूप में पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता श्री ब्रजेन्द्र कुमार पप्पू, जिला प्रभारी के रूप में प्रदेश महासचिव जनाब महताब खान एवं श्री हेमंत कुशवाहा जी उपस्थित हुए। बैठक में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता अभियान को पंचायत एवं बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 09 अगस्त 2024 को छपरा के नगरपालिका चौक पर होर्डिंग बैनर एवं स्टाल लगाकर बृहत रूप से सदस्यता अभियान चलाने का निर्माण लिया गया, जिसमे सभी 20 प्रखण्डो से प्रति प्रखण्ड कम से कम 50-50 लोग शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश महासचिव श्री ओमप्रकाश कुशवाहा, वरीय युवा नेता श्री राहुल सिंह,एवं जिला के पदाधिकारी डा. गणेश प्रसाद, तारकेश्वर सिंह, राजकुमार राय, इंद्रदेव सिंह, बिन्दा प्रसाद, मनोज कुमार सिंह,गणेश कुमर सिंह, आकाश सिंह, अरविन्द सिंह, शशि कुमार गोंड, राजीव कुमार, अजय शंकर प्रसाद, नीरज कुशवाहा, श्याम सुन्दर सिंह, मोहम्मद क्यूम, भूपेंद्र कुमार कुशवाहा, वंश राज आदी उपस्थित थे।

## पूरे नगर निगम क्षेत्र को जल जमावमुक्त रखना मेरी प्राथमिकताओं में ऊपर:गरिमा

- लंबे समय तक मानसून सुखा गुजर जाने के बीच सोमवार की देर रात से सुबह तक बरसात के बाद जल निकासी पर सख्त हुईं महापौर

प्रातः किरण, संवाददाता

बेतिया(घनश्याम)। लंबे समय तक मानसून सुखा गुजर जाने के बीच सोमवार की रात से सुबह तक बरसात हुई। वर्षा धमने के साथ जल निकासी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी और जल निकासी की बाधा दूर करने का आदेश महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने दिया। इसके बाद सफाई निरीक्षक और सिटी मैनेजर भी जल निकासी व्यवस्था पर एक्टिव हो गए। वही महापौर श्रीमती सिकारिया ने भी दल बल के साथ पहुंच कर कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र को जल जमाव मुक्त बनाए रखना मेरी प्राथमिकताओं में ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने भोला बाबु कैम्पस से लेकर वीणा फामेर्सी के पास हुए जल जमाव की सफाई और कमलनाथ नगर का पानी स्वयं निकलवाया। वही सुप्रिया रोड, रेलवे लाईन के पास के मुख्य नालों से सिल्ट, कचरा और काफी उपजे जलकुंभी को हटवा कर जल निकासी को सुगम बनाया। मौके पर नगर उपायुक्त के साथ नगर निगम की पूरी टीम सक्रिय रही।

## भेल्दी में करंट से मासूम बच्चे की हुई मौत,मचा कोहराम

प्रातः किरण, संवाददाता

भेल्दी(सारण)।स्थानीय थाने के बेदवलिया गांव में बिजली की करंट से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई।मृतक सन्नी कुमार(5) सरोज कुमार गुप्ता का पुत्र बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार भेल्दी थाने के बेदवलिया गांव का सन्नी कुमार घर के समीप खेल रहा था।वही पर बिजली के खंभे में लगे टाना रड में स्पर्श होते ही उसे करंट लग गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।मासूम सन्नी कुमार दूसरी कक्षा का छात्र था।घटना की सूचना मिलते ही भेल्दी पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया।मासूम सन्नी की मौत के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।मां पुष्पा देवी अपने लाडले का शव देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी।वह जब भी होश में आती पुत्र के शव से लिपटकर रोने लगती।पिता सरोज कुमार गुप्ता भी बेसूध पड़े हुए थे।बहन नैना,पलक व भाई मनी सन्नी की मौत पर रो रहे थे।रायपुरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिध मदन सिंह ने मृतक के परिजन को ढाढस बढाते हुए सांत्वना दिया।इस घटना के बाद गांव वाले भी गम में डूबे हुए हैं।

## नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक

प्रातः किरण, संवाददाता

मशरक में स्वच्छता को लेकर महेंद्र मिश्र कला जत्था नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने आमजनों को जागरूक किया। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौक , उच्च विद्यालय मशरक एवं उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय के समीप कला जत्था दल द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि किसी भी कुरा कचड़ा को सरकारी बनाएं गए नाले अथवा कहीं भी न फेंककर नगर पंचायत द्वारा लगाए गए कचड़ा दान अथवा कचड़ा बाल्टी में जमा करें,ऐसा नही करने पर इधर उधर फेंके गए कचड़ा के जमाव से जहरीली मच्छर होने से मलेरिया एवं डायरिया फैल सकती है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों में सुलभ शौचालय बनाने की बात भी बताई गई। महेंद्र मिश्र कला जत्था दल का नेतृत्व चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह कर रहे थे,इस मंच के माध्यम से गायक रणजीत राणा, नागेन्द्र ठाकुर, कुशेश्वर ठाकुर,अभय कुमार एवं महिला कलाकार मुस्कान के द्वारा स्वच्छता अभियान जागरुकता को लेकर शानदार कला प्रस्तुत किया गया ।

# विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति की मौत

## इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम, मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम

प्रात : किरण संवाददाता

आरा। भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव स्थित बधार में विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से की अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अपराध अफ्रीका आलम रहा। जानकारी के अनुसार मृतक सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव निवासी श्रीभगवान सिंह के पुत्र संतोष सिंह है एवं वह पेशे से किसान थे। उधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच रास्ते से ही शव को वापस गांव ले जाकर बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर सिकरौल गांव के समीप शव को सड़क के बीचों-बीच रख सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा



करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रखा गया। सड़क जाम होने कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लगी रही एवं आवागमन पूरी तरह ठप रहा। वही सड़क जान की सूचना प्रकार सिकरहटा थानाध्यक्ष राजीव रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम को हटवाया। इसके पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। इधर मृतक के चाचा निवास सिंह ने बताया कि कि वह गांव के बधार में स्थित अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। जहां बगल के खेत में लगे अमरूद के पेड़ के कारण चारों तरफ बिजली का तार लगाया गया था और उसका कुछ तार उनके खेत के आदि के पास गड़ा था। रोपनी करने के दौरान वह उसी विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आगे। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद परिजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था तभी उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजन उनके शव को वापस सब गांव ले गए। बताया जाता है कि मृतक चार भाइयों में बड़े थे। उनके परिवार में मां सीता देवी,पत्नी उषा देवी व दो पुत्री पूजा,खुशबू एवं एक पुत्र राहुल कुमार है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। घटी इस घटना के बाद मृतक की मां सीता देवी,पत्नी उषा देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

## संक्षिप्त खबरें

### पोर्टल से नही बल्कि एजेंटों के जरिये पैसा वापस किया जाए : सुदामा प्रसाद

आरा। सासंद सुदामा प्रसाद ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देश के लाखों छोटे निवेशकों का पैसा फसा हुआ है। जो अपने बेटों बेटियों के पढ़ाई लिखाई, शादी व्याह तथा जीवन के गंभीर स्थिति में सहयोग के लिए किया था। लेकिन उन सभी निवेशकों का पैसा नही वापस हुआ। सहारा की विभिन्न निवेश स्कीमों के निवेशक जो समाज के गरीब वर्गो से आते हैं, उनके मेहनत का निवेश किया गया पैसे का रिफंड (धनवापसी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ।।वर्ष उपरांत भी आज तक नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि कल सदन में वित्तमंत्री के जवाब से सरकार की मंशा साफ हो गया ।सरकार किसी भी प्रश्न का सही जवाब नही दी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार यह कह रही है कि पैसा क्लेम करने लोग नही आ रहें हैं। जो सही प्रतीत नही लग रहा है। लोग परेशान हैं कि उनका पैसा कैसे मिलेगा। इस लिए हमारी मांग है कि गरीब पोर्टल से आवेदन करने में असमर्थ है इस लिए विभिन्न तरीके अपनाया जाए जिसमे एजेंट के द्वारा भी पैसा वापस किया जाए।

### केंद्र ने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेज्ञ डॉक्टर एस.बी प्रसाद को किया सम्मानित

रोहतास जिले के डेहरी के प्रख्यात डॉक्टर एस.बी प्रसाद को मात्र 2 मिनट 17 सेकंड में डॉक्टरों का ऑनलाइन परीक्षा को कंप्लीट कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। डॉक्टर एस.बी प्रसाद 30 मिनट के प्रश्न को मात्र 2 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर इन्होंने पूरे देश को चकित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर प्रसाद को देश के कोने-कोने से बधाइयाँ मिल रही है डॉक्टर एस. बी प्रसाद न सिर्फ डेहरी बल्कि रोहतास बिहार समेत पूरे भारत देश का नाम गौरवान्वित करने का काम किया हैं। अब इन्हें सम्मानित करने के लिए अमेरिका से बुलाया आया है जो हमारे जिला ही नही बल्कि पुरे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सम्मानित करने वालों में सोन कला केंद्र के संरक्षक, राजीव रंजन सिन्हा सचिव सतेंद्र गुप्ता , संजय गुप्ता, जय प्रकाश मौर्य, पारस प्रसाद, राजीव सिंह, महेंद्र राम, मुन्ना रजक, मोहन यादव, प्रदीप कुमार मौजूद रहें।

### पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

आरा। जीविका के द्वारा सभी संकुल स्तरीय संघों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गयो जिसमें जीविका के द्वारा आज 5 हजार से ज्यादा पौधा लगाया गया है पौधारोपण कार्यक्रम विभिन्न ग्राम संगठनों के द्वारा भी आयोजित किया गयो जिसमें ग्राम संगठन की दीदियों ने पर्यवारण हो हरा झ भरा रखने के लिए अपने झ अपने घरों में पौधा रोपण की प्रखंड उदवंतनगर के प्रगति ग्राम संगठन में डीपीएम बरुन कुमार एवं ग्राम संगठन के दीदियों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गयो साथ ही सभी दीदियों से आग्रह किए कि पर्यवरण को बचाने के लिए पौधारोपण आति आवश्यक है इसलिए सभी दीदियाँ अधिक से अधिक पौधा लगाएं और पर्यावरण को हरा झ भरा बनाऐ जीविका को वन विभाग के द्वारा अभी तक कुल 1 लाख 4 हजार से ज्यादा पौधा मिला है जिसे 1 लाख से ज्यादा दीदियों के द्वारा लगाया गया है ।

### अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन ने गोष्ठी का किया आयोजन



दरियापुर ।स्थानीय प्रखण्ड क्षेत्र के डेरनी बाजार में अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन की अंचल इकाई के तत्वावधान में हिरोशिमा दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया ।जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ0 के एन सिंह ने की ।गोष्ठी में वक्ताओं ने साम्राज्यवादी शक्तियों की युद्धोन्माद की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि उसका सरगना अमेरिका पुनः विश्व को युद्ध में झोंकने और अपने द्वारा उत्पादित हर प्रकार के हथियारों की बिक्री की कुत्सित योजना पर काम कर रहा है ।जिससे विश्व शांति पर खतरा उत्पन्न हुआ है ।आज विश्व के कई देश परमाणु शक्ति बन गए हैं।

### सोशल मीडिया पर भड़काउ पोस्ट करने के आरोप में नेता गिरफ्तार

बनियापुर (सारण) थाना क्षेत्र के कराह गांव से एक नेता को पुलिस द्वारा फेसबुक पर भडकाउ पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक लोक सभा चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा के दौरान छपरा के तेलपा में एक युवक की हत्या हुई थी। उसी दौरान बनियापुर विधान सभा के पूर्व प्रत्याशी डब्लू कुमार के फेसबुक से पुलिस द्वारा जातीय हिंसा फैलाने का आरोप लगा साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तभी उक्त नेता को पुलिस की तलाश थी। जिस नेता को पुलिस द्वारा बनियापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

# रोहतास के डिहरी में कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज हुआ रवाना

प्रात : किरण संवाददाता



रोहतास। ूचल कांवरिया बाबा धाम कांवरिया संघ तारबंगला वार्ड नंबर 38-39 के शिव भक्तों ने 15 -20 वर्षो से सावन के महीने में हजारों की संख्या में एक परिधान में नाचते गाते बाबा की नगरी बैजनाथ धाम पहुंचते हैं। व्यवस्थापक ललन सिंह गदर, अजय पासवान, सुई बम, के नेतृत्व में बोल बम का नारा लगाते हुए कांवरियों का जत्था तार बंगला से निकलकर निरंजन बीघा झारखंडी मंदिर डेहरी हनुमान मंदिर के बाद स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हैं।

सुल्तानगंज रवाना होने से पूर्व कांवरियों के जत्थे ने अनुमंडल कोट हनुमान मंदिर,झारखंडी मंदिर, डेहरी बाजार हनुमान मंदिर, काली मां मंदिर, में माथा टेका बोल बम, बोल बम ,जय बाबा बैजनाथ, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, जैसे जयकारा लगाते हुए प्रथान किए कांवरियो का जत्था को झारखंडी मंदिर पर पूर्व विधायक सत्यनारयण यादव अनुमंडल कोट पर उमा शंकर पांडेय डेहरी बाजार हनुमान मंदिर पर गुड्डू चंद्रवंशी ने रवाना किया। इस मौके पर सोनू झुंनझुनवाला , शेट्टी यादव, लेखा पासवान, विट्ठू शर्मा ,पूजा देवी, रीता देवी ,शीला देवी, रेणु देवी ,रीना देवी, बलजीत सिंह,राजा चौधरी, भगवान यादव, विकास यादव, कारा चंद्रवंशी, लक्ष्मण सिंह,राजू चौधरी, विक्की यादव, अजय सिंह लोकू गुप्ता राजा शर्मा बबन सिंह अनिल पाण्डेय सैकड़ो की संख्या मे शिव भक्त उपस्थित थे।

# फोटोग्राफर्स यूनिटी के तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन

प्रात : किरण संवाददाता

आरा। आरा शहर स्थित एक निजी होटल के प्रांगण में फोटोग्राफर्स यूनिटी के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलों से लगभग दर्जनों फोटोग्राफर्स शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफी की अहम जानकारियां दी गई. वरीय फोटोग्राफर रामजी प्रसाद सिंह एवं आगत अतिथियों ने कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया।

निकौन कंपनी के टेक्निकल हेड मयूरेश सिन्हा ने बताया कि फोटोग्राफी की अहम जानकारी को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, फोटोग्राफी के तरीकों और उसे कैसे बेहतर किया जाए? इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है. हीना खातून सेल्स निकोन ने बताया कि अक्सर इस तरह का कार्यक्रम देश के बड़े-बड़े शहरों



में होता है तो हमलोगों ने भी निर्णय लिया कि जो फोटोग्राफर्स बड़े शहरों में नहीं जा सकते है तो उनके लिए इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जाए. जिसमें निकौन एक्सपीरियंस जोन पटना के फोटोग्राफर राय चौधरी ने कहा कि जिनके बीच फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की अहम बारीकियों को बताया गया है और निश्चित तौर पर इसका लाभ इन लोगों को आने वाले समय में मिलेगा. फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी से संबंधित कई बारीकियों को बताया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में फोटोग्राफी के अत्याधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी देना है ताकि फोटोग्राफर्स बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सके. बेहतर एल्बम कैसे बनाया जाए ? इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. पहले के समय में और वर्तमान समय में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काफी परिवर्तन हुआ है, इसी वजह से इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया गया है. आने वाले समय में भी और व्यापक तौर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. वहीकार्यशाला मैं निर्णय लिया गया कि वैसे फोटोग्राफरोंकी मदद की जाएगी जो जरूरतमंद हो और रात को कही फोटोग्राफी करने जातेहैं और फस जाते हैं। तो उनका हेल्प किया जा सके। इस मौके पर आजाद कुमार भारती, डब्लू सिन्हा, गुड्डू जी, विनोद कुमार, निधिस सिन्हा, सुनील कुमार सिंह, मनोज कुमार आदि उपस्थित है

# नाथनगर प्रखंड के पंचायत की आवाज बनेंगे समाजसेवी संजीव सुमन

प्रात : किरण संवाददाता

भागलपुर। नाथनगर प्रखंड के इस पंचायत की आवाज बनेंगे समाजसेवी संजीव सुमन नाथनगर प्रखंड के भुवालपुर पंचायत अंतर्गत रामचंद्रपुर नवटोलिया गाँव में सड़क व नाले की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण पिछले एक दशक से मौत के साये में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वर्षों से इसकी मांग को लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के घर का चक्कर लगा कर थक चुके हैं। पिछले वर्ष इसी सड़क के गड्ढे में पानी भर जाने के कारण स्थानीय भिखारी यादव की पुत्री की डूबने से मौत हो गई थी, जो सर्वविदित है। बावजूद अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। आज भागलपुर के वरिष्ठ समाजसेवी सह प्रदेश सचिव संजीव सुमन पंचायत वासियों से मिलकर उनके दर्द को जानने का प्रयास किया और यह संकल्प दोहराया कि जब तक सड़क की समस्या का समाधान नहीं हो जाता



हम चैन से नहीं बैठेंगे। श्री सुमन ने कहा कि आखिर जब बिहार सरकार बसावट के लिए सड़क दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है ऐसे गांव का जो एन एच पर रहते हुए गली में बच्चे डूब कर मर रहे हैं. जानकारी हो अपने गांव में सड़क की मांग यहां के ग्रामीण विगत दस वर्षो से कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर स्थानीय दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे सबने कहा जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं!

# संभावना स्कूल में चार दिवसीय राखी मेकिंग कार्यशाला का शुभारंभ

प्रात : किरण संवाददाता

आरा। शहर के शुभ नारायण नगर मझौंवा स्थित ह्यशांति स्मृतिह्र संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में मंगलवार को चार दिवसीय राखी मेकिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने की। राखी मेकिंग कार्यशाला में वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि राखी मेंकिंग कार्यशाला अगामी 10 अगस्त तक चलेगा। 12 अगस्त को विद्यालय परिसर में ही बच्चों द्वारा बनाई गई राखियो की प्रर्दशनी लगाई जाएगी। उसमें से बेहतरीन राखियों को सेलेक्ट करके फौजी भाईयो को भेजा जाएगा। प्रदर्शनी के बाद पुरस्कार वितरण



का कार्यक्रम होगा। जो बच्चे बेहतरीन राखी का निर्माण करेंगे। उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्राचार्या डॉ.अर्चना सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहने बाजार में पैसे से राखियां खरीदी जाती हैं। लेकिन जो राखी बहने खुद से बनाती है, उसमें स्नेह, प्यार और कला होता है। यहां बनाई गई राखी आप अपने भाईयो को भी बांधेगी। इसके अलावे उन राखियों में से बेहतरीन राखियों को सलेक्ट करके देश की सरहद पर तैनात फौजी भाईयो को भेजा जाएगा। इन राखियों के माध्यम से हम फौजी भाईयो के स्वास्थ्य और दीघार्यु होने की मंगलकामना करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन कला शिक्षक बिष्णु शंकर ने किया।

# लाखों की लागत से नाला निर्माण किसी काम का नहीं

प्रात : किरण संवाददाता

राजपुर रोहतास। राजपुर मेंन चौक जो डिहरी ऑन सोन जाने वाली मेंन रोड तालाब में परिवर्तन हो गया है जिसका मुख्य वजह वर्षा की पानी की निकासी जो अभी नला की मरम्ती का कार्य किया गया था इसके बाद भी वर्षा की पानी निकास नहीं हो पा रहा है इसके वजह से गाड़ी की आवा जाही होने के कारण पैदल चलने वालों व्यक्तियों की काफी मुश्किलों के



बाद और गंदा पानी की बीच से होते हुए बाजार आने जाने में बहुत परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है इससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है।

# रक्षाबंधन पर पोस्ट ऑफिस दे रहा है बहनों को अनोखा उपहार

प्रात : किरण संवाददाता

आराः रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहनों की खातिर अनोखा उपहार दिया जा रहा है क्योंकि भाई-बहनों के असीम प्रेम का यह त्यौहार अपने आप में अनूठा है रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर के आर के हेड पोस्ट ऑफिस में वाटर प्रूफ लिफाफे की बिक्री की जा रही है और यह लिफाफा मात्र 10 में बहनों को प्रदान की जा रही है क्योंकि इस लिफाफे में भर के बहने अपने भाई के लिए राखी भेज रही हैं यह लिफाफा अलग तरह का है जो की बारिश में भी बहन की राखी को सुरक्षित बचाकर उनके भाई तक पहुंचाने का काम करेगा वही इस स्पेशल लिफाफे को राखी लिफाफा के तौर पर पहचान में भी डाक कर्मियों को आसानी होगी



जिससे उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा आराके डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी पोस्ट ऑफिस में वाटरप्रूफ लिफाफा के माध्यम से राखी भेजी जा रही है वहीं रविवार को भी पोस्ट ऑफिस को खोलकर राखी की डिलीवरी की जाएगी ताकि समय से राखी को पहुंचाया जा सके वही रक्षाबंधन को लेकर लिफाफे को खरीदने के लिए काफी संख्या में बहने भी यहां पहुंच रही हैं

# शांति, सौहार्द के साथ मनाएं नागपंचमी एवं महावीरी झंडा त्योहार : जिलाधिकारी

प्रात : किरण संवाददाता

बेतिया(कुमार अभिजितम)। नागपंचमी एवं महावीरी झंडा 2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था के दृष्टिगत एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उदेश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि नागपंचमी एवं महावीरी झंडा त्योहार में जिले में प्रेम, सद्भाव एवं शांति के वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन दृढ़संकल्पित है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। महावीरी झंडा के अवसर पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के चयनित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। त्योहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने वाले अपराधियों, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा, सख्त कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिलेवासी किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मो यथा-फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर साईबर सेल द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है। निर्धारित रुट के अनुरूप जुलूस निकाला जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जिलास्तरीय शांति समिति के सदस्यों से कहा कि आप सभी के सहयोग से पूर्व के पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया गया है। नागपंचमी एवं महावीरी झंडा का त्योहार भी शांति एवं सौहार्द के साथ सम्पन्न कराने में अपनी सहभागिता दें। उन्होंने कहा कि अनुमंडल, प्रखंड, थाना स्तर पर अधिकांशतः जगहों पर शांति समिति की बैठक कर ली गयी है। बैठक में सभी सदस्यों को अमन-चैन, शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी झंडा सम्पन्न कराने को कहा गया है।

# जिला कृषि कार्यालय के कार्यों तथा जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आहूत की गई

प्रात : किरण संवाददाता

सासाराम(रोहतास) : जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक 06.08.2024 को जिला कृषि कार्यालय के कार्यो तथा जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे । जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक साप्ताहिक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी शामिल होंगे। इस साप्ताहिक बैठक का उद्देश्य यह जानना होगा कि किसी रिटेलर को कितने उर्वरक की आवश्यकता है, किसानों को उर्वरक सही समय पर और आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं तथा कृषि एवं सिंचाई में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इन बैठकों का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे तथा प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी देंगे ।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 25 अगस्त को सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी उर्वरक के खुदरा विक्रेताओं के पास जाकर किसानों से उर्वरक के दर के बारे में पूछेंगे। अगर उर्वरक किसानों को ऊंची दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो फिर संबंधित पदाधिकारी छापा मरेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इन कार्यो का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे ।जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य बिहार सरकार के मूल विभाग हैं। ये विभाग पंचायत स्तर तक काम कर रहे हैं। अतः ऐसे में आमजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जुड़े मामले पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कृषि संबंधी योजनाओं के पेंडिंग मामलों को पंचायतवार डेटा संकलित कर उसे शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह काम प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से संपन्न कराने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर कार्य संपन्न नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी का वेतन काटा जाएगा। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग द्वारा जिले भर में जहां-जहां पिट कंपोज्ड (जैविक खाद) बनाए जा रहे हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए जिले भर में क्या-क्या उत्पादन किया जा रहा है और कहां-कहां क्या बिक रहा है, इसके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने का भी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए पैदा होने वाले फल-सब्जियों को मार्केट बनाकर बिक्री करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मार्केट की व्यवस्था उन जगहों पर की जानी चाहिए जहां लोग सुबह-शाम टहलने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि नेहरू पार्क के पास एक गुमटी लगाकर उसमें कृषि विभाग द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के उत्पादों की उपलब्धता बिक्री के लिए की जा सकती है । जिलाधिकारी ने जिन-जिन पंचायत में अभी भी सिंचाई के लिए पानी की समस्या बनी हुई है, उससे संबंधित प्रतिवेदन जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जहां मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती की जा रही है, उससे संबंधित प्रतिवेदन भी जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेनारी, नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू प्रखंड में मिलेट्स, स्ट्रॉबेरी और अमरूद की खेती की संभावना पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मगध और शाहाबाद का क्षेत्र मिलेट्स की खेती के लिए जाना जाता था। इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ड्रैगन फ्रूट्स और अंजीर की खेती की संभावनाओं को भी तलाशने का निर्देश दिया। कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित बिक्रमगंज में किसान मेले के आयोजन को जिलाधिकारी ने सहमति दे दी है।

# नगर निगम की मेयर व उनकी टीम के भ्रष्टाचार एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 का उल्लंघन का पोल जनता के समक्ष खोल रहे है

प्रात : किरण संवाददाता

सासाराम(रोहतास) : आज दिनांक 06 अगस्त 2024 को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी सासाराम, नगर निगम की मेयर श्रीमती काजल कुमारी उनकी टीम के भ्रष्टाचार एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 का उल्लंघन का पोल जनता के समक्ष खोल रहे है।

मेयर द्वारा लगातार निजी स्वार्थ में नगर निगम का विकास बाधित किया जा रहा है। पार्षदगण द्वारा बैठको में पारित कुल-77,79,06,238.00 रू0 की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का ऐजेन्डा बैठक में नहीं लाया जा रहा है ना ही स्वीकृति दी जा रही है। क्योंकि उनके द्वारा इन्तजार किया जा रहा है कि नगर आयुक्त के जाने के बाद लुट मचायेगें।

मेयर एवं उनके सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के मिलीभगत से संवेदकों से कमीशन की मांग की



जा रही है जिसका ऑडियो वायरल हुआ है ऑडियों में प्रमोद कुमार मौर्या जो कि नगर निगम कार्यालय में मेयर के साथ मिलकर तालाबन्दी, सरकारी कार्य में बाधा, तोड़-फोड़ के अभियुक्त भी है एवं मेयर द्वारा उन्हें तर्दथ समिति का सदस्य भी बनाया गया है के द्वारा संवेदको से स्पष्ट रूप से कमीशन मॉगने एवं मेयर से बातचीत करने के लिए कहा गया है। जबकी सच्चाई यह है कि प्रमोद कुमार मौर्या या मेयर द्वारा किसी को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है बल्कि सबके नाम पर मॉग कर सबको बदनाम किया जाता है यह गम्भीर अपराध है। इस संबंध में गहराई से जांच होनी चाहिए। प्रमोद मौर्या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, वार्ड सं0 22 के पार्षद अंजू मौर्या जी के भसुर के लड़के है।

नगर आयुक्त द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं सरकारी दिशा-निर्देश के आलोक में किये गये विकास कार्य की योजनाओं का कायार्देश रद्द किया जा रहा है। जो इनके विकास विरोधी होने का परिचायक है।

# समाहरणालय स्थित सभी विभागों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

प्रात : किरण संवाददाता

सासाराम(रोहतास) : जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज सुबह समाहरणालय स्थित सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी की जांच की, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विभिन्न विभागों के 31 कर्मचारियों अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने सभी शाखा के प्रभारी एवं कार्यालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों का ससमय कार्यालय में आना सुनिश्चित करें और देर से आने वाले कर्मचारी का वेतन काटा जाए और उनसे स्पष्टीकरण



मांगा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कायार्लीय कार्यो में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यालयों के पदाधिकारी को उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर प्रचार-प्रसार और लाभुकों को ससमय लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने जिला अभिलेखागार के काउंटर का निरीक्षण किया और वहां आए आगंतुको से पूछताछ कि कोई उनसे उनके काम के लिए पैसे तो नहीं मांगता है और अभिलेख सही समय पर प्राप्त होता है या नहीं। आगंतुकों ने बताया उन्हें कोई परेशानी नहीं है और उन्हें अभिलेख दो दिनो में प्राप्त हो जाती है।

# 15 किसानों को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किया गया सम्मानित

बिक्रमगंज(रोहतास) : रोहतास जिला के 15 किसानों को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विश्वविद्यालय फाउंडेशन दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय सम्मान समारोह में 4 व 5 अगस्त 2024 को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया । ये सभी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र बिक्रमगंज दारा सबौर ले जाया गया । जिनमें से करमैनी के विजय कुमार सिंह को नवाचारी किसान के रूप में बीज उत्पादन और मत्स्य पालन ,तरार के धनंजय कुमार को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन ,धनंजय कुमार कृषि विज्ञान केंद्र से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन ,नौहट्टा निवासी संतोष कुमार जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र बिक्रमगंज से गार्डनर का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके फूलों का व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं और माली के रूप में अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं । उनको भी सबौर में सम्मानित किया गया । नवाचारी किसान के रूप में दावथ प्रखंड अंतर्गत मिजार्पुर गांव के सुनील कुमार को मछली पालन ,सोबेया राजपुर गांव के विजय बहादुर को नीलगाय कंट्रोल के लिए पैराशूट वायर से फेंसिंग के लिए नवाचारी किसान के रूप सम्मान मिला । सम्मानों की इसी लड़ी में मोहददीगंज के दिलीप कुमार को पी० पी० वी० एफ० आर० ए० तहत सब्जियों के पुरानी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए पीवीएफआरए सम्मान से सम्मानित किया गया । मसोना गांव के अर्जुन सिंह को सब्जियों के सफल उत्पादन और विपणन ,सुरूहुरिया गांव निवासी भिखारी राय को पराली प्रबंधन नवाचारी किसान , नासरीगंज के दीनदयाल को पारिवारिक सब्जी उत्पादन,आदर्श कुमार को करेले का बीज संरक्षण एवं नकुल सिंह को हल्दी का बीज संरक्षण के लिए पीपीवीएफ- आरए अवार्ड ,काराकाट प्रखंड के गोड़ारी गांव निवासी अशोक कुमार को मशरूम उत्पादन एवं उससे होम्यो- पैथिक दवा का निर्माण,दिनारा गांव निवासी प्रेम कुमार पटेल को मशरूम उत्पादन एवं विपणन ,धनगाई के मंटू कुमार को छोटकी मसुर प्रभेद के संरक्षण हेतू सम्मान दिया गया ।इन सभी किसानों को बिहार कृषि विश्र्वविद्यालय सबौर में आयोजित दो दिवसीय ग्रासरूट नवाचारी सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं कुलपति डॉ डी०आर० सिंह एवं अन्य गणमान्य की उपस्थिति में प्रदान किया गया । साथ ही इनके द्वारा किए गए नवाचारों का संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर गणमान्य अतिथियों के द्वारा विमोचन किया गया । इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र बिक्रमगंज के वरीय वैज्ञानिक व प्रधान डॉक्टर शोभा रानी, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार और कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिक इंजीनियर डेनियल प्रकाश कुशवाहा ने उक्त किसानों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

## संक्षिप्त खबरें

### आईसीआईसीआई बैंक ने गया में नई शाखा का किया उद्घाटन

गया। आईसीआईसीआई बैंक ने गया में मगध मेडिकल कालेज के पास एक नई शाखा खोली है। बैंक की नौवीं शाखा में एटीएम भी है। शाखा का उद्घाटन प्रमोद लड्डू भंडार के प्रबंध निदेशक प्रमोद कुमार भादानी ने किया। यह शाखा बचत और चालू खातों, सावधि और आवर्ती जमाओं और व्यवसाय ऋण, गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण और शिक्षा ऋण जैसे ऋणों के साथ-साथ रेमिटेन्स और कार्ड सेवाओं सहित खातों और जमाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह शाखा टैब बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करती है, जिसके तहत बैंक के एक कर्मचारी द्वारा टैबलेट डिवाइस के माध्यम से ग्राहक के स्थान पर लगभग 100 सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं में खाते खोलना और एडी, चेकबुक अनुरोध, ई-स्टेटमेंट तैयार करना और पता बदलना आदि शामिल हैं। बता दें आईसीआईसीआई बैंक के पास बिहार में 130 से अधिक शाखाओं और 330 से अधिक एटीएम और कैश रिसाइकिलिंग मशीनों (सीआरएम) का नेटवर्क है।

### भूमि विवाद को सीओ व थानाध्यक्ष ने सुलझाया

शेरघाटी।जमीन विवाद के मामले को एसडीओ शारा अशरफ के निर्देश पर मंगलवार को सीओ उषा कुमारी एवं थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर मामले का निष्पादन करवाया थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि चिताप कला गांव में सत्येंद्र ठाकुर एवं रामखेलावन पासवान के बीच सालों से जमीन का विवाद चल रहा था उन्होंने बताया कि सत्येंद्र ठाकुर ने एसडीओ के यहां शिकायत किया था कि सरकार की ओर से घर बनाने के लिए उसे पर्चा मिला है लेकिन गांव के कुछ लोगों से घर नहीं बनने दे रहे हैं जिसे स्थानीय प्रशासन के मदद से निष्पादन किया गया।

### पितृपक्ष मेला को अंतराष्ट्रीय दर्जा दिया जाएः सांसद

गया।विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को पूर्व सरकार के द्वारा राजकीय मेला धोषित किया जा चुका है लेकिन हम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह गया सांसद सह केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मिलकर पितृपक्ष मेला को अंतराष्ट्रीय मेला दर्जा दिया जाए, यहां देश के साथ अपने पुर्वजों के लिए विदेश के हर कोने कोने से गया जी आते हैं जिसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बहुत ही इसके लिए विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला दर्जा दिया जाए।

### कार्यकर्ता ने केक काट मनाया मंत्री का जन्मदिन

गया।गया शहर के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार सहकारिता सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार का जन्म दिन एक निजी होटल में मनाया गया है भाजपा नगर कार्यकर्ता के द्वारा मनाया गया है। इस मौके पर गया जिला के महामंत्री पप्पू चंद्वशी, अधिवक्ता राज कुमार गुप्ता, प्रदेश नेता भाजपा मुकेश कुमार, गया नगर निगम वार्ड पार्षद लाल बाबु यादव, विकास कुमार, पूर्व पार्षद संतोष सिंह, सुनिल सिन्हा ने एवं महिला एवं भाजपा कार्यकर्ता ने मिलकर केक काटकर मनाया गया है। उनके फोटो पर केक खिलाकर मनाया गया है।इस मौके पर जिला महामंत्री पप्पू चंद्वशी, हरेराम सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार तन्नी, सुनिल कुमार सिन्हा, राम पुकार सिह, कौशलेंद्र नारायण, नागेन्द्र प्रसाद चंद्रवंशी, पम्मी सिह, शंभु यादव, पूर्व पार्षद राकेश कुमार, काफी संख्या में महिला एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

### पर्यावरण सरंक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी:सुशील कुमार सुनील

अरवल।बिहार सरकार के हरियाली योजना को जमीन पर उतारने के लिए दोरा पंचायत के तेरा गांव में वृक्षारोपण कार्यकर्म के तहत जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव कार्यालय प्रभारी सुशील कुमार सुनील एवं जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुधीर शर्मा के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पंचायत भवन, सरकारी विद्यालय सहित सभी स्थानों में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने हेतु फलदार वृक्ष अमरूद आम एवम पीपल का पेड़ लगाए गए !इस मौके पर सुशील कुमार सुनील कुमार ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन-रात बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतित रहते हैं !आम लोगों की स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग को निर्देश दिया है कि पूरे बिहार में लाखों पेड़ लगाए जाएं ! विगत दिनों में भीषण गर्मी के प्रभाव के कारण लोग एसी और कुलर खरीदने के लिए दुकानों में लाइन लगा रहे थे !अगर इतना मेहनत वह पेड़ लगाने में करें तो उन्हें एसी और कुलर की जरूरत नहीं रहेगी !वर्तमान में मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा संकट बनकर आया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाने में हर व्यक्ति को अपने आसपास एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।

# डीएम ने पितृपक्ष मेला मे बिजली तार को बदलने का दिया निर्देश

प्रात: किरण संवाददाता

गया ।पितृपक्ष मेला 2024 के अवसर पर मेला क्षेत्र के साथ-साथ सभी अवसान स्थल, वेदी स्थल के समीप बिजली की मुकम्मल व्यवस्था रहे, इसे लेकर जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारी के साथ गोपनीय शाखा के चैंबर में बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेला क्षेत्र में जर्जर एवं लटके हुए तारों को अभिलंब ऊंचा करवाये। बिजली खंभे, तार सभी चीजों का अच्छे तरीके से जांच करें। बिजली पोल में कहीं करंट प्रवाहित ना हो, इसे लेकर पूरी तात्पर्यता से जांच कर ले। जहां तारों का बंचिंग बचा हुआ है उसे तुरंत बंचिंग करवाये। गार्ड वायर भी लगवाए। सभी वेदी स्थल पर तारों का दोबारा जांच करवाले। मेला क्षेत्र में बिजली की समस्या तथा उसकी प्रॉपर निगरानी हेतु अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मेला क्षेत्र में करवाये। वेदी स्थल, घाट, तालाब, नदी, पिंड स्थल तथा आवासन स्थल पर बिजली की पूरी व्यवस्था रहे, इसे सुनिश्चित करवाये। सभी जगह पर लोड कैपेसिटी का आकलन करवा ले साथ ही निजी धर्मशाला का भी लोड कैपेसिटी जांच करवाये। उन्होंने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र के प्रमुख सड़कों पर जहां तीर्थयात्री का लगातार आवागमन रहता है उन रास्तों में बिजली तार का पूरी अच्छी तरीके से जांच करवाये। निर्वाध बिजली सप्लाई रहे तथा पूरी वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति रहे यह सुनिश्चित करवाये। पितृपक्ष मेला अवधि में नियमित नियंत्रण कक्ष संचालन रखें। कोई भी घटना होने पर तुरंत रेस्पॉन्ड करें। नियंत्रण कक्ष में कनिये अभियंता को पाली बार बैठाए। अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग ने बताया कि पिछले वर्ष मेला क्षेत्र के विभिन्न बिजली के खंबो पर डाई इलेक्ट्रिक पेंट करवाया गया है। इस वर्ष भी किया जा रहा है। वोल्टेज सहित निर्वाध विद्युत आपूर्ति के लिये 200 केवी क्षमता वाले 7 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जो कामाख्या मंदिर के समीप, कृष्ण द्वारिका, पंजाब नेशनल बैंक चांद चौरा, संक्रामक अस्पताल, नादरा गंज, डिग्गी मोड एवं कालीबाड़ी में लगाये गए थे, जिसका अच्छी परिणाम मिला था। इस वर्ष दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता देखी जा रही है। मेला क्षेत्र के करीब 30 किलोमीटर के परिधि में एवी केबल का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डंडीबाग फीडर में 33 के वी का मेंटेनेंस कार्य भी पूर्ण कर ली गई है।इस बैठक में वरीय उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी पितृपक्ष मेला रविन्द्र दिवाकर, अधीक्षण अभियंता बिजली, कार्यपालक अभियंता बिजली, सभी सहायक अभियंता बिजली उपस्थित थे।

# शेरघाटी में श्रमजीवी पत्रकार संघ का बैठक हुआ संपन्न

प्रात: किरण संवाददाता

शेरघाटी ।शहर के मेला स्थित बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जिला गया अनुमंडल इकाई शेरघाटी की बैठक मंगलवार को जगलाल महतो नगर स्थित होटल साधना पैलेस में गया जिला अध्यक्ष सूर्य प्रताप श्रीकांत की अध्यक्षता एवं संयोजक कंचन कुमार सिन्हा व रौशन कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। संचालन वरीय पत्रकार एस के उल्लाह ने किया।

बैठक में सर्व सम्मति से अनुमंडल संयोजक हिंदुस्तान पत्रकार एस के उल्लाह उर्फ गुड्डू जी को, अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, महासचिव नवीन कुमार मिश्रा एवं देवनंदन प्रसाद यादव को कोषाध्यक्ष चुना गया।

वरीय पत्रकार इमरान अली और सूबेदार कुमार यादव उपाध्यक्ष चुने गए हैं। जबकि अमित कुमार सिंह दैनिक जागरण, धर्मेंद्र कुमार सिंह हिन्दुस्तान, अविनाश कुमार गुप्ता, कशिश न्यूज व अनवर हुसैन सोनी दैनिक जागरण को संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया है।

इस मौके पर वक्ताओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों और परिस्थितियों के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के वर्तमान संदर्भ पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन किया गया।

अनुमंडलीय कमिटी में सभी प्रखंड के साथियों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का निर्णय लिया गया है जो कमिटी विस्तार में की जाएगी ।

उक्त दौरान प्रदीप भारद्वाज, चंदन कुमार मिश्रा, रामानंद सिंह, नीरज मिश्रा, अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंड से आए संवाददाताओं ने अपनी सहभागिता निभाई।

# दानिका परिवार औरंगाबाद ने देवघर के श्रावणी मेला में कजरी की प्रस्तुति दी

प्रात: किरण संवाददाता

औरंगाबाद। जिला मुख्यालय औरंगाबाद की महत्वपूर्ण सांगीतिक संस्था दानिका परिवार द्वारा देवघर में श्रावणी पूजा के निमित कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने शिरकत किया।

दानिका परिवार के डायरेक्टर डॉ रविंद्र कुमार उर्फ दानिका महाराज के नेतृत्व में सभी कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। मुख्य कलाकार के रूप में अंजलि एवं साथी, सृष्टि लक्ष्मी, शिवांगी सिंह, प्रतिभा पंडित, खुशबू कुमारी ने कजरी का प्रस्तुतीकरण किया ।जिस पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग मंत्र मुग्ध हो गए और करतल ध्वनि से स्वागत किया। अरे रामा रिमझिम बरसे सावन हे सखी, पिया मेहंदी ले आद एवं एवं भजन की भी प्रस्तुति की गई। यह टीम युवा महोत्सव बिहार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में चौथा स्थान प्राप्त की थी ।कलाकारों के संगत में ढोलक पर संगत कलाकार डॉ रविंद्र कुमार, बैंजू पर जयपाल जी, पैड पर विकास प्रजापति तो सृष्टि लक्ष्मी ने हार्मोनियम बजाई। जिला प्रशासन के उद्घोषक अजय अटल के नेतृत्व में धांधी-बेल्लारी पथ पर निशुल्क कांवरिया सेवा शिविर के सांस्कृतिक मंच से मेला मे आई महिला कांवरियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में दानिका परिवार के प्रस्तुतियों ने सबके मन को मोह लिया।

# एक पेड़ मां के नाम पर लगाया गया तो पर्यावरण और भविष्य के लिए है अत्यंत महत्वपूर्ण

प्रात: किरण संवाददाता

गया ।भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर एक पेड़ मां के नाम पर वृक्ष लगाने का अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी बागवानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ मनीष पंकज मिश्रा मैं एक पेड़ मां के नाम पर लगाकर आरम्भ कियाइस अबसर पर डॉ मनीष पकज ने कहा हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जाता है, तो यह न केवल पर्यावरण को सहेजता है बल्कि मां के प्रति सम्मान और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। मां वह होती है जो जीवन देती है, पोषण करती है, और हर कठिनाई में संतान का साथ देती है। एक पेड़ भी ठीक वैसे ही होता है। वह हमें ऑक्सीजन देता है, छाया प्रदान करता है, और प्रकृति को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है ।मां के नाम पर पेड़ लगाना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुन्दर तरीका है। यह पेड़ वर्षो तक खड़ा रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे मां का स्नेह और आशीर्वाद हमारी जिंदगी में हमेशा बना रहता है। पेड़ का हर पत्ता, हर शाखा हमें मां की ममता की याद दिलाएगा। इसके अलावा, यह पहल आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी कि वे अपने माता-पिता और पर्यावरण दोनों का सम्मान करें ।पेड़ लगाने का यह कार्य एक स्थायी स्मृति चिन्ह बन जाता है। यह न केवल पर्यावरण की सेवा करता है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को भी मजबूत करता है।

# औरंगाबाद जिले के पशुपालन को बढ़ावा करने की मांग : अभय कुशवाहा

प्रात: किरण संवाददाता





गया। लोकसभा में मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी चर्चा में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने कहा संशोधीत बजट में सचिवालय के लिए उनसठ करोड़ आवंटित किए गए थे लेकिन 24-25 के बजट में घटाकर कम कर दिया गया है। कार्यछमता में असर करेगा, डेयरी विकास के बजट में पांच सो निवावे करोड़ से घटाकर तिन सो सततर कर दिया है जो डेयरी उधोग को छती पहुचाएगी, ग्रामीण लोगों का आजवीका का साधन है ।नेशनल लाइव स्टोटव मिशन के बजट में घटाकर यह मिशन पशु धन को बढावा को प्रभावित करगे, ऐसे छोटे छैटे पशु पालक नेटवर्क जुडा हुआ है ।पशु की आकस्मिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं मिलती है ।ऋण लेते हैं और अपने तरफ से आजिविका चलाता है उसका ऋण माफ किया जाए और जो अपने से चलाते हैं उनको मदत किया जाए, कोई सरकार से मदत नही मिलती है। औरंगाबाद जिले मे पशु चिकित्सालय बहुत दयनीय है प्रखंड स्तर पर पशु चिकित्सा की आवश्यकता है छोटे पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करे, छोटे किसान इसके साथ जुड़े और दुध उत्पादक को बढ़ावा मिले।

# अवैध चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटर एवं जांच केंद्र को किया गया सील

प्रात: किरण संवाददाता

शेरघाटी ।शहर के नया बाजार इलाके में मंगलवार को संचालित अवैध नर्सिंग होम ओम डायग्नोस्टिक सेंटर में छापेमारी कर दर्जनों चिकित्सीय उपकरण जप्त करते हुए जांच केंद्र सील कर दिया गया है।

एसडीएम सारा अशरफ, आईपीएस डॉक्टर के रामदास एवं अस्पताल उपाधीक्षक डॉ उदय कुमार के मौजूदगी में छापेमारी की गई। उपाधीक्षक कुमार ने बताया कि उक्त निजी अस्पताल और पैथो लैब अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। फर्जी डॉक्टर का नाम लिखकर चलाया जा रहा था। छापेमारी में शामिल एस आई बलिस्टर राम ने बताया कि क्लिनिक से कई डॉक्टर के फर्जी विजिटिंग कार्ड प्राप्त हुआ है।

उक्त दौरान कागजात व अन्य दस्तावेजों का जांच किया गया जो अवैध बताया गया है। इसके बाद जपती सूची बनाते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर एवं पैथोलॉजी को सील कर दिया गया है। अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि कई चिकित्सकों का नाम लिख कर अस्पताल को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। प्रथम द्दष्टया मिले साक्ष्य के के आधार पर संचालक सह फर्जी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

# हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बनाया युवा का प्रदेश अध्यक्ष

गया ।हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने युवा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शुभम कुमार को मनोनित किया है ।शुभम कुमार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री वर्तमान टेकरी विधायक डॉ अनिल और युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो कमाल परवेज जी के द्वारा संयुक्त रूप से मनोनयन पत्र दिया गया है। इस अवसर पर डा अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी में युवाओं की भूमिका अहम होती है, युवाओं के कंधो पर ही पार्टी ज्यादा जिमदारी होता है ।हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है और वे एक कुशल नेतृत्व कर्ता है जिससे युवाओं में उनका लोकप्रियता बहुत काफी बढ़ते जा रहा ओ दिन दूर नही जब युवाओं की सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से०)होगा ।पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी ने भी शुभम को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कुशल मंगल कामनाएं दी है।

# सांसद ने अटल बिहारी वाजपेई की योजना को औरंगाबाद बिहार में कराने की मांग की

गया ।अटल बिहारी वाजपेई के नाम कई योजना चलाई जा रही है । पूर्व प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा सोच था। देश के सभी नदीयो को आपस में जोड़ा जाए, जिसमें देश में उत्पण बाढ एवं जल संकट को दुर किया जा सके , औरंगाबाद सांसद ने जल शक्ति मंत्री एवं सरकार से मांग की है अटल बिहारी वाजपेई के नाम से शिघ्र योजना बनाकर बाढ नियंत्रण का काम शुरू किया जाए, बिहार में अधुरी पड़ी योजना को शिघ्र पुर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। बिहार में अधुरी पढी योजना को शिघ्र पुर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए, बिहार में मुख्य जल परियोजना उतर कोल परियोजना ,मंगल डेम्प, हरियाली डेम्प, सोन केलाल योजना आधु अधुरी मे पढी हुई है ।जन हित में इन योजनाओं को जल्द पूरा कराने की मांग की गई है औरंगाबाद सांसद द्वारा, उतर कोयेलहर योजना का काम चल रहा है ।नहर के उतरी भाग पर एक से चार किलोमीटर उतरी भाग पर पक्की पथ पर निर्माण करा दिया जाएगा तो उससे मजबुती भी मिलेगी और बरसात के दिनो मे बांध के रख रखाव में आसानी होगा एवं विभाग को भी आसानी होगा, इस काम की जाच की जाए।

# हाजीपुर वैशाली कांवड़ियों की मौत पर मुस्लिम समुदाय ने पठान टोली मस्जिद परिसर में जताया शोक

औरंगाबाद। वैशाली जिले के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो जाने पर मंगलवार को 2:00 बजे जोहर की नमाज के बाद पठान टोली मस्जिद परिसर में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया गया ।मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद पैगाम ए इंसानियत के अध्यक्ष मो. शाहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान, चांद खान, मो. शौकत, मो. जमशेद आलम, मो. मोईन, और मो. आरिफ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सभी ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है और हम सभी इस घटना से मर्माहत हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए अल्लाह से दुआ की गई ।पैगाम ए इंसानियत के जिला अध्यक्ष सल्लू खान ने कहा कि यह घटना को भुलाया नहीं जा सकता है ।एक साथ नौ शवयात्रा निकलने के दौरान पूरा गांव रो पड़ा। इस हादसे में किसी की मांग सूनी हो गई, तो किसी का बुढ़ापे का सहारा छिन गया। किसी ने रक्षाबंधन से पहले अपना भाई खो दिया ।सल्लू खान ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों के परिवारों को मुआवजा देने के साथ-साथ मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हाजीपुर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मांग की गई है कि परिजनों को उचित मुआवजा और सहायता दी जाए।

# रोटरी क्लब ऑफ गया युवा की 10वीं स्थापना समारोह का आयोजन

गया ।रोटरी क्लब ऑफ गया युवा ने अपनी 10वीं स्थापना समारोह का भव्य आयोजन होटल धम्मा ग्रैंड में किया गया है। इस विशेष अवसर ने क्लब की पिछली सफलताओं का उत्सव मनाते हुए नए नेतृत्व की शुरूआत को भी चिह्नित किया गया है ।समारोह की शुरूआत क्लब के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल द्वारा की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत हुई है। जिलाध्यक्ष विपिन चाचन और प्रथम महिला शिल्पी चाचन ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरूआत की, जिससे कार्यक्रम में शुभता और प्रेरणा का संचार हुआ है ।इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संवी बरनवाल द्वारा "शिव तांडव" का अद्भुत प्रदर्शन और साक्षी जैन द्वारा "गणेश वंदना" पर नृत्य ने समारोह को जीवंत बना दिया। अनिल और शिल्पी बरनवाल ने मान्यताओं को मंच पर स्वागत किया, और अनुराग पोद्दार और स्मिता पोद्दार ने स्वागत भाषण से कार्यक्रम को गर्मजोशी और स्नेह प्रदान किया गया है ।पूर्व सचिव राहुल महाजन और पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और अनुभवों को साझा किया है। इसके बाद, अध्यक्ष अर्चना गोयनका और सचिव भावना अग्रवाल ने नई जिम्मेदारियों की शपथ ली गई है। नई अध्यक्ष अर्चना गोयनका ने अपने उद्घाटन भाषण में आगामी वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों और योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने क्लब की दिशा में समाज के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अर्चना गोयनका ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि क्लब भविष्य में भी समाज के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कैंपों का आयोजन जारी रखेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके ।क्लब के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सचिव भावना अग्रवाल, उपाध्यक्ष निशांत अग्रवाल, और कोषाध्यक्ष स्मिता पोद्दार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनिल बरनवाल, अनुराग पोद्दार, रोहिनी खैतान, चुंकी वोस, रूची जैन, मुकेश गुप्ता, कमलेश पोद्दार, राहुल महाजन, और डॉ. तेजस्री नंदन भी बोर्ड के सदस्य हैं। इन सभी ने क्लब के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया है ।नए सदस्यों का स्वागत करते हुए जिलाध्यक्ष बिपिन चाचान ने उन्हें लैपल पिन प्रदान किए हैं।


बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना का कार्यालय
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना, संख्या – 11 वर्ष 2024–25

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना।
2. परिमाण–विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.08..2024 को 12:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 20.08..2024 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 20.08..2024 को 03:30 बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (क) अंचल कार्यालय, दक्षिण बिहार भवन अंचल, पटना। (ख) प्रमंडल कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना। (ग) संबंधित अवर प्रमंडल कार्यालय।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक (5) के वर्णित स्थान (क) एवं (ख) पर।
7. कार्य का विवरणी :–

| क्र० | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख रू० में) | अग्रधन की राशि (रू० में) | परिमाण विपत्र का मू० (रू० में) (अप्रत्यर्पणीय) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remaining Work of Campus Development at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.78 | 27,600=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 2. | Renovation of Stainless Steel Grill and 3D Letter in Connection Building and Other Work at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.56 | 27,200=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 3. | Supplying and Installation of Led Name Board on Portico, Drain Slab and Other Work of Main Building at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.89 | 27,800=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 4. | Renovation of Sanitary Installation, Water Supply and Sewerage System at Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 13.92 | 27,900=00 | 2,500=00 | 02 माह |
| 5. | Renovation of Sewerage System and Sewer Line in the Campus of Abhilekh Bhawan, Patna for the year 2024-25. | 10.45 | 20,900=00 | 2,500=00 | 02 माह |

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 005445 (BCD) 2024-25

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना



बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना का कार्यालय
अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या– 27 वर्ष 2024–25
(विशेष शर्त्त मद एवं मात्रा के लिए वेबसाईट State.bihar.gov.in/prdbihar देखें)

समुचित श्रेणी मे निबंधित संवेदको/ख्याति प्राप्त फर्मों/कम्पनियों से दिनांक **16.08.2024** के अपराह्न 12.30 बजे तक निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद कोटेशन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न मे कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

कोटेशन का मुल्य (रुपये में) प्रत्येक कार्य क्रमांक के कोटेशन–पत्र के साथ कोटेशन मूल्य ONLINE GOVERNMENT REVENUE AND ACCOUNTING SYSTEM (O-GRAS) के माध्यम से (कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, पटना) के पदनाम से जमा करना अनिवार्य होगा, जो कोटेशन प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए। कोटेशन प्रकाशन के पूर्व के निर्गत ओ–ग्रास (O-GRAS) का कम्पयूटराईज्ड प्राप्ति रसीद पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन मूल्य संवेदक के द्वारा कुल कोटेड राशि के अनुसार होगा, जो निम्न प्रकार है :– रू0 0 से रू0 50,000 तक– रू0 250/–, रू0 50,001 से रू0 2,50,000 तक– रू0 500/–, रू0 2,50,001 से रू0 5,00,000 तक– रू0 750/–, रू0 5,00,001 से रू0 10,00,000 तक– रू0 1,250/–, रू0 10,00,001 से रू0 15,00,000 तक– रू0 2,500/– एवं अग्रधन की राशि– 2% (कोटेड राशि का मूल्य दो प्रतिशत) कोटेशन कागजात के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्य का विवरणी :–

| Sl No. | Name of Work/Specifiation |
|---|---|
| 01- | Reinstallation and Shifting of Audio & Video System with Repairing of TV and Supply of Required of Extra Item Like (TV, Wireless Mike, Delegate Mike, HDMI Receiver & Transmitter etc.) at Urban Development Conference Hall at Ground Floor to 3rd Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 02- | Renovation of Wooden Accousting, Wardrobe and Other Work in Conference Hall of 3rd Floor of Vikash Bhawan, Patna for the year 24-25. |
| 03- | Renovation of Partition and Wardrobe of Hall No. - 19 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 04- | Renovation of Wardrobe in Hall No. - 19 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 05- | Renovation of Civil Work in Room No. - 19 and 120 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 06- | Renovation of Room No. - 101, 102 and 103 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 07- | Renovation of Room No. - 120 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 08- | Renovation of Room No. - 160 of U.D. Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 09- | Renovation of Conferene Hall of U.D. Department at 3rd Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 10- | Renovation of Tiles, Wall Paneling and Other Work in Room No. - 101, 102, 103, 105, 129, 130 and 132 of U.D. Department at 3rd Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |
| 11- | Renovation of Louvers, Wardrobe, Partition and Other Work in U.D. Department at 3rd Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2024-25. |

- कार्य समाप्ति की अवधि :– 01 माह
- सक्षम पदाधिकारी के निर्देशन में ही सामानों की आपूर्त्ति की जानी है तथा आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।
- विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क करें।

1. विशेष सूचना के लिए सूचनापट्ट या वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prd bihar देखें या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क करें।

PR- 05423 ( B C D ) 2024-25

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता
केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना।

## संक्षिप्त खबरें

### श्रावणी मेला में पुलिस व प्रशासन मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं ड्यूटी

तारापुर (कोर्ट)। सावन के महीना कवारिया बाबा दरबार जाने के लिए सुल्तानगंज से जल भरकर तारापुर कच्चे मार्ग से प्रतिदिन गुजर रहे है। श्रद्धालुओं के लिए तारापुर के अनुमंडल पुलिस एवं अनुमंडल प्रशासन के द्वारा कई सुविधा मुहैया कराया गया है। चाहे वह जल हो शौचालय की व्यवस्था हो चाहे विश्राम आश्रम की सुविधा हो अनेक प्रकार के सुविधा दिया जा रहा है। इस से श्रद्धालु कमरिया को कोई दिक्कत ना हो। तारापुर अनुमंडल पुलिस प्रशासन ने जगह-जगह श्रद्धालु कमरिया की रक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया है। कमरिया पथ पर तारापुर अनुमंडल पुलिस प्रशासन और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद दिखें।

### मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई

हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। अनुमंडल क्षेत्र के टेटिया बंपर प्रखंड की बनाउली स्थित सर्वेश कुमार के बकरी पालन फार्म पर रविवार की शाम पुलिस ने जिला सूचना इकाई टीम के साथ छापेमारी की यहां बकरी पालन फार्म के नीचे तहखाना बनाकर अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा था मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया की छापेमारी में 5 मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई यहां से पुलिस ने हथियार निर्माण के जूते पांच कार्यक्रम को गिरफ्तार कर लिया हालांकि मिनी गन फैक्ट्री का संचालक फरार मिला उसकी पहचान सर्वेश कुमार और मोहम्मद अंगूर के रूप में हुई है एसपी ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री में हथियार बनाने वाले मुख्य सरगना की पहचान बकरी पालन फार्म के मालिक सर्वेश कुमार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिजार्पुर वर्धा निवासी मोहम्मद अंगूर के रूप में हुई है।

### गंगा के बढ़ते ही फिर से कुतलूपुर दियारा में कटाव जारी

सदर मुंगेर। गंगा के जलस्तर बढ़ते ही खास कर दियारा क्षेत्र के लोगों को एक ओर बाढ़ की चिंता सताने लगती तो दूसरे ओर भीष्म कटाव शुरू हो गई है। कटाव के कारण लोग सही से सो नहीं पाते हैं जागते ही लोग गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं कल मेरा आशियाना कहां होगा। वही कुतलूपुर दियारा पंचायत के वार्ड संख्या चार और छ में गंगा बढ़ते ही जोर-जोर से कट आउट शुरू हो गया है लोग भय में जी रहे हैं लोगों का कहना है हम लोग एक चिड़िया के तरह जिंदगी बिता रहे हैं गंगा मैया की कृपा से मेरा कल कहां नया बसेरा होगा। वहीं पंचायत के मुखिया जितेंद्र रजक द्वारा बताया गया कि हम लोग सभी पंचायत वासी हर वर्ष कटाव के कारण कई बीघा खेत उपजाऊ जमीन गंगा में समा रही पर प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। जिसके कारण हम लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं फिर से गंगा में कटाव वार्ड नंबर 4 तथा वार्ड नंबर 6 में शुरू हो गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी मुंगेर द्वारा गंगा कटाव का जायजा भी लिया गया था।

### नामजद आरोपित गिरफ्तार पुलिस ने भेजा जेल

बरियारपुर(मुंगेर)। बरियारपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान निवासी रंजीत कुमार, भोलु कुमार को गिरफ्तार कर मुंगेर जेल भेज दिया है। घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है की दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध बरियारपुर थाना काण्ड संख्या 167/24 मे दोनों को सुचक द्वारा नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिसे मंगलवार को बरियारपुर पुलिस ने आरोपित के घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस आशय की जानकारी थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने दिया है।

### डाक बम के लिए तिलवरिया गाँव से निकली 30 वर्षिय सकुना देवी

सोनो जमुई। सोनो प्रखंड के ढोंढरी पंचायत अंतर्गत तिलवरिया गाँव निवासी गौरेलाल यादव की 30 वर्षिय पत्नी श्रीमती सकुना देवी प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी डाक बम के रूप में झारखंड प्रदेश के बाबा वैधनाथ धाम स्थित भगवान शिव एवं माता पार्वती को जलाभिषेक करने के लिए अपने हाथ में लाठी व झोले मे एक कमंडल लेकर उत्तर वाहिनी सुलतानगंज गंगा घाट पर जल भरने के लिए निकल पड़ी। दो बच्चों की माता व खेती एवं गृहणी का कार्य करने वाली महिला श्रीमती सकुना देवी पिछले कई वर्षो पुर्व से लगातार श्रावण मास में डाक बम के रूप में सुलतान गंज से जल भरकर देवघर एवं बासुकीनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ ओर माता पार्वती को जलाभिषेक करती आ रही हैं। सकुना देवी ने बताई कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार हे, श्रावण मास में उनका जलाभिषेक करने से सभी मनोरथ कामना पुर्ण होती है। उन्होंने बताई कि सुलतानगंज गंगा घाट से पवित्र गंगाजल भरने के बाद मात्र 16 घंटे मे देवघर पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक करती आ रही हुं। उन्होंने आगे बताई कि जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक भगवान शिव को जलाभिषेक करती रहुंगी।

# जीएसटी जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई : डीएम

## आंतरिक संसाधन समिति की बैठक में डीएम ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली की जानकारी ली

प्रात : किरण ब्यूरो




मुंगेर( बिहार )। आंतरिक संसाधन समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली करते हुए राजस्व में वृद्धि का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी द्वारा समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों से बिंदु वार वसूली की जानकारी ली। जीएसटी के सालाना वसूली की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानों और ईंट भट्ठा का भी निरीक्षण करें तथा यह जांच करें की उनके द्वारा जीएसटी सरकार को जमा की जा रही है या नहीं। लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने ईंट भट्ठा का विशेष निरीक्षण करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग के सालाना वसूली के टारगेट के अनुरूप वसूली का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं उनसे शत प्रतिशत वसूली करें और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। निबंधन कार्यालय की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 27 प्रतिशत वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने निबंधन प्रक्रिया बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जमीन का निबंधन किया जा रहा है उस तरह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा। उन्होंने इस संबंध में अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी को पत्राचार करते हुए दाखिल खारिज के मामलों में वृद्धि लाने का निर्देश दिया। परिवहन कार्यालय के वार्षिक उपलब्धि को बढ़ाने का निर्देश दिया। खनन विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए उसमें तेजी लाने और शत प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया। नगर निगम के होल्डिंग टैक्स, सैरात की वसूली भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एजेंसी के माध्यम से को होल्डिंग टैक्स और सैरात की वसूली की जा रही है, उस पर नजर रखें की उनके द्वारा कोई अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी तहसीलदार को वैसे घरों में जा कर वसूली का निर्देश दिया जिनके द्वारा होल्डिंग टैक्स आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं जमालपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को उन्होंने रेलवे कॉलोनियों को भी चिन्हित कर कर वसूली हेतु विभाग से पत्राचार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा माप तौल, मत्स्य, को-ऑपरेटिव, खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं जांच का निर्देश देते हुए निर्धारित लक्ष्य की वसूली को शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार सहित आंतरिक संसाधन समिति के सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

## लाखों खर्च के बाद पार्क का लाभ मुंगेर निवासियों को नहीं मिला

प्रात : किरण ब्यूरो

हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। लाखों खर्च के बाद मुंगेर शहर में चार पार्कों का सौंदर्यीकरण किए जाने के बाद भी पार्क में ताला लगा हुआ रहता है प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा 2019 में मुंगेर शहर के चार पार्कों पर सौंदर्य करण के लिए 64 लख रुपए खर्च किए गए हैं। कृष्णा सेवा सदन नंदकुमार पार्क कृष्ण सेवा सदन के स्थित कृष्ण बाग पार्क का स्थानीय घाट स्थित कृष्ण वाटिका पार्क और कंपनी गार्डन पार्क शामिल है इन चारों पार्कों के सौंदर्यकरण का उद्देश्य था कि आसपास के बच्चे पार्क में मनोरंजन के लिए पहुंच सके इसके अलावा सुबह और शाम टहलने के लिए लोग पार्क में पहुंच सके इसके लिए नगर निगम द्वारा पार्क में प्रवेश के लिए न्यूनतम दर निर्धारित का टिकट काउंटर बनाने का भी योजना तैयार की थी ताकि शहर वासियों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराने के साथ नगर निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके इसको ध्यान में रखते हुए सभी पार्क का वार्ड दीवाल निर्माण के साथ गार्ड रूम और टिकट काउंटर का निर्माण कराया गया था बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए थे तथा पार्क के चारों किनारे पाथ-वे का निर्माण कराया गया था संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर नगर निगम को नगर निगम को सौंप दिए जाने के बाद भी 4 वर्ष इसमें से दो पार्क में हमेशा ताला लगा रहता है पार्क में ताला लगा रहने से उचित देख देख नहीं हो पाने के कारण झूला और जिम के समान में जंग लग गया पार्क का सौंदर्य करण कार्य पूर्ण होने और संवेदक से हैंडोवर लेने के बाद नगर निगम द्वारा कष्ट हरनी घाट स्थित कृष्ण वाटिका पार्क को वन विभाग को हैंडोवर कर दिया गया वन विभाग द्वारा संचालित कृष्ण वाटिका पार्क में लोग सुबह शाम टहलने के लिए पहुंचते हैं शहर के मध्य और अब में अवस्थित नंदकुमार पार्क और श्री कृष्ण बाग बाग पार्क हमेशा ताला लगा रहता है जिसके कारण इस क्षेत्र के आसपास के लोग तथा बच्चे पार्क में लगे झूला और जिम का आनंद नहीं उठा पाते हैं स्थानीय दुकानदारों पार्क में अपनी सामग्री रखकर पार्क का अतिक्रमण कर रहे हैं महापौर कुमकुम देवी नगर निगम मुंगेर ने बताया कि शहर के मध्य अवस्थित दो पार्कों को आकर्षित बनाने की योजना है जहां ओपन जिम के अलावा पर्याप्त रोशनी और 12 लगाने का विचार किया जा रहा है दोनों पार्क को और आकर्षित बनाकर शहर वासियों के लिए खोला जाएगा।

## जेपी स्मारक को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन



सदर मुंगेर। जे पी सेनानी संघ के जिला अध्यक्ष अशर्फी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पहले जेपी स्मारक स्थल का निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर मुंगेर व नगर निगम आयुक्त मुंगेर से मिलकर लिखित आवेदन देकर जेपी स्मारक को अतिक्रमण मुक्त कराने आग्रह किया है। विदित हो की स्मारक स्थल के गेट में ताला लगाकर उसकी चाबी एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है तथा स्मारक स्थल का उपयोग अपने सुविधा के अनुसार करता है। स्मारक स्थल का साफ सफाई भी नहीं होता है साथ ही जेपी का मूर्ति पास के एक वृक्ष के टहनी से ढक गया है। ज्ञात हो की

जेपी सेनानी संघ जिला मुंगेर के विशेष आग्रह पर उस समय के तत्कालीन राज्यसभा सांसद आरके सिंह के सांसद मद से मूर्ति स्थापित कर 10 नवंबर 2019 को उद्घाटन किया गया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने खासकर नगर निगम मुंगेर के आयुक्त से यह आग्रह किया की स्मारक स्थल के गेट में लगा ताला को खुलवा कर इसकी साफ सफाई पर ध्यान रखी जाए। तथा 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर तथा जेपी के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि के अवसर पर जेपी सेनानी संघ के लिखित आवेदन पर चाबी निर्गत किया जाए तथा कार्यक्रम समाप्ति के बाद पुनः चाबी नगर निगम में जमा करवाई जाए। प्रतिनिधिमंडल में जेपी सेनानी संघ मुंगेर के जिला अध्यक्ष अशर्फी यादव, नरेश सिंह यादव, विश्वनाथ गुप्ता, देवकीनंदन सिंह, प्रोफेसर विनय कुमार सुमन, जगत नारायण ठाकुर एवं मोहम्मद कौसर फैयाज शामिल थे।

## स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न

प्रात : किरण ब्यूरो

मुंगेर (बिहार)। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाने हेतु बिंदु वार चर्चा की गई। इस बैठक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने 15 अगस्त को सुबह सरकारी विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकालने का निर्देश दिया। इसके अलावे शहर के सभी चैक चैराहों पर स्थापित महापुरूषों की प्रतिमाओं तथा उनके स्थलों का यदि जर्जर है तो उसे ठीक कर रंग रोगन करने तथा उसकी सजावट का निर्देश दिया गया। इसके अलावे पोलो मैदान की सफाई व्यवस्था के साथ-साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की भी व्यवस्था का निर्देश दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन रेडक्रास सोसायटी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से रक्तदान की अपील की। इसके अलावे पुलिस अधीक्षक को पुलिस जवानों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए रक्तदान कराने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 7 अगस्त से सभी कैडेटों द्वारा पूर्वाभ्यास प्रारंभ किया जाएगा जो 13 अगस्त को अंतिम पूर्वाभ्यास करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सैन्य पुलिस - 9 के एक प्लाटून, जिला आरक्षी बल के तीन प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के एक प्लाटून, जिला आरक्षी महिला बल एक प्लाटून, एनसीसी, सीनियर छात्र 9 बिहार बटालियन एनसीसी के दो प्लाटून, बीआरएम कॉलेज की महिला बटालियन की एक प्लाटून परेड में भाग लेंगे। इसके अलावे नोट्रेडैम के बच्चों द्वारा बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी, जबकि बैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियों द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी जाएगी। परेड कमांडर के रूप में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक रहेंगे। महादलित टोलों में भी झंडोत्तोलन का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा कि सभी तैयारियां पूर्व की भांति ही रहेंगी। इसके अलावे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।

## वृक्ष तले खुले आसमान में दी जा रही है बच्चों को शिक्षा

प्रात : किरण ब्यूरो

सदर मुंगेर। सदर प्रखंड अंतर्गत कुतलूपुर दियारा पंचायत के मध्य विद्यालय वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठकर डिग्री बांटते हैं। मुफस्सिल के यह विद्यालय ऐसा भी है जहां खुले आसमान में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जो शिक्षा विभाग के लिए काफी निंदनीय है। बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़ यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है। कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे कहीं विद्यालय में बच्चों को गर्मी से बचने हेतु पंख लगवा रहे हैं तो यह विद्यालय वृक्ष के तले बच्चों को शिक्षा दे रही है। वही प्रभारी प्रधानाध्यापक श्रीकांत मंडल द्वारा बताया गया कि इसकी लिखित सूचना कई बार विभाग को दी गई है। यहां विद्यालय के भवन का अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है ना यहां जमीन उपलब्ध है जिसके कारण हम लोग विवश होकर बच्चों को किसी तरह से पढ़ाया जा रहा है। सदर प्रखंड बीपीएम किशलय कुमार द्वारा बताया गया कि वहां जमीन की काफी समस्या है जमीन नहीं होने के कारण किसी तरह से विद्यालय को चलाया जा रहा है अगर जमीन लोग दे तो विभाग द्वारा तुरंत भवन निर्माण कर बच्चों को भवन में शिक्षा देंगे।

## जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विश्वास नचिकेता मंडल पुनः बने मुंगेर जदयू जिला अध्यक्ष



प्रात : किरण ब्यूरो

मुंगेर (बिहार)। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने एक बर पुनः मुंगेर जिला अध्यक्ष के पद पर नचिकेता मंडल को मनोनित क्या है। इसको लेकर जिला जदयू कार्यकर्ताओ में खुशी की लहहर देखने को मिल रहा है। गार्डन बाजार स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल को जदयू पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ ने भव्य स्वागत किया। एक तरफ जहां अतिपिछड़ा जिलाध्यक्ष मिथिलेश मंडल, जिला प्रवक्ता विमलेंदु राय, नगर अध्यक्ष शाहिद अख्तर उर्फ गुड्डू राइन, अतिपिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार, विनय कुमार, आशुतोष पासवान, चेतन कुमार, पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार, राजीव रंजन सहित कई लोगों ने अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओ के बीच मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पुनः जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जिस उम्मीद एवम विश्वाश के साथ हमें पुनः जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वाश दिलाता हूं कि अपनी पूरी क्षमता एवम सभी साथियों के सहयोग से पार्टी संगठन के लिए काम करूंगा। अतिपिछड़ा जिलाध्यक्ष मिथिलेश मंडल ने कहा कि जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल के कार्यशैली एवम मेहनत का नतीजा है कि प्रदेश नेतृत्व ने इन्हे पुनः मुंगेर जिला का नेतृत्व सौंपा है।

# न्यू आदर्श अस्पताल को सील किया गया

प्रात : किरण ब्यूरो




लालगंज। नगर क्षेत्र के घाघरा चौक महाराणा प्रताप चौक के समीप फर्जीवाड़ा कर न्यू आदर्श हॉस्पिटल को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सील किया। विदित हो की पिछले कुछ महीने पूर्व उक्त अस्पताल में इलाज के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गया था। उक्त अस्पताल में मरीजों के साथ फर्जीबड़ा कर मरीज का इलाज करने की बात सामने आई थी। जिसकी कई शिकायत सिविल सर्जन वैशाली के यहां की गई थी। जिसके उपरांत उक्त अस्पताल की जांच की गई जांच में अस्पताल अवैध पाया गया बिना किसी रजिस्ट्रेशन का और बिना अधिकृत डॉक्टर का अस्पताल संचालन किया जा रहा था जिसके बाद उक्त अस्पताल संचालक को नोटिस जारी की गई अस्पताल संचालक के द्वारा नोटिस की कोई जवाब नहीं दिए जाने के बाद सिविल सर्जन वैशाली के निर्देश पर लालगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी नवीन कुमार, डॉ मुकेश पंकज, लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी, रेफरल अस्पताल के एच एम राजीव कुमार एवं लालगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार यादव की उपस्थिति में उक्त अस्पताल को सील की गई तथा उसमें भर्ती मरीजों को लालगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूत्रों की माने तो उक्त अस्पताल के संचालक कुछ वर्ष पूर्व लालगंज धर्म संघ के पास न्यू बालाजी नाम से अवैध तरीके से अस्पताल का संचालन कर रहा था जिसमें जच्चे बच्चों की मौत के बाद प्राथमिकी दर्ज हुआ था जिसमे संचालक जेल भी गया था। और अस्पताल बन्द हो गया था। जेल से आने के बाद उक्त संचालक के द्वारा न्यू चाइल्ड केयर नाम से अस्पताल खोला गया उस अस्पताल कोई अप्रिय घटना के बाद शिकायत दर्ज होने के बाद अस्पताल बंद हो गया था। जिसके बाद फिर न्यू आदर्श अस्पताल घाघरा चौक महाराणा प्रताप चौक के पास खोला गया जिसमे कुछ दिन पूर्व एक नवजात शिशु का मौत हो गया था। शिकायत मिलने के बाद संचालक को नोटिस भेजा गया परन्तु संचालक कोई जबाब नही दिया गया। उसी मामले के बाद रेफरलअस्पताल के प्रभारी नवीन के एवं लालगंज पुलिस जांच करने पहुँचे। जिसके बाद प्रशासन देखते संचालक भाग निकला। घँटे इंतजार के बाद अस्पताल जब संचालन नही पहुँचे तो जाँच पड़ताल करने के बाद सील किया गया है। वही सील करने के दौरान उक्त अस्पताल से कई डाक्टर के तथा कई अस्पताल बोर्ड एवं लेटर पैड बरामद की गई है। जिसमें कृष्णा चाइल्ड केयर, सूर्य दृष्टि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आदि का लेटर पैड बरामद किया गया है।

## बैठक के दौरान शिक्षा, विद्युत सहित अन्य कई मुद्दों को रखा

प्रात : किरण ब्यूरो



जमुई [ झाझा ] मंगलवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख बदमियां देवी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित कि गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, बिजली सहित अन्य मुद्दों के अलावे प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई तरह की समस्या पर चर्चा कि गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान समय में किसानों के लिए खेती का मौसम है एक तो सही समय पर बारिश नहीं हो पाई और जब किसान पटवन के लिए मोटरपंप का सहारा लेना चाहा तो विद्युत विभाग की मनमानी के कारण पटवन का कार्य खेत में नहीं हो पाया है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि विद्युत विभाग की मनमानी चरम पर है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ सवाल उठाने पर बीडीओ रविजी ने नियमाकुल कार्रवाई की बात की। बैठक में जनप्रतिनिधियो ने क्षेत्र में डीलर की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा डीलर से पूछे जाने पर गलत व्यवहार करने तथा टाल मटोल जबाब दिया जाता है। इस मामलें में बीडीओ से जांच करवाने की मांग को भी लोगों ने रखा। वही शिक्षा पर सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय है जहां सही ढंग से शिक्षक नहीं आने के कारण शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसके अलावे जन-प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत दी जाने वाली राशि पर भी विस्तृत चर्चा किया जिसमें कई लोगों का नाम नहीं जोड़े जाने की बात किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक में कई सवालों को उठाए जाने पर बीडीओ ने लोगों को भरोसा दिया कि जो भी समस्या है उसकी एक लिस्ट बनाकर उसपर जांच किया जाएगा। इसके अलावे पंचायत में विकास कार्य के बारे में बीडीओ ने कई बिंदुओ पर चर्चा किया। बैठक में सीओ निशा सिंह, बीपीआरओ मो. जिशान के अलावे अन्य कई विभाग के पदाधिकारी एवं मुखिया प्रतीक शर्मा, पप्पू यादव, अशोक यादव, विकास सिंह, महादेव रजक, सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

## बाबा कोकिलचंद धाम मंदिर न्यास समिति की पहली बैठक संपन्न

प्रात : किरण ब्यूरो



गिद्धौर/जमुई। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद पटना से निबंधित बाबा कोकिलचंद धाम मंदिर न्यास समिति की पहली बैठक न्यास अध्यक्ष व जमुई अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन हुई। मौके पर समिति सदस्यों द्वारा न्यास अध्यक्ष व जमुई अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी को बाबा कोकिलचंद की पिंड स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया एवं शुभकामनाएं दी गई।

बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद पटना द्वारा गठित समिति का नाम बाबा कोकिलचंद धाम मंदिर न्यास समिति में 11 सदस्य मनोनीत किये गये है। जिसके पदेन अध्यक्ष के रूप में जमुई के अनुमंडल पदाधिकारी को मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, सचिव चुन चुन कुमार एवं कोषाध्यक्ष नीरज कुमार बनाए गए हैं। वहीं सदस्य के रूप में मनोरंजन कुमार, मृत्युंजय कुमार, निरंजन कुमार, सुबोध सिंह, उमाशंकर सिंह, विजय पाण्डेय एवं हरेराम रावत को शामिल किया गया है।

वहीं उक्त बैठक में शामिल पदाधिकारियों और सदस्यों ने न्यास अध्यक्ष व जमुई अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी को सावन पूर्णिमा और अंतिम सोमवारी पर मंदिर में होने वाले आरती में आमंत्रित किया। जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ सहयोग करने का भरोसा दिया।

वहीं सचिव चुन चुन कुमार ने कहा कि बाबा कोकिलचंद की परम्परागत पूजन अनुष्ठान विधि-विधान सहित पूर्व की भांति जारी रहेगा। जिसके चटिया भारो सिंह भगत, पुजारी जय नारायण पाण्डेय, सेवक टहलुआ हरे राम रावत ही रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाबा कोकिलचंद की आरती पूजन, ग्राम सामूहिक दीपावली, बामर पूजन अनुष्ठान आदि को और भी प्रासंगिक बनाने के साथ-साथ निमार्णाधीन मंदिर को पूरा करने हेतू न्यास सहयोग करेगा। सावन की अंतिम सोमवारी एवं सावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा में भव्य आरती पूजन का आयोजन किया जायेगा। जिसके मुख्य अतिथि न्यास अध्यक्ष व जमुई अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी होंगे। बाबा का निमार्णाधीन मंदिर पुरा करने हेतू समय समय पर स्थानीय लोगों के साथ संपर्क अभियान चलाये जायेंगे।

इस बैठक में सुबोध सिंह, उमाशंकर सिंह, गोपाल सिंह, नेतुला मंदिर कुमार सिकंदरा जमुई के अध्यक्ष हरदेव सिंह, चुन चुन कुमार, नीरज कुमार बाबा कोकिलचंद विचार मंच सोनो संयोजक लभित कुमार, हरेराम रावत, नीलेश सिंह सम्मिलित हुए।

# सेवा पंचायत के केतरु नवादा में दो पक्षों में हुई मारपीट

प्रात : किरण ब्यूरो



जमुई/गिद्धौर। थाना क्षेत्र के सेवा पंचायत अंतर्गत पड़नेवाले केतरु नवादा गांव में मंगलवार को पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर दो पक्षो में जमकर मारपीट हो गयी। जानकारी के अनुसार केतरु नवादा ग्राम निवासी प्रभु राम का गांव के ही पड़ोसी से किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया जो भयंकर मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना में केतरु नवादा गांव निवासी प्रभु राम एवं उनके पुत्र छोटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मामले परिजनों द्वारा ग्रामीणों के मदद से मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए प्रभु राम एवं उनके पुत्र छोटू कुमार का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अजिमा निशात के दिशा निर्देश पर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित प्रभु राम ने गांव के ही रॉकेट कुमार पिता राजू यादव, राजू यादव पिता ढोतल यादव, मुन्ना यादव, सचिन कुमार आदि लोगों पर घर में घुसकर लाठी डंडे एवं धारधार हथियार से बुरी तरह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का आरोप लगाया है। वहीं घटना में पत्नी मंजू देवी के साथ भी अभद्र व्यवहार करने की भी बात परिजनों द्वारा बतायी गयी है। इधर घटना को लेकर पीड़ित द्वारा इसकी सूचना गिद्धौर पुलिस को मामले में समुचित कार्रवाई को ले लिखित आवेदन देकर दी गयी है।

## पूर्व मुखिया दशरथ यादव राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सर्वसम्मति से चयनित

जमुई संवाददाता



लक्ष्मीपुर प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित जनप्रतिनिधि भवन में मंगलवार 05 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ० गोपाल कृष्ण चंदन कुमार के निदेर्शानुसार बैठक आयोजित किया गया। जिसमें राजद किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पवन कुमार यादव लक्ष्मीपुर के प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह के अध्यक्षता में बैठक हुई। जनप्रतिनिधि भवन में प्रखंड के विभिन्न गांवो से आए राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकताओं एवं किसान भाइयों के साथ पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु एक बैठक कर किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में आनंदपुर पंचायत के माननीय पूर्व मुखिया दशरथ प्रसाद यादव का चयन सर्वसम्मति से किया गया। साथ ही लालू प्रसाद यादव की विचारधारा तथा माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का सोच किसानों को अपना अधिकार जन जन तक पहुंचें। इस बैठक में सभी कार्यकर्ता एवं किसान अजय यादव, रउ/रळ जिला अध्यक्ष रामोतार पासवान, हरला पंचायत समिति सदस्य सुरेश पासवान, बिपीन यादव, संजय राम, प्रकाश यादव, सियाशरण यादव, अवधेश यादव, जुगल राम, पैक्स अध्यक्ष मुकेश यादव व सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कार्यकता उपस्थित थे।

ओलंपिक में बाहर होने के बाद बोलीं सिंधु

## मैं खेल जारी रखूंगी लेकिन थोड़े समय के ब्रेक के बाद

**पेरिस (एजेंसी)।** भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने शुक्रवार को कहा कि वह ओलंपिक खेलों से प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर होने के बाद संक्षिप्त ब्रेक लेंगी क्योंकि वह अपने करियर की 'सबसे कड़ी हार में से एक' से उबर रही हैं लेकिन उन्होंने अपने आगे के सफर का 'सावधानीपूर्वक' मूल्यांकन करने के बाद खेल जारी रखने का वादा किया।

रियो ओलंपिक 2016 में रजत और तोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली सिंधु चीन की दुनिया की

नौवें नंबर की खिलाड़ी ही बिंग जियाओ से सीधे गेम में हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। सिंधु ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'अपने भविष्य के बारे में मैं स्पष्ट होना चाहती हूं, मैं खेलना जारी रखूंगी, हालांकि थोड़े समय के ब्रेक के बाद। मेरे शरीर और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरे दिमाग को इसकी जरूरत है। हालांकि मैं आगे की यात्रा का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की योजना बना रही हूं और जिस खेल से मैं बहुत प्यार करती हूं, उसे खेलने में ज्यादा आनंद ढूंढूंगी।

उन्होंने लिखा, 'यह हार मेरे करियर की सबसे कठिन हार में से एक है। इसे स्वीकार करने में समय लगेगा लेकिन जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, मुझे पता है कि मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। भारत की शीर्ष खिलाड़ियों शामिल इस 29 वर्षीय ने कहा कि खेलों के लिए उनकी तैयारी आदर्श नहीं थी लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उन्होंने कहा, 'पेरिस 2024 की यात्रा एक संघर्ष थी जिसमें दो साल तक चोट से जूझना और खेल से लंबे समय तक दूर रहना शामिल था। इन चुनौतियों के बावजूद यहां खड़े होकर और तीसरे ओलंपिक में अपने अद्भुत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वास्तव में धन्य महसूस करती हूं।

## एंजेला कैरिनी को आईबीए से मिलेंगे 50 हजार डॉलर

### 'पुरुष' बॉक्सर के खिलाफ खेलने से कर दिया था मना

**पेरिस (एजेंसी)।** इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (आईबीए) ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक में अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खेलीफ के खिलाफ वेल्टरवेट राउंड ऑफ 16 मुकाबले से हटने के बाद इटली की एंजेला कैरिनी को 50,000 डॉलर की पुरस्कार राशि देगी। यह मैच केवल 46 सेकंड तक ही चल पाया था। कैरिनी खलीफ के आक्रामक मुक्कों से अभिभूत हो गई, जिसके कारण वह जल्दी बाहर हो गई।

### आईबीए ने लगा रखा है बैन

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता छीन ली गए। आईबीए ने यह भी कहा कि कैरिनी के महासंघ और कोच प्रत्येक को 25,000 डॉलर मिलेंगे। इस घटना ने खेलों में लैंगिक पात्रता पर व्यापक विवाद को जन्म दे दिया है। आईबीए के पात्रता नियमों में असफल होने के कारण 2023 विश्व चैंपियनशिप में दोनों एथलीटों को अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद, खेलीफ को ताइवान के डबल विश्व चैंपियन लिन यू-टिंग के साथ पेरिस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी।

# लक्ष्य सेन ने रचा पेरिस ओलंपिक में इतिहास

● पदक से सिर्फ एक जीत दूर, सेमीफाइनल में मारी एंट्री ● क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने दर्ज की रोमांचक जीत

## सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बने पहले भारतीय शटलर

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** पेरिस ओलंपिक 2024 के 7वें दिन भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने इतिहास रचते हुए मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस तरह लक्ष्य सेन अब मेडल जीतने से सिर्फ एक मैच दूर हैं। सेमीफाइनल में वह अगर जीत हासिल करते हैं तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्य सेन ओलंपिक के मेंस सिंगल्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने भारत के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के चोउ तियेन चेन को रोमांचक मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

पी वी सिंधू और सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के हारने के बाद अब पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में सारी उम्मीदें लक्ष्य पर टिकी हैं। भारत के लिए ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में साइना नेहवाल (2012) कांस्य, रजत (2016) और कांस्य (2020) जीत चुकी हैं। राष्ट्रमंडल चैम्पियन लक्ष्य का सामना अब 2021 के विश्व चैम्पियन सिंगापुर के लोह कीन यू और ओलंपिक चैम्पियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। भारत के लिए ओलंपिक बैडमिंटन पुरूष एकल स्पर्धा में पारूपल्ली कश्यप 2012 लंदन ओलंपिक में और किदाम्बी श्रीकांत 2016 रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे।

### दीपिका क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

**पेरिस (एजेंसी)।** दीपिका ने जर्मनी की मिशेल क्रॉपेन को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका सामना हमवतन भजन कौर से हो सकता है, जिनका अगला मुकाबला इंडोनेशिया की डायनांडा चोइरुनिसा से होगा।

### पेरिस ओलिम्पिक में लक्ष्य सेन

ग्रुप एल - बनाम जूलियन कैराग्गी (बैल्जियम)
21-19, 21-14 (जीत)
ग्रुप एल - बनाम जोनाथन क्रिस्टी (इंडोनेशिया)
21-18, 21-12 (जीत)
राऊंड 16 - बनाम एचएस प्रणोय (भारत)
21-12, 21-6 (जीत)
क्वार्टरफाइनल - बनाम चाउ टीएन चेन (ताइपे)
19-21, 21-15, 21-12 (जीत)

लक्ष्य इससे पहले पिछले 5 में से 4 मैच चेन से हार चुके थे। दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का था और पासा पल पल पलटता रहा। दोनों ने लंबी रेलियां लगाई और पिछड़कर वापसी करते रहे। पहले गेम में एक समय स्कोर 15.15 से बराबर था और लक्ष्य ने तीन अंक की बढ़त बना ली। लेकिन चेन ने वापसी करते हुए तीन अंक बनाये और बैकहैंड पर लक्ष्य की गलती का फायदा उठाते हुए पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में भी दोनों ने आक्रामक शुरूआत की। जब स्कोर 7.7 था तब लक्ष्य ने लाइन कॉल के लिए रिव्यू लिया जिसका फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा।

## ओलंपिक में मनु भाकर का सफर खत्म

### मनु ने हैट्रिक चूककर भी वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर सका

पेरिस (एजेंसी)। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर का सफर खत्म हो गया है। वह 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। एक समय वह लगातार टॉप-3 में चल रही थीं। लेकिन 8वें राउंड में 5 में से 2 ही टारगेट हिट कर पाईं। इसकी वजह से चौथे पर चली गईं। फिर तीसरे और चौथे नंबर की शूटर में शूटआउट हुआ। वहां मनु को हार मिली।

### तीन इवेंट के फाइनल में पहुंची

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में तीन इवेंट में हिस्सा लिया। वह सभी इवेंट के फाइनल में भी पहुंचीं। मनु एक ओलंपिक में तीन इवेंट का फाइनल खेलने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। यही वजह है कि मेडल की हैट्रिक नहीं लगाने के बाद भी उनके नाम इतिहास में दर्ज हो गया।

### यूथ ओलंपिक में जीत चुकीं गोल्ड

मनु भाकर यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2018 में 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना में हुए यूथ ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता था। वह यूथ ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला के साथ ही पहली शूटर भी थीं।

### ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय शूटर

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह ओलंपिक के शूटिंग इवेंट में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। इसके बाद 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉज जीतकर उन्होंने अपना दूसरा मेडल पूरा किया था।

वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप 2024

## कार्लसन से हारे अर्जुन, डबल्यूआर टीम को बढ़त

**अस्ताना , कज़ाकिस्तान (एजेंसी)।** विश्व रैपिड टीम शतरंज चैंपियनशिप के पहले तीन राउंड के बाद विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन के नेतृत्व वाली टीम डबल्यूआर नें भारत की टीम एमजीडी1 को पराजित करते हुए एक बार फिर अपना खिताब जीतने की और मजबूत कदम बढ़ा दिये है।

डबल्यूआर टीम में कार्लसन नें तीसरे राउंड में पहले बोर्ड पर भारत के अर्जुन एरिगासी को एक शानदार राजा और प्यादों के एंडगेम में काले मोहरो से पराजित किया, दूसरे बोर्ड पर एसएल नारायनन को यान

नेपोमनिशी से , चौंथे बोर्ड पर प्रणव वी को अब्दुसत्तोरोव नोदिरबेक से पराजय का सामना करना पड़ा , एमडीजी1 की ओर से पांचवें बोर्ड पर हारिका द्रोणावल्ली नें हाऊ ईफ़ान को और छठे बोर्ड पर मिहिर शाह नें वादिम रोसेंस्टेन को मात दी और तीसरे बोर्ड पर रौनक साधवानी नें यान डूड़ा से बाजी ड्रॉ खेली पर डबल्यूआर टीम 3.5-2.5 से बाजी जीतने में सफल रही।

अन्य मुकाबलो में दो विश्व चैम्पियन डींग लीरेन और जून वेंजून की मौजूदगी में डिकेड चाइना नें टीम हंस को 4-2 से ,टीम चैसि नें किंग्स ऑफ चैस करको को 4-2 से , यूएई की टीम अल ऐन नें रुकिस को 5-1 से ,मेजबान कजकिस्तान चैस नें मिश्र को 6-0 से पराजित किया । रैपिड में कुल 12 राउंड खेले जाएँगे ।

पेरिस ओलंपिक 2024-तीरंदाजी

## धीरज और अंकिता की मिश्रित जोड़ी कांस्य पदक मुकाबले में हारी

**पेरिस (एजेंसी)।** भारत के धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत पेरिस ओलंपिक में मिश्रित युगल तीरंदाजी में पदक से चूक गए जिन्हें कांस्य के पदक मुकाबले में अमेरिका की कैसी कॉफहोल्ड और ब्रैडी एलिसन की जोड़ी ने 6-2 से हराया। धीरज और अंकिता की पांचवीं वरीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहला सेट जीतने के बावजूद किम वूजिन और लिम सिहियोन की दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीय जोड़ी से 2-6 से हारने से कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंची थी। अमेरिकी जोड़ी के खिलाफ उनकी शुरूआत अच्छी नहीं रही जिसमें उन्होंने पहले दो सेट गंवा दिए।

भारतीय तीरंदाजों ने तीसरा सेट जीतकर वापसी की उम्मीद जगाई लेकिन कैसी और ब्रैडी की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और 38-37, 37-35, 34-38, 37-35 से कांस्य पदक जीत लिया। इससे पहले धीरज और अंकिता को दक्षिण कोरियाई जोड़ी से 38-36, 35-38, 36-38, 38-39 से हार झेलनी पड़ी। धीरज और अंकिता ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहला सेट 38-36 से जीता। लिम ने आठ और 10 अंक के साथ शुरुआत की जबकि किम ने दोनों बार नौ अंक जुटाए। धीरज ने

अपने दोनों निशाने 10 अंक पर लगाकर जीत सुनिश्चित की। भारतीय जोड़ी ने दूसरा सेट 35-38 से गंवाया। लिम और किम ने 10-10 अंक से शुरुआत की।

अंकिता पहले प्रयास में 8 अंक ही जुटा सकी जबकि धीरज ने नौ अंक पर निशाना साधा। लिम और किम दोनों ने दूसरे प्रयास में नौ अंक के साथ जीत सुनिश्चित की और स्कोर 2-2 किया। धीरज और अंकिता तीसरा सेट भी 36-38 से हार गए। लिम ने नौ और किम ने 10 अंक से शुरुआत की जिसके जवाब में अंकिता और धीरज ने नौ-नौ अंक जुटाए। लिम और किम ने अपने अंक दोहराकर मजबूत स्कोर बनाया।

## टी20 सीरीज गंवाने के बाद कोच जयसूर्या ने निकाली श्रीलंकाई टीम में खामी

**कोलंबो (एजेंसी)।** श्रीलंका अंतरिम कोच सनथ जयसूर्या ने कहा कि भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 श्रीलंका में हार के बाद उनके खिलाड़ियों को अपनी 'क्रिकेट जागरूकता' में सुधार करने पर काम करना होगा। श्रीलंका ने तीन मैचों की श्रृंखला के दौरान कई बार अच्छी स्थिति में होने के बाद लगातार विकेट गंवाए और टीम को 0-3 से हार झेलनी पड़ी। जयसूर्या ने तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से पहले कहा कि मुझे प्रतिबद्धता की कमी नहीं दिखती, लेकिन उन्हें दबाव से बेहतर तरीके से निपटना होगा। उन्हें मैच की परिस्थितियों को लेकर अपनी क्रिकेट जागरूकता को बेहतर करने की जरूरत है। हम इस हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप इससे दूर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इस बात का एहसास होगा हमें तब तक उन्हें विश्वास और समर्थन देते रहना होगा।

जयसूर्या ने कहा कि बल्लेबाजों को लगातार छक्के लगाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रीलंका के मैदान बड़े है और चौके तथा दो रन दौड़कर लेने के पर्याप्त मौके देते हैं। उन्होंने कहा, ''जब आप पावर हिटिंग के बारे में बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको (श्रीलंका में) इसकी उतनी आवश्यकता है। अगर आप पर्याप्त चौके और पर्याप्त दो रन लगाते हैं, तो आपको वह स्कोर मिल जाता है जिसकी आपको जरूरत है।

श्रीलंका के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि श्रीलंका के मैदान थोड़े बड़े हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप चौके लगाने के साथ दो या तीन रन नहीं चुरा सकते है। अगर आप ऐसा कर सके तो आप इतने सारे छक्के मारे बिना भी काम पूरा कर सकते हैं। इस पूर्व दिग्गज हरफनमौला ने कहा कि खिलाड़ियों को टी20 श्रृंखला जैसे खराब प्रदर्शन के बाद आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार रहना

चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक कोच के रूप में, एक सहयोगी स्टाफ के रूप में, एक टीम के रूप में आलोचना को भी स्वीकार करना होगा।

एक क्रिकेटर के रूप में अपने समय में मुझे इस (परिस्थिति) से गुजरना पड़ा है, हर क्रिकेटर को इससे गुजरना पड़ता है। जब आलोचना होती है, तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। जयसूर्या ने उम्मीद जताई की नवनियुक्त कप्तान चरित असलांका जल्द ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि असलांका इस प्रारूप में हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं लेकिन जब आपको कप्तानी मिलती है तो कुछ दबाव होता है। आपको थोड़ा समय देना होगा।

## 14 गेंद में एक रन नहीं बना पाने से निराश हूं : रोहित शर्मा

**कोलंबो (एजेंसी)।** श्रीलंका के खिलाफ हले वनडे में जीत की स्थिति में होने के बावजूद ारतीय टीम को टाई से संतोष करना पड़ा। श्रीलंका पहले खेलते हुए 230 रन बनाए थे। भारतीय टीम ो 14 गेंदों पर एक रन चाहिए था लेकिन अर्शदीप रूप में आखिरी विकेट गिर जाने के कारण काबला टाई हो गया। मैच के बाद निराश भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ो श्रीलंका के खिलाफ मैच में जीत के लिए 14 गेंद एक रन बना लेना चाहिए था। भारतीय टीम 231 न के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित की 58 रन की ज पारी के बावजूद 47.5 ओवरों में 230 रन पर मट गई।

भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के 4 स्पिनरों के ामने कभी सहज नहीं रहे। कप्तान रोहित ने मैच के ाद कहा कि स्कोर हासिल किया जा सकता था। किन इसके लिए आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी गी। हमने टुकड़ों में अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन य नहीं बना पाए। हमने अच्छी शुरुआत की। किन हमें पता था कि स्पिन आने पर खेल बदल

जाएगा। हमने कुछ विकेट गंवा दिए और पिछड़ गए। कप्तान ने ज्यादा आलोचना नहीं करते हुए कहा कि हमने अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच साझेदारी से वापसी की। लेकिन इनके आउट होने से फिर संतुलन गड़बड़ा गया। 14 गेंद में एक रन नहीं बना पाने से निराश हूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

### ऐसा रहा मुकाबला

कप्तान रोहित शर्मा के बाद मध्यक्रम बल्लेबाजों के जोर से भारतीय टीम ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम से पहला वनडे मुकाबला टाई करवा लिया। श्रीलंकाई टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 230 रन बनाए थे। पाथुम निसांका 56 तो डुनिथ 67 रन बनाने में सफल रहे थे। जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत अच्छी रही। लेकिन वाशिंगटन सुंदर, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के जल्द आऊट होने के कारण स्थिति गड़बड़ हो गई। लेकिन अंत में केएल राहुल, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने संक्षिप्त पारियां खेली। 48वें ओवर में भारतीय टीम ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट गंवाए जिससे मुकाबला टाई हो गया। श्रीलंका के लिए हसरंगा ने 3 तो असलांका और डुनिथ ने 2-2 विकेट लिए।

### रोहित बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बने

भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच टाई हो गया। अब वनडे सीरीज के नतीजे के लिए बाकी 2 मैच जरूरी हो गया। दूसरा वनडे 4 अगस्त को कोलंबो में ही खेला जाएगा। भारत ने टी-20 सीरीज 3-0 से जीती थी। बतौर कप्तान रोहित सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बने।

### किसी टाईड गेम में सबसे ज्यादा रन

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी टाईड गेम में किसी प्लेयर के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के डीन जोंस हैं जिनके 5 इनिंग में 328 रन हैं। वहीं रोहित के 6 इनिंग में 302 रन हैं।

### बतौर कप्तान इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स

किसी भी कप्तान द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में रोहित शर्मा ने इयोन मॉर्गन को पछाड़ा हैं। अब उनके 234 सिक्स हो गए हैं, जबकि मॉर्गन के 233 सिक्स हैं। वहीं तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### आईआईएम संबलपुर के मैनेजमेंट इमर्शन प्रोग्राम में शामिल हुए आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के 62 छात्र

**संबलपुर एजेंसी।** देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक आईआईएम संबलपुर ने आईआईएलएम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मैनेजमेंट इमर्शन प्रोग्राम (एमआईपी) का आयोजन किया। चार दिवसीय आवासीय मैनेजमेंट इमर्शन प्रोग्राम का उद्देश्य आईआईएम संबलपुर में मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ ही विद्यार्थियों को कैम्पस लाइफ का गहन अनुभव प्रदान करना था। 30 जुलाई से 2 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित मैनेजमेंट इमर्शन में आईआईएलएम विश्वविद्यालय के 62 छात्र शामिल हुए। इस प्रोग्राम को विभिन्न इंटरैक्टिव सत्रों, कार्यशालाओं और केस स्टडीज़ के माध्यम से फ़िल्प्ड कक्षाओं, व्यावहारिक प्रबंधन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अनुभव में अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आईआईएम संबलपुर के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और उद्योग विशेषज्ञों ने इस प्रोग्राम को और प्रभावी बनाने में सहायता की।

इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को नजदीक से जानने और समझने का अवसर भी मिला। इसके अलावा, उन्होंने एक सोशल आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अट्टाबीरा में बुनाई उद्योगों का दौरा भी किया। इस यात्रा ने उन्हें स्थानीय बुनकरों से जुड़ने, उनके शिल्प को समझने और बुनकर समुदाय को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने में आईआईएम संबलपुर के योगदान को समझने का अवसर प्रदान किया।

### 54 प्रतिशत माता-पिता के पास बच्चों के सवालों का फौरन कोई जवाब नहीं होता

**बेंगलुरु एजेंसी।** बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और माता-पिता हमेशा ऐसे सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो। यह बात अमेज़न एलेक्सा के कांतार के ज़रिये जून 2024 को छह शहरों में 750 से अधिक अभिभावकों के बीच किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में सामने आई। इस सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 54 प्रतिशत माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास बच्चों के सवालों का फौरन कोई जवाब नहीं होता। साथ ही इसमें 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उन्हें पता न हो तो वे तुरंत सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि सर्वेक्षण में शामिल 44 प्रतिशत माता-पिता ने मौके पर ही मनगढ़ंत जवाब देने की बात स्वीकार की। सर्वेक्षण में शामिल केवल 3 प्रतिशत माता-पिता ने सवाल को अनदेखा किया या बच्चे को सवाल पूछने से रोकने के लिए विषय बदल दिया। बच्चे अक्सर कार कैसे बनाएं?, ब्रह्मांड कितना बड़ा है?, हवाई जहाज कैसे उड़ता है?, और मछली पानी के नीचे कैसे सांस लेती है?, जैसे सवाल पूछते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 60 प्रतिशत माता-पिता ने कहा कि वे अक्सर हैरान हो जाते हैं जब बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं।

### कुंवारापुर फिल्म के माध्यम से मालवा और निमाड़ को प्रेजेंट किया: राजेंद्र राठौर

**इंदौर।** स्थानीय कलाकारों के हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए अविनाश फिल्म्स और मेक्सन बैटरी के बैनर तले कॉमेडी फिल्म 'कुंवारापुर' बनाई है। फिल्म के डायरेक्टर राजेंद्र राठौर की यह पहली थियेटर रिलीज फिल्म है, जो 9 अगस्त को सिनेमाघर में आ रही है। फिल्म के मुख्य कलाकार असरानी, विक्रम कोचर, अविनाश तिवारी, अन्नपूर्णा द्विवेदी, गरिमा अग्रवाल, उर्मिला शर्मा के साथ स्थानीय कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है। फिल्म के निर्माता लक्ष्मण बर्फा है। रतलाम के सैलाना के रहने वाले डायरेक्टर राजेंद्र राठौर मुंबई में काम कर रहे हैं। वह अब तक 50 विज्ञापन फिल्में और 10 म्यूजिक वीडियो के साथ शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज बना चुके हैं। उनके निर्देशन में सोनू सूद, हेमा मालिनी, उर्वशी रौतेला, भाग्यश्री, गौहर खान जैसे कई कलाकार काम कर चुके हैं। डायरेक्टर राजेंद्र राठौर ने बताया कि - अभी तक मध्य प्रदेश का कोई रीजनल सिनेमा नहीं है।

# जिसको बड़ा नेता बनना है, वह दबाएगी पैर, कांग्रेस एमएलए का वीडियो दिखा भाजपा ने घेरा

**जयपुर, एजेंसी।** विधायक के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान विधानसभा में रात गुजारी। इस दौरान एक विधायक की विवादित टिप्पणी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वायरल हुए एक वीडियो में कांग्रेस विधायक यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिसको बड़ा नेता बनना है, वह पैर दबाएगी। बड़े के चरण दबाने से ही बड़े बनते है। धरने पर बैठे विधायकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मदन राठौड़ ने एक्स पर लिखा, राजस्थान विधानसभा में धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक यह कह रहे हैं कि जिसको बड़ा नेता बनना है, वह पैर दबाएगी। नारीशक्ति के प्रति कांग्रेस के नेताओं की यह सोच शर्मनाक और निंदनीय है। लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ

नैतिक मूल्य भी कांग्रेसी विधायक भूल गए हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से निलंबित करने के बाद भारी हंगामा हो गया था। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस विधायक पूरी रात सदन में धरना पर बैठ गए। इसी दौरान नेताओं में हुई बातचीत का एक वीडियो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने शेयर किया है, जो इस समय वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कांग्रेस विधायक कहते हुए सुनाई दे रहे है कि जिसको बड़ा नेता बनना होगा वर पैर दबाएगी।कांग्रेस विधायक विधानसभा में पूरी रात धरने पर बैठे रहे और तालियां बजाते हुए एक सुर में रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम भजन गाते रहे।

सरकार की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा,राजस्थान विधानसभा के सदस्य मुकेश भाकर द्वारा आज आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए उन्हें वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए इस पर अध्यक्ष देवनानी ने कहा, भाकर को सदन से निलंबित किया जाता है।इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। जब कार्यवाही वापस शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक वहां मौजूद रहे। उनसे बाहर जाने के लिए कहा गया. मगर वो नहीं गए। इसके बाद मार्शल को उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा गया।

## सूटकेस के अंदर मिली लाश, साथी की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने जा रहे थे दिव्यांग

**मुंबई, एजेंसी।** महाराष्ट्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दो लोग हत्या के बाद शव को सूटकेस में छिपाकर ले जा रहे थे। यह लोग शव को लेकर ट्रेन में सवार हुए थे और ऐसी आशंका है कि उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे। लेकिन दादर स्टेशन पर ट्रेन में चेकिंग के दौरान यह सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक डेडबॉडी की शिनाख्त हो गई है। वहीं, सूटकेस में शव लेकर जा रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी संबंधित थाने को दे दी गई है। खास बात यह है कि जिस शख्स का शव मिला है वह भी दिव्यांग था और दोनों आरोपी भी दिव्यांग हैं।

जानकारी के मुताबिक दो लोग एक सूटकेस लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान आरपीएफ और जीआरपी ने चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान शक होने पर सूटकेस खुलवाया गया तो उसमें से शव निकला। इसी दौरान एक आरोपी वहां से भाग निकला, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में दूसरे आरोपी को भी उल्हासनगर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि घटना पिढ़ौनी थाना क्षेत्र में हुई है। आरोपियों की पहचान जय प्रवीण चावड़ा और सुजीत सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

## जंगल में मिली यूएस की महिला का बड़ा दावा, कहा- खुद को ही पेड़ से बांध लिया था

**मुंबई, एजेंसी।** महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक जंगल में लोहे की जंजीर से पेड़ से बंधी मिली 50 वर्षीय अमेरिकी महिला ने अब पुलिस को बताया है कि उसने खुद को जंजीर से बांधा था और इस घटना में कोई और शामिल नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने महिला द्वारा आत्म-क्षति पहुंचाने के इस कृत्य के लिए उसकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। एक चरवाहे ने 27 जुलाई को जंगल में जब उसकी चीखें सुनीं तो मामला सामने आया। पेड़ से बंधी महिला काफी कमजोर दिखाई दी। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसे बचाया और अस्पताल ले गई।

सिंधुदुर्ग पुलिस ने शनिवार को महिला का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने बताया कि वह तीन ताले और लोहे की जंजीर लेकर आई थी और उसने एक ताले और जंजीर का इस्तेमाल करके खुद को सोनुरली गांव के पास जंगल में एक पेड़ से बांध लिया। पुलिस ने उसके पास से उसके अमेरिकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी और तमिलनाडु के पते वाला आधार कार्ड बरामद किया है। उसके पास से उसके अमान्य हो चुके वीजा की कॉपी भी बरामद हुई है।

पुलिस को दिए बयान में अमेरिका महिला ने यह भी बताया है कि उसका कोई पति नहीं है। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला है कि महिला की मां अमेरिका में रहती है, लेकिन अब तक उनके परिवार से किसी ने संपर्क नहीं किया है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला कितने दिनों तक जंगल में चेन से बंधी हुई थी।

## अलवर में सिलीसेढ़ क्षेत्र में अवैध होटल-रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर, निशाने पर भूमाफिया

**जयपुर , एजेंसी।** राजस्थान के अलवर शहर से करीब 16 किमी दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर ( सिलीसेढ़ एरिया) कैचमेंट एरिया (डूब क्षेत्र) में बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं। होटल और रेस्टोरेंट खोलकर लोग मोटी कमाई करने लगे और इसके जिम्मेदार कलेक्टर-एसडीएम सिंचाई विभाग के साथ रिव्यू मीटिंग करते रहे। लेकिन आज अलवर प्रशासन ने सिलीसेढ़ क्षेत्र में बने अवैध होटल-रेस्टोरेंट पर बड़ी करवाई कर दी। सिलीसेढ़ क्षेत्र में बने अवैध होटल-रेस्टोरेंट सहित किये गए अन्य अतिक्रम पर 6 जेसीबी और भारी पुलिस दल-बल के साथ प्रशासन पंहुचा।पहले चरण में 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। सिलीसेढ़ के बहाव क्षेत्र में किए गए 16 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत झील के बहाव व सरिस्का के बफर जोन में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता लेकिन सिलीसेढ़ में अतिक्रमण की बाढ़ आ गई। साथ ही विधानसभा में भी

पहले चरण में 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। सिलीसेढ़ के बहाव क्षेत्र में किए गए 16 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र और बफर जोन में बनाए गए

होटल पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही प्रशासन का अमला पहुंच गया।शुरुआत सिलीसेढ़ में की गई अवैध प्लाटिंग से की गई। अवैध प्लाटिंग के लिए चारों ओर दीवार बनाकर रोका गया रास्ता हटाया गया। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। भारी मात्रा में फोर्स है। सिलीसेढ़ में प्रभावशाली लोगों के होटल-रेस्टोरेंट झील के बहाव क्षेत्र व बफर जोन में बने हुए हैं। बता दें इस क्षेत्र में लगभग 150 से ज्यादा अतिक्रमण हो गए। साथ ही विधानसभा में भी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया। पहले चरण में 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इन पर कार्रवाई 4 अगस्त को होनी थी लेकिन प्रशासन तिथि दो बार आगे बढ़ता रहा। अब 6 अगस्त को कार्रवाई हुई है।

सिलीसेढ़ में प्रभावशाली लोगों के होटल-रेस्टोरेंट झील के बहाव क्षेत्र व बफर जोन में बने हुए हैं। जिन्हे प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर सर्वे कराया। बफर जोन में 14 होटल-रेस्टोरेंट मिले हैं। वहीं झील से 50 मीटर के दायरे में बहाव क्षेत्र में 16 अतिक्रमण मिले। पूर्व में नोटिस देने के बाद ये करवाई की गई।

## शेख हसीना के बेटे का बयान- देश नहीं छोड़ना चाहती थी मां, अब बांग्लादेश बन जाएगा पाकिस्तान

**ढाका, एजेंसी।** बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भारत आ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना अगले कुछ दिनों तक भारत में शरण ले सकती हैं और इसके बाद वह लंदन जा सकती हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन परिवार के दबाव के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में मौजूद उनके बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने इस बारे में खुलासा किया है।

सजीब वाजेद जॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा हो सकता है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहती थीं। लेकिन परिवार के दबाव के कारण और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता की वजह से उन्होंने देश छोड़ा। हमने जोर दिया कि यह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। हम उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए हमने उन्हें देश छोड़ने को कहा।मैंने आज सुबह शेख हसीना से बात की। बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति आप देख सकते हैं। वह ठीक हैं लेकिन बहुत निराश हैं। यह उनके लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि बांग्लादेश को एक विकसित राष्ट्र बनाना उनका सपना था। उन्होंने पिछले 15 वर्षों में इस दिशा में बहुत मेहनत की और देश को उग्रवादियों और आतंकवाद से सुरक्षित रखा। बावजूद इसके अब मुखर

अल्पसंख्यक, विपक्ष और उग्रवादियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है।

जनवरी में लगातार चौथी बार सत्ता में आई शेख हसीना को सात महीने से भी कम समय में अपने देश को छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी बहन के साथ भारत में शरण ली। उनके बेटे ने बताया कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई कि शेख हसीना आगे कहां जाएंगी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन वर्तमान में हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे परिवार ने बांग्लादेश में विकास का काम किया है। अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होने की इच्छा नहीं दिखाते, तो उन्हें वही नेतृत्व मिलेगा, जिसके वे हकदार हैं।

सजीब वाजेद ने बातचीत के दौरान कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा हो सकता है, उनका इशारा कट्टरपंथ की ओर था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी मां ने देश के लिए अच्छा काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल, आवामी लीग अभी भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी मां का बांग्लादेश में लौटने का कोई प्लान है, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वह 77 साल की हैं।

## मुस्लिम कर रहे हिंदू मंदिरों की हिफाजत, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच अनोखी मुहिम

**ढाका, एजेंसी।** बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंदू मंदिर निशाने पर हैं। इस बीच वहां के कुछ छात्रों ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। यह लोग टोली बनाकर बारी-बारी से मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम प्रदर्शनकारी इसे निशाना न बना सकें। गौरतलब है कि नरसिंगदी जिले के कांदीपारा गांव में काली मंदिर पर हमला हुआ है। रात के तीन बजे ढाका के ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर की पहरेदारी करते हुए छात्रों के विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के मुस्लिम धर्मगुरु भी खुद ही मंदिरों की हिफाजत में लगे हुए हैं। इसके अलावा हिंदू इलाकों में सेना भी तैनात की गई है। सेना यहां पर हिंदुओं की मुसलमानों से हिफाजत कर रही है। बांग्लादेश में देशव्यापी आंदोलन के समन्वयकों ने सोमवार को छात्रों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद देश में पैदा हुई स्थिति में किसी को भी लूट का मौका न मिले। इसके साथ ही समन्वयकों ने छात्रों से वांछित लक्ष्य हासिल होने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया। आंदोलन के समन्वयकर्ताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने छात्रों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्तमान स्थिति में किसी को भी लूट का अवसर न मिले। इस्लाम ने एक बांग्ला समाचार चैनल के साथ बातचीत में कहा कि हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी है। इस अवसर पर किसी को भी लूटने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने छात्रों से वांछित लक्ष्य प्राप्त होने तक शांतिपूर्वक सड़कों पर बैठने की अपील करते हुए कहा कि उनके आंदोलन का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा दमनकारी व्यवस्था में सुधार करना है।

# जनरल ज़मान से बचना..., भारत ने एक साल पहले ही हसीना को किया था आगाह

**ढाका, एजेंसी।** बांग्लादेश में फैले अराजकता के बीच सोमवार को पीएम हसीना को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जान बचाने के लिए देश छोड़ने की भी नौबत आ गई और देश संभालने की जिम्मेदारी अब सेना ने ले ली है। हालांकि इन सब से पहले भारत ने एक साल पहले ही जनरल ज़मान को लेकर आगाह किया था। पिछले साल 23 जून, 2023 को बांग्लादेश के सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने शेख हसीना को जनरल ज़मान के चीन की तरफ झुकाव को लेकर आगाह किया था। हसीना को जनरल वेकर-उस-ज़मान को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर ध्यान न देने की कीमत चुकानी पड़ी है।

देश में बढ़ते विरोध को रोकने के

बजाय जनरल ज़मान ने शेख हसीना को देश छोड़ने की चेतावनी दी। 15 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज हसीना को सेना ने सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। जुंटा ने बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। इस बात का सबूत है कि अब देश में जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्रशिबिर जैसे इस्लामी संगठन देश की कट्टरपंथी राजनीति में आगे आएंगे। इससे पहले शेख हसीना ने अप्रैल 2023 में ही संकेत दे दिया था कि वह जनवरी 2024 में होने वाले आम चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। हालांकि और अपने समर्थकों के कहने के बाद वह बेमन से चुनाव मैदान में उतरी थीं। इस्लामवादियों और पश्चिमीं एजेंटों के खतरे को अच्छी तरह से जानते हुए हसीना नहीं चाहती थीं कि उनके परिवार में कोई भी उनका उत्तराधिकारी बने क्योंकि उन्हें पता था कि उनके विरोधी उन्हें मार देंगे। इस तरह हसीना इस्लामवादियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार थीं जो सोमवार को सेना की साजिशों की वजह से आखिरकार ढह गई।

**कट्टरपंथी छात्र हो सकते हैं सेना के खिलाफ:** भले ही सेना और उत्साही कट्टरपंथी शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे हों लेकिन बांग्लादेश खुद पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के कगार पर है और उसे इससे उबरने के लिए पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत होगी। बेरोजगारी की दर को देखते हुए जेईआई से जुड़े कट्टरपंथी छात्र सेना के खिलाफ हो सकते हैं।

### भारतीय ज्योतिषी ने पहले ही कर थी शेख हसीना की भविष्यवाणी, कहा था अगस्त में सावधान रहना

बांग्लादेश हिंसा से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं और सुरक्षा के लिहाज से मुल्क से भी निकल चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि हसीना के इस हाल की भविष्यवाणी भारत के एक ज्योतिषी ने एक साल पहले ही कर दी थी। फिलहाल, पूर्व पीएम भारत में हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रिटेन में शरण मिलने के लिए मंजूरी का इंतजार है। ज्योतिषी प्रशांत किनी ने अपने ही भविष्यवाणी पर बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पुरानी पोस्ट शेयर की और कहा, मैंने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि शेख हसीना अगस्त 2024 में मुश्किल में होंगी। क्या वह अपना देश छोड़कर भाग रही हैं। खबरें हैं कि परिवार के कहने पर ही हसीना ने देश छोड़े का फैसला किया है। किनी ने अपनी पुरानी पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर मेरी भविष्यवाणी है कि शेख हसीना को 2024 के मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने में सतर्क रहना चाहिए। उनपर जानलेवा हमले भी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना के इस्तीफा देने के बाद ही प्रदर्शनकारी उनके आवास पर पहुंच गए थे और जमकर हंगामा किया था। एजेंसी वार्ता के अनुसार, बांग्लादेश में दंगाइयों ने अपने नेता औ हसीना के इस्तीफे के बीच अवामी लीग राजनीतिक दल के कई प्रतिनिधियों के घरों और कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की, हसीना के पूर्व निवास को भी लूट लिया गया। यूएनबी समाचार एजेंसी ने पार्टी नेताओं के हवाले से यह खबर दी। शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद लोगों के एक समूह ने प्रवासी मामलों और विदेशी रोजगार राज्य मंत्री के आवास, शहर के न्याय विभाग और अवामी लीग के सदस्य अवामी लीग के शहर सचिव के आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

मुद्रक तथा प्रकाशक रंजीत राय द्वारा स्वामी आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-16 एवं 17, रोड नं. 9, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना-800013 के पक्ष में आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेस से मुद्रित एवं सी-20, एस.के. पुरी, नियर बसावन पार्क, पटना, बिहार-800013 से प्रकाशित संपादक- देवन प्रसाद

(नोटः प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं और किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा पटना न्यायालय में ही किया जाएगा।) RNI. No. BIHHIN/2013/49676, Email: news@pratahkiran.com, patna@pratahkiran.com, 9212228045, 8130691216, 9971557129